

Printed by  
Swami Tribhuvandas Shastri,  
Shree Ramananda Printing Press  
Kankaria Road,  
Ahmedabad-22,  
and Published by  
Dalsukh Malvania  
Director  
L. D. Institute of Indology  
Ahmedabad-9.

FIRST EDITION  
October, 1975

जिनेश्वरसूरिविरचित

# गाहारयणकोस

---

संपादक

पं० अमृतलाल मो भोजक  
नगीन जी. शाह



प्रकाशक

लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर  
अहमदाबाद-९



## PREFACE

The L. D. Institute of Indology has great pleasure in offering to the world of Prakrit scholars the hitherto unpublished Gāhārayanakosa compiled by Jineśvarasūri in 13th century of Vikrama Era. It has 58 sections. Its arrangement and subjectmatter closely follow those of the other similar anthologies. The importance of gāthāsaṅgrahas or anthologies consists in rescuing from oblivion a large number of fleeting verses.

The L. D. Institute of Indology is thankful to Pt Amritlal M Bhojak and Dr. Nagin J. Shah for editing this interesting work. They have also edited in this volume hitherto unpublished two other tiny gāthāsaṅgrahas. Some important words occurring in these three gāthāsaṅgrahas are listed in the first Appendix. The second Appendix lists the gāthās common to the Gāhārayanakosa and the Vajjalagga. They have given the gāthā index of all the three gāthāsaṅgrahas separately. Thus they have taken great pains to make the edition useful. They have tried to make the text as flawless as possible. Their introduction is really interesting and informative.

It is hoped that the publication of this work will be of great interest to the students and scholars of Prakrit language and literature.

L. D. Institute of Indology,  
Ahmedabad-380009  
15th October 1975

Dalsukh Malvania  
Director



# INTRODUCTION

## MS. Description

In the present volume we have mainly edited the Gāhārayanakosa of Āc. Jinasvarasūri. Along with it we have also edited two tiny Subhāsita-gāthāsāṅgrahas as they are interesting and have similar subject-matter. We give below the description of the mss which we have utilized.

1. Only one ms of the Gāhārayanakosa is available to us. It belongs to the Āc. Ksāntisūrisvara Collection preserved in the L. D. Institute of Indology, Ahmedabad. It bears the serial No. 940. Its size is 25.4 cms x 11.1 cms. It is a paper ms. It has 34 folios, 13 lines per side of the folio and 39 to 48 letters per line. In the centre of each and every folio there is a blank portion which gives rise to a decorative figure. The condition of the ms is good. The script is legible. Somebody has corrected the ms. Moreover, he or someone else has noted meanings of difficult words, variants and even added appropriate gāthās in the margin. The script of these notes or additions closely resembles that of the main text. Hence we can surmise that the copyist himself has written these notes and added those verses. Further, this means that the copyist was a good scholar. And we gather from the colophon that this copyist is well known Up. Vinayavijayaji (c. V. S. 1670-1740) who has written many works. After having copied the text, he seems to have corrected it. Hence this ms is very interesting and important. Though the ms has been copied and corrected by the scholar like Up. Vinayavijayaji, it contains corruptions here and there. This only means that model ms before Up. Vinayavijayaji must have been very corrupt. The colophon does not mention the date of the ms. So, we can say only this much that the date of the ms falls in between c. 1680-1730 V. S.

2. The palm-leaf ms. bearing the serial No. 107 and belonging to the Śāntināthaji Jaina Jūṇa Bhandāra, Cambay, contains, among many works, a tiny work called Subhāsīyagāhāsāṅgaho which covers folios 139-153. This is the last work in the ms. The 'Catalogue of Palm leaf Manuscripts in Śāntinātha Jaina Bhandar, Cambay', published in Gaekwar's Oriental Series, Baroda informs us that Subhāsīyagāhāsāṅgaho consists of 154 gāthās whereas Shri N. K. Shah who, having gone to Cambay, prepared the presscopy of the work for us, found the work upto 128th gāthā. The size of the ms is 29.5 cms. x 4.5 cms. It seems to have been written in the first half of the 13th V. S.

3. The palm-leaf ms. bearing the serial No. 267 and belonging to the abovementioned Bhandara contains, among many works, the tiny work called Subhāsiyapajjasangaho. The work covers first five folios. The size of the ms. is 33 cms x 5 cms. It seems to belong to the first half of the 14th century V S.

### Subhāsitasangrahas

The importance of the Subhāsitasangrahas consists in rescuing from oblivion a large number of fleeting and floating verses. Like anecdotes, Subhāsitās are utilized by preachers in their didactic works or lectures. Mostly they utilized current Subhāsitās but at times they themselves composed them. Subhāsitās are mostly employed to clarify and corroborate the point of discourse. They have great appeal to the common mind. They cover diverse themes, present variety of sentiments and reflect acute observations. People take delight in memorizing them and in quoting them at proper time. Like idioms, they constitute the strength or power of language. Looking to the usefulness of Subhāsitās, scholars of olden days have collected them and classified them subjectwise. Thus they prepared anthologies or Subhāsitasangrahas.

### Prākṛta Subhāsitās

In Sanskrit we find Subhāsitās in abundance. There is no doubt about it. But as Sanskrit was mainly confined to the élite, we almost miss in the Sanskrit Subhāsitās the wisdom, fancy and sentiments of the common man. Prakṛit was the language of the people. So, Prakṛit language and Prakṛit writers had the opportunity to be in close contact with the people. The vista which was almost closed to Sanskrit language and Sanskrit writers was open to Prakṛit language and Prakṛit writers. This is the reason why those elements that capture the hearts of the common man predominate in Prakṛit literary works. Elasticity or suggestiveness of Prakṛit language is even greater than that of Sanskrit. This is to be considered a strong point in the world of poetry.

Today, it is not unusual to find common men reciting verses from Bīhārisatasai, Vṛndasatasai, etc. Similarly, in old days the verses from the Gāthāsaptasatī of that great Prakṛit poet were current among the people. Even farmers, while ploughing their fields, took delight in reciting them. Their hearts got charmed by their recitation. This has been stated by Āc. Uddyotanasūri in the gāthās devoted to the respectful memory of the previous poets, in the beginning of his well known Kuvalayamālākathā (Śaka Samvat 701=780 A. D.) The gāthā in point is as follows .

भण्डिइविसेसवइत्तणत्रोल्लिङ्के जो करेइ हल्लिए वि ।

कव्हेण कि पउत्थे हाले हाल्यवियारे व्व ॥

The gist of the gāthā is : When Hāla who has by his poetry made even the farmers recite his gāthās, is no more, what is the use of our composing poems ? When the intoxicating effect of the wine is no more, what is the use of meat ?

There is a pun on the word 'kavya' in the gāthā. When construed with Hāla, it means 'kāvyā' When construed with *Hālavikāra*, it means 'kravyā'.

The scholars generally assign Gāthāsaptasatī to the first century A D This work presupposes the extensive Prakrit literature and its form of gāthā literature. After Hāla's Gāthāsaptasatī, 'Jayavallabha' has collected Subhāsitas in his anthology entitled 'Vajjālagga' Scholars place the Vajjālagga between 750 A D. and 1337 A. D.

Like Sanskrit, Prakrit also had its own individuality and importance It had its strong points So, many writers of eminence composed their works in Prakrit. One of them is the well known king Bhojadeva of Dhārā. In Dhārānagarī (Modern Dhārā) there was a *paṭhaśālā* of Bhojadeva Now it is in the form of a mosque The stone plates cemented on the walls of this mosque contain many literary works inscribed on them. These plates are so cemented that only the plain sides remain exposed to our sight. But recently it is discovered that the other sides have preserved, in fragments, literary works of king Bhojadeva. Moreover, we know one ms of the gāthāsaṅgraha which begins with the remark : 'atha bhojakṛta-gāthā likhyate' ('Now I write gāthās composed by Bhoja'). This ms. belongs to the Punyavijayaji's Collection preserved in the L. D. Institute of Indology, Ahmedabad. It bears the Serial No. 5586 Again, though Bhojadeva has written his Śrngāramāñjarī in Sanskrit he has completed the work with the four Prakrit gāthās.<sup>1</sup> It is really surprising to note that the Śrngāraprakāśa quotes more than 1800 Prakrit verses as illustrations. This shows his love for Prakrit For the importance and the general theme of

- 
1. सिंगारमंजरिं पाविऊण देवी सरस्सई अज्ज ।  
 मयरंदपाणभ.. ... .. ॥  
 सिंगारमंजरिं पाविऊण देवीए उयह वाणीए ।  
 सोहग्ग-जसपडाया. .. .. ॥  
 ... ..ऊण जस कहवि ढु सिंगारमंजरिं उअह ।  
 गियसोह[रग्ग]वडाया ... .. ॥  
 • [सिंगारमंजरिं पावि]ऊण वाणीए मणहराये वि ।  
 कण्णावयंससोहाभो.. ... .. ॥



the Prakṛit Subhāsitas one may refer to the introductions to the Gāthāsap-  
taśatī,<sup>1</sup> the Vajjalagga<sup>2</sup> and the Chhappannayagāthākosa

### Gāhārayanakosa–Gāthāratnakośa

This Gāthāratnakośa is a collection of Prakṛit Subhāsitas composed by poets anterior to Jineśvarasūri, the compiler. This has been declared by Jineśvarasūri in gāthā 2 on p. 1. Nearly one hundred gāthās are common to this Gāhārayanakosa and the Vajjalagga. Refer to Appendix No. 2. It is divided into 58 sections called *Prakrama*. For the subject-matter of these sections one may refer to *Viṣayānukrama* (contents). Though the compiler is a Jaina monk, there is nothing Jainistic about the work except the first section devoted to the prayer of Jina. This prayer is followed by those of Viṣṇu, Mahēśvara and Sarasvatī. There is a section on Kṛsnakṛīḍā. One section is devoted to poetic riddles (*hīali*). Sections of descriptive verses on six seasons are interesting. There are also sections devoted to love and the lover. Thus the Gāhārayanakosa contains material, arrangement and division of subjects similar to those of most other Sanskrit and Prakṛit anthologies.

The compiler has explicitly stated that the Gāthāratnakośa contains 800 gāthās the extent of which is equal to 1000 anustubh verses. But the ms. utilised by us contains 822 gāthās. In this printed edition there is one gross mistake we have committed in numbering the gāthās. No. 194 is immediately followed by No. 204. Readers are requested to note that gāthās are not missing here; only the numbers are missing. Thus though the last number is 837, the gāthās are 828. Two gāthās of benediction and four gāthās of Praśasti being the composition of the compiler may be deducted from these 828 gāthās. As a result of this, the number of the gāthās of the main text of the Gāhārayanakosa comes to 822. So, we may conclude that at least 22 gāthās are later additions.

For the satisfaction of the Munis, Jineśvarasūri has compiled this anthology in the Village of Bhālija (Modern Bhalej in Anand Taluka) in V S 1251. Up Vinayaviyayaḥ, the copyist of the ms in point, in his colophon describes the Gāthāratnakośa as '*parama amṛta*' (the pure nectar).

### Jineśvarasūri

The compiler Jineśvarasūri has given his spiritual lineage in the *praśastigāthās*. It is as follows :

1. Hindi Introduction to the Gāthāsap-  
taśatī, Ed. Dr. Paramanand Shastri, Meerath, 1965

2. Prakṛit Text Series (Ahmedabad), No. 14.

Śrī Śīlasūri (of Vrddha-gaccha or Vada-gaccha)

Śrī Dhārmāsūri

Śrī Sarvadevasūri

Śrī Candraprabhasūri

Śrī Jineśvarasūri.

In the year V S 1251 (the date of the compilation of the *Gāhāra-yanakosa*) Jineśvara was a *sūri*. This means that before that, the title of *ācārya* was conferred on him. Again, in V S 1288 he installed an idol of Pārśvanātha.<sup>1</sup> As an *ācārya* he lived long. So, it is natural that his life as a Jain monk must have been very long.

We are very grateful to Pt. Shri Dalsukhbhai Malvania, Director of the L. D. Institute of Indology, for including the present work in the L. D. Series. He has helped us in various ways. Our sincere thanks are also due to Shri Nagindas Kevalshi Shah who went to Cambay and prepared for us the copy of the last two *gāthāsaṅgrahas* included in this volume.

Amritlal M. Bhojak  
Nagin J. Shah

<sup>1</sup> 'Jaina-Dhātupratimā-Lekhasaṅgraha,' Ed. Buddhisāgarasūri, Pt. I, Lekha No. 354

## विषयानुक्रमः

विषयः	पृष्ठाङ्कः
विषयनिर्देशः—अष्टपञ्चाशत्प्रक्रमनामानि	१
मङ्गलमभिषेच च	१
१. जिनस्तुतिः	१-२
२. ब्रह्मणः स्तुति	२
३. विष्णुस्तुतिः	२
४. महेश्वरस्तुतिः	२
५. सरस्वतिस्तुतिप्रक्रमः	३
६. काव्यप्रशंसा	३-४
७. समुद्रप्रक्रमः	४-५
८. वडवानलप्रक्रमः	५
९. कृष्णक्रीडाप्रक्रमः	६
१०. नगरवर्णनप्रक्रमः	६-७
११. सुजनप्रक्रमः	७-९
१२. दुर्जनप्रक्रमः	९-१०
१३. सुस्वामिप्रक्रमः	१०-११
१४. लक्ष्मीप्रक्रमः	११
१५. दानप्रक्रमः	११-१२
१६. कुस्वामिप्रक्रमः	१२-१३
१७. कृपणप्रक्रमः	१३-१४
१८. वारिद्वयप्रक्रमः	१४
१९. स्वैर्य-धैर्यादिगुणाः	१४-१६
२०. राजवर्णकप्रक्रमः	१६-१८
२१. राजनीतिप्रक्रमः	१९-२०
२२. छेकप्रक्रमः	२०-२१
२३. हियालीप्रक्रमः	२१-२२
२४. वेदयाप्रक्रमः	२२-२३
२५. सर्वाङ्गस्त्रीवर्णनप्रक्रमः	२३-२५
२६. शृङ्गारप्रक्रमः	२५-२८
२७. नयनप्रक्रमः	२८-२९
२८. स्नेहप्रक्रमः	२९-३०
२९. दूतीप्रक्रमः	३१-३२
३०. प्रेमप्रक्रमः	३२-३४

विषय.	पृष्ठाङ्कः
३१. मानप्रक्रम.	३५-३६
३२. उभयानुगतचाटुप्रक्रमः	३६-३७
३३. मानिनीप्रत्युत्तरप्रक्रमः	३७-३८
३४. विरहप्रक्रमः	३८-४०
३५. सूर्यास्तप्रक्रमः	४०-४२
३६. चक्रवाकप्रक्रमः	४२
३७. खद्योतप्रक्रमः	४२-४३
३८. चन्द्रप्रक्रमः	४३-४५
३९. कुमुदप्रक्रमः	४५
४०. प्रभातप्रक्रमः	४५-४६
४१. सूर्योदयप्रक्रमः	४६
४२. कमलिनीप्रक्रमः	४७-४८
४३. अलिमालतिकाप्रक्रमः	४८-४९
४४. प्रावृट्प्रक्रमः	५०-५१
४५. गरत्प्रक्रमः	५१-५२
४६. हेमन्तप्रक्रमः	५२-५३
४७. शिशिरप्रक्रमः	५३
४८. वसन्तप्रक्रमः	५३-५४
४९. ग्रीष्मप्रक्रमः	५४
५०. असतीप्रक्रमः	५५
५१. वृक्षजातिप्रक्रमः	५५-५६
५२. पर्वतप्रक्रमः	५७
५३. सिंहप्रक्रमः	५७-५८
५४. गजप्रक्रमः	५८-५९
५५. करभप्रक्रमः	५९
५६. घवलप्रक्रमः	६०
५७. सुत्कलप्रक्रमः	६०-६२
५८. शान्तरसप्रक्रमः	६२-६५
गाथारत्नकोशकर्तृप्रशस्तिः	६५-६६
गाथारत्नकोशप्रतिलेखकप्रशस्तिः	६६
सुभासियगाहासंगहो—सुभाषितगाथासङ्ग्रह	६७-७५
सुभासियपञ्जसंगहो—सुभाषितपद्यसङ्ग्रहः	७६-८२
गाहारयणकोसगाहासूची—गाथारत्नकोशगाथासूची	८३-९४
सुभासिगाहासगाहाणुक्कमो—सुभाषितगाथासग्रहानुक्रमः	९५-९६

सुभासियपञ्जसंगहाणुकमो—सुभाषितपद्यसंग्रहानुक्रमः	९७-९८
पढमं परिसिद्ध—गाहारयणकोस—सुभासियगाहासगह—सुभासियपङ्जसंगह तग्गया कइवयविसिद्धसद्दा	९९-१००
विइयं परिसिद्ध—गाहारयणकोसंतग्गय 'वज्जालग्ग' गाहाणं ठाणनिहेसो	१०१-२
पत्रकिद्ध सुद्धिपत्तयं—शु	१०३-४

जिनेश्वरस्वरिविरचित  
**गाहारयणकोस**



सिरिजिणेशरसुरिविरइओ

## गाहारयणकोसो

[ विषयनिर्देशः ]

आदौ जिनस्तुतिप्रक्रमः १ । ब्रह्मस्तुतिः २ । विष्णुस्तुतिः ३ । महेश्वरस्तुतिः ४ । सरस्वतीस्तुतिः ५ । काव्यप्रशंसा ६ । समुद्रः ७ । वडवानलः ८ । कृष्णक्रीडा ९ । नगरवर्णनम् १० । सुजनः ११ । दुर्जनः १२ । सुस्वामी १३ । लक्ष्मीः १४ । दानम् १५ । कुस्वामी १६ । कृपणः १७ । दारिद्र्यम् १८ । स्थैर्यधैर्यादिगुणाः १९ । राजवर्णकः २० । राजनीतिः २१ । छेकः २२ । हीआली २३ । वेश्या २४ । सर्वाङ्गस्त्रीवर्णनम् २५ । शृङ्गारः २६ । नयनम् २७ । स्नेहः २८ । दूती २९ । प्रेम ३० । मानः ३१ । उभयानुगतचाटु ३२ । मानिनीप्रत्युत्तरम् ३३ । विरहः ३४ । सूर्यास्तः ३५ । चक्रवाकः ३६ । खद्योतः ३७ । चन्द्रः ३८ । कुमुदिनी ३९ । प्रभातम् ४० । सूर्योदयः ४१ । कमलिनी ४२ । अलिमालती ४३ । प्रावृट् ४४ । शरत् ४५ । हेमन्तः ४६ । शिशिरः ४७ । वसन्तः ४८ । ग्रीष्मः ४९ । असती ५० । वृक्षजातिः ५१ । पर्वतः ५२ । सिंहः ५३ । गजः ५४ । करभः ५५ । धवलः ५६ । मुत्कलः ५७ । शान्तरसः ५८ । अनेनैव पद्धतिक्रमेण गाथारत्नकोशप्रक्रमा ज्ञातव्याः ।

[ मङ्गलमभिधेयं च ]

पणमह पुरिसोत्तमनाहितणयमुहनलिणवासिणिं वारिणिं ।  
जीए पवयणजोन्हं सुकइचओरा परिलिहंति ॥१॥  
सुकइवयणऽण्णवाओ विचित्तरयणाणि सुत्तिरयणाणि ।  
गहिऊण कओ कोसो अओ अ गाहारयणकोसो ॥२॥

\*

१. अथ जिनस्तुतिः

पढमं चिय पढमजिणस्स नमह नहमणिमऊहरमणिज्जं ।  
अंकुरिअमोक्खपायववीयनिहाणं व पयकमलं ॥३॥



पडिवज्जंतो वि सया कलंतरं नेअ जस्स मुहचिन्नं(न्हं) ।  
पावइ चंदो तं कमलकुलगिहं नमह वीरजिणं ॥४॥

\*

२. अथ ब्रह्मणः स्तुतिः

तं पणमह तिगिन्निच्छलं (?) ण निवसइ निवेसक[म]लम्मि ।  
जस्स परिमाणनिवहो व्व भुवणनिम्माणपडिवन्नो ॥५॥  
पढमं चिय धवलकओववीयमंबुरुहगोयरं नमह ।  
हरिनिज[?य]जहरमोखित्तनालसुत्तं पिव सयंभुं ॥६॥

\*

३. अथ विष्णुस्तुतिः

सेसफणामणिदप्पणविविज्जंतस्स कोलखवस्स ।  
धरणिधरणम्मि हरिणो वराहजूहाइयं नमह ॥७॥  
तं नमह जस्स वच्छे लच्छिमुहं कोत्थुहम्मि संकंतं ।  
दीसइ मयपरिहीणं ससिर्विवं सूरविवम्मि ॥८॥  
रक्खत्तु वो रोमलया मायामहिलत्तणे महुमहस्स ।  
गूढोयरताभरसाणुसारिणी भमरमाल व्व ॥९॥  
वियडससिमंडलायंतसलिलभरियम्मि भुवणवलयम्मि ।  
हरिणो हरिणच्छायाविलासपरिसंठियं जयइ ॥१०॥

\*

४. अथ महेश्वरस्तुतिः

तं नमह जस्स रेहइ वियडजडाहारपासपडिलगं ।  
रइकलहकुविअपव्वइविभिण्णवलयं व ससिखंडं ॥११॥  
पणमह पणयपकुव्वियगोरीचलणगालगपडिविवं ।  
दससु नहदप्पणेसुं एयारहतणुहरं रुहं ॥१२॥  
तं नमह जो जडायडलीलासंदाणियं समुव्वहइ ।  
गोरीकवो[लउ]व्वरियकंतिसेसं पिव मयंकं ॥१३॥  
पसुवइणो रोसारुणपडिमासंकंतगोरिमुहयंदं ।  
गहियडग्वपंकयं पिव संझासलिलंजलिं नमह ॥१४॥

\*

५. अथ सरस्वतीस्तुतिप्रक्रमः

नंदउ सच्छंदगई निम्मलपयपूरगारवमहग्धो ।  
जलहिपडिरुद्धपसरो सुकईण सरस्सईपवहो ॥१५॥  
आसंसारं कइपुंगवेहिं तदियहगहियसारो वि ।  
अज्ज वि अभिन्नमुदो व्व जयइ वायापरिप्फंदो ॥१६॥  
पणमह पणमंतमहाकइंदसंकंतनयणपडिर्विवं ।  
कयनीलुप्पलपूयं व भारईचरणनहनविहं ॥१७॥  
तं नमह भारइं जीए चरणनहदप्पणेषु संकंता ।  
बहुवयणा होंति फुडं पणमंता तक्खणे कइणो ॥१८॥

\*

६. अथ काव्यप्रशंसा

सरसा वि हु कव्वकहा परिओसं कुणइ कस्स वि मणम्मि ।  
फुल्लंति न सयलतरू वरतरुणीचरणफंसेण ॥१९॥  
ललिए महुरऽक्खरिए जुवईजणवल्लहे ससिगारे ।  
संते पाइयकव्वे को सक्कइ सक्कयं पठिउं ? ॥२०॥  
पाइयकव्वं पठिउं गुंफेउं तह य कुज्जयपस्यं(?) णं ।  
कुवियं च पसाहेउं अज्ज वि वहवे न याणंति ॥२१॥  
चित्तमंदरमंथाणमंथिए वित्थियम्मि अत्थाहे ।  
उप्पज्जंति [य] कइहिययसायरे कव्वरयणाइं ॥२२॥  
अणवरयवहुलरोमंचकंचुयं जणियजणमणाणंदं भाणंहास  
जं न धुणावइ सीसं कव्वं पिम्मं चिक्किं तेणं? ॥२३॥  
कइणो जयंतुं तौ जलहिणी क्व उन्नजीविउणं भाणं प्रपयं ।  
अन्ने वि घ(?) णां भुवणं कुणंति धक्खणं उक्करिं ॥२४॥  
हिययाइं सज्जणंणं रंजइ कसिणेइ खिलयणमुहाइं भा  
कव्वं सुहासिअं षपिं हु जाणं नमो ताणं सुकईणं ॥२५॥  
सालंकाराहिं मणोहराहिं अन्नुन्नरायसिघीहिं भाणं  
गाहाहिं पणइणीहिं विउं ज्जइइ हियं अयंतीहिं भाणं  
छंदं अयाणमाणेहिं जा कयासा निहोइं रमणीआणं ॥  
किं गाहा न हु सेवां ? अहवां गार्हां वि सेवां विउं ॥२७॥

अद्धक्खरभणियाइं नूणं सविलासअद्धहसियाइं ।  
 अद्धच्छिपेच्छिआइं वि गाहाहिं विणा न नज्जंति ॥२८॥  
 अइंचंपिय विणस्सइ दंतच्छेएण होइ विच्छायं ।  
 ढलढलयं विय मुच्चइ पाइयकव्वं च पिम्मं चे ॥२९॥

\*

### ७. अथ समुद्रप्रक्रमः

रयणेहिं निरंतरपूरियस्स रयणायरस्स न हु गव्वो ।  
 करिणो मुत्ताहलसंसए हि मयभिभला दिट्ठी ॥३०॥  
 रयणायरस्स न हु होइ तुच्छिमा निग्गएहिं रयणेहिं ।  
 तह वि हु चंदसरिच्छा विरला रयणायरे रयणा ॥३१॥  
 जइ कहव अनिम्महिओ दितो तियसाण रयणसंघायं ।  
 ता तिहुयणे वि उवमा न होज्ज मन्नं(?) न्ने) समुहस्स ॥३२॥  
 तुहिणकरसीयलो च्चिय वडवानलडज्जिओ वि मयरहरो ।  
 न मुणिज्जंति वहंता गंगोद ... .. ॥३३॥  
 ते अइग्गहिरा फुडफेणपंडुरा गाहगज्जिरउडा ।  
 सायरअयत्थिहत्थे(?) कत्थ गया तुह तरंगोहा ? ॥३४॥  
 जलणं जलं च अमियं विसं च कण्हं सदाणवं चेव ।  
 उयरे धरंत ! मयरहर ! तुज्झ महिम च्चिअ अपुव्वो ॥३५॥  
 साहीणामय-रयणे अमरमरोरं च भुवणमकुणंतो ।  
 उल्लसिरेहिं न लज्जसि लहरीहिं तरंगिणीनाह ! ॥३६॥  
 इयरो गामतलाओ पूरिज्जइ पूयराण नियरेण ।  
 घणमच्छपुच्छघायं पुणो वि रयणायरो सहइ ॥३७॥  
 वारं वारं विणिवारिआ वि रेवा न सायरं मुयइ ।  
 अहवा सव्वसल्लणे पियम्मि को रुसिउं तरइ ? ॥३८॥  
 हिययनिवेसियवडवानलो वि विसकुलहरं पि जलरासी ।  
 रयणायरु त्ति लंभइ पेच्छ पसिद्धीए माहप्पं ॥३९॥

१. "सो सुमित्तु भवसरि जे आवे, सा सुदरि जा पिभर सुहावे ।

सा लच्छी जा दित न खुस्टे, सो हु कवित्त जो हिययचहुदटे ॥१॥"

लच्छी धूआ, जामाउओ हरी, तह य पणइणी गंगा ।  
 अमय-मियंका य सुआ अहो ! कुडुंबं महोअहिणो ॥४०॥  
 माहप्पं तं खलु लवणिमाए जं किल सयं समुद्धम्मि ।  
 निवडंति क्रसत्ते वि जडसहावे वि सरियाओ ॥४१॥  
 जह जह सरियाओ जलं खिवंति तह तह किलम्मए उयही ।  
 महिलाहितो रु(रि)द्धि ईहंति कहां महासत्ता ? ॥४२॥  
 पूरिज्जंतो वि जलेहिं जलनिही जलहरेहिं तणुआइ ।  
 उवयरियं पि हु उवरिद्धिएहिं गरुयाण अवयरियं ॥४३॥  
 सोसं न गओ, न गओ रसायलं, जलहि ! किं न फुडिओ सि ? ।  
 तडसंठिया वि सउणा तण्हइया जस्स बोलीणा ॥४४॥  
 लच्छीए विणा रयणायरस्स गंभीरिमा तह ज्जेव ।  
 सा लच्छी तस्स विणा कस्स न गेहे परिब्भमइ ? ॥४५॥  
 विहलं पडिच्छिउं गुरुययाण पयई, न कारणाविकखा ।  
 गिरिसरिगलत्थिए पत्थरे वि रयणायरो धरइ ॥४६॥

\*

#### ८. अथ वडवानलप्रक्रमः

जं अत्थीहिं न पिज्जइ आसाइज्जइ न सउणसत्थेहि ।  
 तं सायरस्स सलिलं खवंत ! वडवानल ! नमो ते ॥४७॥  
 सोसउ म सोसउ च्चिय सलिलं रयणायरस्स वडवडग्गी ।  
 जं लहइ जले जलणो तेणं चिय किं न पज्जत्तं ? ॥४८॥  
 पायालो(लु)यरगहरीहिं सायरलहरीहिं जा न उलहविया ।  
 सा वडवानलतण्हा कह फिट्ठइ सरिज्जलक्केहिं ? ॥४९॥  
 का समसीसी वडवानलेण इयराण तेयवंताणं ? ।  
 उलहवियसिहिसमूहो वि इंधणं जस्स मयरहरो ॥५०॥  
 उयहि-वडवानलाणं परप्परुलहवण-सोसणमणाण ।  
 जा वट्टइ संरंभो ताव सुहं जियइ जियलोओ ॥५१॥  
 दु च्चेय पत्तरेहा उत्तम-अहमासु पुरिसपंतीसु ।  
 दिंताणं रयणनिही, मग्गंताणं तु वडवग्गी ॥५२॥

\*

## ९. अथ कृष्णक्रीडाप्रक्रमः

सो को वि गुणो गोवालियाण जइ नत्थि कन्ह ! एक्को वि ।  
 उज्जयसीलावसरे तह वि हु मा विं(वि)भरिज्जासु ॥५३॥  
 उय ऊढभुवणभारो वि केसवो सिहिभरेण राहाए ।  
 कुवलयदलं व तुलिओ, हलुइज्जइ को न पिम्मेण ? ॥५४॥  
 किसिओ सि कीस केसव ! जं न कओ धन्नसंगहो मूढ ! ।  
 कत्तो मणपरिओसो वि साहियं भुंजमाणस्स ? ॥५५॥  
 सच्चं चेय भुयंगी वि साहिया किर विसाहिया कण्ह ! ।  
 साहीणविणयपणओ वि जीए घुम्माविओ तं सि ॥५६॥  
 कसिणे वि जले कण्हस्स कालिओ फणिमणीहिं उवइ(? दि)ट्ठो ।  
 देहुप्पन्ना वि विसंवयंति दिव्वे परावु(हु)त्ते ॥५७॥  
 उप्पज्जंति चयंति य बहुसो जलमाणुसीओ जलहिम्मि ।  
 सा लच्छी वच्छयलं अलंकियं जीए कन्हस्स ॥५८॥  
 जलनिहिमुक्केण वि कुत्थुहेण एतं(? पत्तं) मुरारिणो हिययं ।  
 तेण उण तम्मि ठाणे न याणिमो किं पि विणिहित्तं ॥५९॥  
 सो सम्गो सा लच्छी ताइं वत्थाइं ते अलंकारा ।  
 राहापलोयडीसा(?हीणा) हरिणो हियए खुडुक्खुडइ ॥६०॥  
 हिययाउ जा न मुक्का, अहमाण वि संगयं अणुचरंती ।  
 कण्हस्स तीए लच्छीए पडिकयं किं नु कायवं ? ॥६१॥

\*

## १०. अथ नगरवर्णनप्रक्रमः

जत्थ ससिकंतकविसीसयंकिओ स्वरकंतमणिसालो ।  
 ससि-रवि(?रविससि)संगे परिहाजलाइं सोसेइ पोसेइ ॥६२॥  
 परिहाजलसंकंतो मरगयसिहरंकिओ फलिहसालो ।  
 सहइ जहिं जलहिजलंतसेससयणत्थविण्हो(ण्हु) व्व ॥६३॥  
 सियकरकिरणनिरंतरफुरंतससिकंतसालभंजीहि ।  
 रयणीसु तियसभवणाइं जत्थ धारागिहायंति ॥६४॥  
 पइदियहं विलसंते दट्ठुं गोरी-महेसरे जत्थ ।  
 कुइण आगओ हिमगिरि व्व धवलो सहइ सालो ॥६५॥

जत्थ मणिभवणाभिन्तीसु पिच्छित्तुं अत्तणो वि पडिबिंबं ।  
 पडिजुवइसंकिरीओ पिण्णसु कुप्पंति मुद्दाओ ॥६६॥  
 जत्थऽच्छफलिहभूमी(१मिसु) सालत्तयतरुणिचरणपडिबिंबं ।  
 चुवंति मुद्धभसला जलविलसिरकमलभंतीए ॥६७॥  
 जत्थ अनीइपराइं खेत्ताइं चैव न उण सप्पुरिसा ।  
 दीसंति दियवर च्चिय कुसाऽऽसणग्गहणतल्लिच्छा ॥६८॥  
 विलयाउलाइं वित्थिन्नपत्तपुन्नाइं पवरसालाइं ।  
 जत्थ भवणाइं मज्झे, वणाइं वाहिं विरायंति ॥६९॥  
 नीलमणिकुट्टिमे जत्थ नववहू पिच्छिऊण संकंतं ।  
 समुहं तग्गहणत्थं हत्थं कमलब्भमा खिवइ ॥७०॥  
 घरसिरपसुत्तकामिणिकवोलसंकंतससिकलावल्यं ।  
 हंसेहिं अहिलसिज्जइ मुणालसद्दालुएहिं जहिं ॥७१॥

\*

११. अथ सुजनप्रक्रमः

इच्छंति न नेहलवं, सकज्जलग्गा न होंति मणयं पि ।  
 अमुणियदसाविसेसा सुयणा रयणप्पईव व्व ॥७२॥  
 छोइल्लो पियइ तमं, तं च [१उ] उव्वमइ कज्जलमिसेण ।  
 अन्ने वि सुइसहावा हियए कलुसं न हु धरंति ॥७३॥  
 दढरोसकलुसिअस्स वि सुअणस्स मुद्दाओ विप्पियं कत्तो ? ।  
 राहुमुहम्मि वि ससिणो किरणा अमयं चिय मुयंति ॥७४॥  
 पिसुणो अइदित्तग्गी नेहसहस्साइं झत्ति जो जरइ ।  
 सुयणो उण मंदग्गी एक्कं नेहं न जो जरइ ॥७५॥  
 विमलेण वि कह उवमा एक्कसरुवस्स सुयणहिययस्स ।  
 फलिहोवलेण कीरइ आसयवसभिन्नरुवेण ? ॥७६॥  
 अभणंताण वि नज्जइ परिणामं सुपुरिसाण चरिएहिं ।  
 किं जंपंति मणीओ जेण सहस्सेहिं धिप्पंति ? ॥७७॥  
 पडिवन्नपक्खवाओ गुणसंजुत्तो समुज्जओ सफलो ।  
 बाणो व्व हिययलग्गो मारइ सुयणो अदीसंतो ॥७८॥

चावगुणाणं दुण्हं रेहंति महाणुभावचरियाइं ।  
 ऊहरसमुण्णयाणं कोडीओ दित्त-लित्ताणं ॥७९॥  
 सहइ समूलाण समुण्णयाण बहुसउणसत्थनिलयाण ।  
 सप्पुरिसाण दुमाण व परोवयारप्फला रिद्धी ॥८०॥  
 सो जयउ जेण सुयणा वि दुज्जणा इह विणिम्मिया भुवणे ।  
 न तमेण विणा पावंति चंदकिरणा वि परभागं ॥८१॥  
 तं परिवड्ढंति खणं खणं पि निवसंति जत्थ सप्पुरिसा ।  
 जाओ कलिम्मि जस्सि तइं उण सो चेव निट्टविओ ॥८२॥  
 कलहंताण वि न हु निग्गयाइं, हियए जरं अइगयाइं ।  
 सुयणकयाइं रहस्साइं दहइ आउक्खए अग्गी ॥८३॥  
 खज्जंति टस त्ति न भंजिऊण, पिज्जंति नेय घुंटेहिं ।  
 तह वि हु कुणंति तित्ति आलावा सज्जणजणस्स ॥८४॥  
 ईसिं पि न लक्खिज्जइ सुत्तं हारेसु मुत्तिउत्थइयं ।  
 सुगुणा वि गुणब्भहिएहिं अंतरिज्जंति किं चोज्जं ? ॥८५॥  
 कलिकालकवलनोव्वरियसुपुरिसा संति कत्थ व पएसे ।  
 वीयं व कयजुयत्थे अज्ज वि परिरक्खियं विट्ठिणा ॥८६॥  
 पसमियसोहाससहरस्सऽल्लीणस्स वंकिमा जं से (?) ।  
 रिद्धीसु पंजला होंति सुपुरिसा, न य विवत्तीसु ॥८७॥  
 विरला उवयरिऊणं निरवेक्खा जलहर व्व वच्चंति ।  
 झिज्जंति ताण विरहे विरल च्चिय सरिपवाहो व्व ॥८८॥  
 अत्थि(?)संति) असंखा संखा धवला रयणायरूभवा भुवणे ।  
 न हु ताण सदलद्धी जाया जा पंचजण्ह(?)ण)स्स ॥८९॥  
 छिन्नाण सोसियाण य दाहं पत्ताण छिद्दभरियाण ।  
 अइममुहदूसियाण वि सुहो उ सदो सुवंसाण ॥९०॥  
 हियए जाओ, न(?)नो) चेव पसरिओ, नेय पयडिओ लोए ।  
 ववसायपायवो सुपुरिसाण लक्खिज्जइ फळेहिं ॥९१॥  
 न हु महुमहस्स वच्चे, मत्थे कमलाण, नेय खीरोए ।  
 ववसायपायवे सुपुरिसाण लच्छी फुडं होइ ॥९२॥

सबभावखलाण वि कुणइ किं पि सुयणत्तणं सुयणसंगो ।  
 शीणस्स वि कज्जलमीसि घडइ णयणस्स लायणं ॥९३॥  
 सच्चरियनिम्मलाणं अलिअपराण वि सिरीओ वड्ढंति ।  
 सच्छिद्दाणं मुत्ताण रायवच्छत्थलारोहो ॥९४॥  
 किं इत्तिण गयणंगणस्स गरुअत्तणं समोसरइ ? ।  
 अ(१स)ज्जणहिययस्स न जित्तितेण सरिसाइयं तेण ॥९५॥

\*

१२. अथ दुर्जनप्रक्रमः

सुयणो तुसारसरिसो ताविज्जंतो विलाइ, न हु जलइ ।  
 इयरो दीवयसरिसो कयनेहो जलइ अहिअयरं ॥९६॥  
 सुयणत्तणं न केण वि अंतोमलिणाण तीरण काउं ।  
 सीसेण वहंतस्स वि हरस्स वंको च्चिय मयंको ॥९७॥  
 पुरिसा जे गुणरहिया कुलेण गव्वं वहंति ते मूढा ।  
 वंसुप्पणं पि धणु गुणरहिअं भणह किं कुणइ ? ॥९८॥  
 गुरुआ वि जेसु मडहा संकंता दप्पणेसु दीसंति ।  
 जुत्तमिणं जं दिज्जइ जणेण छारं मुहे तस्स ॥९९॥  
 पुरिसाण कुलीणाण वि न कुलं विणयस्स कारणं होइ ।  
 चंदाऽमय-लच्छिसहोयरं पि मारेइ किं न विसं ? ॥१००॥  
 जह कणयं तह परिमाणपत्थरं वे वि तुलइ नाराओ ।  
 अहवा निरक्खराणं गुण-दोसवियारणा कत्तो ? ॥१०१॥  
 दोसुहं ! निरक्खर[? य] ! लोहमइय ! नाराय ! कित्तिर्यं भणिमो ।  
 गुंजारिं समं कणयं तुलंत न गओऽसि पायालं ॥१०२॥  
 विद्ववियगुणो दोसेक्कपायडो नेहखवणतत्तिल्लो ।  
 दीवो व्व खलो आसन्नसंठिओ कं न मइलेइ ? ॥१०३॥  
 सज्जणसंगेण वि दुज्जणस्स न हु कलुसिमा समोसरइ ।  
 ससिमंडलमज्झपरिट्ठिओ वि कसिणो च्चिय कुरंगो ॥१०४॥  
 गुणलेसो वि [? य] न सुयण ! तुज्झ घडंतस्स किं पि उव्वरिओ ।  
 मन्ने दोसमओ च्चिय तेण जए दुज्जणो घडिओ ॥१०५॥

१ 'ईषत्' इति प्रतौ टिप्पणी । 'मीसि यस्स घडइ प्रतिपाठः ।



मलिणायारं ददूण मंडलो भसउ तस्स न हु दोसो ।  
 दुदुखलो अपरोक्खे विमलसहावाण वि भसेड ॥१०६॥  
 वसइ जहिं चेव खलो पोसिज्जंतो वि नेहदाणेण ।  
 तं चेव आलयं दीवओ व्व अचिरेण मइलेइ ॥१०७॥  
 अकुलीणो दोमुहओ ता महुरो भोयणं मुहे जाव ।  
 मुरओ व्व खलो जिन्नम्मि भोयणे विरसमारसइ ॥१०८॥  
 निद्धम्मो गुणरहिओ वाण(? चाव)विमुक्को य लोहसंभूओ ।  
 विंधइ जणस्स हिययं पिसुणो वाण व्व भगंतो ॥१०९॥  
 न सहइ अब्भत्थणियं, असइ गयाणं पि पिट्ठिमंसाइं ।  
 ददूण भासुरमुहं खलसीहं को न वीहेड ? ॥११०॥  
 खलसंगे परिचत्ते पेच्छह तेल्लेण जं फलं पत्तं ।  
 मयणाहिसुरहिवासं पहुसीसं पावियं तेण ॥१११॥  
 होही खलु त्ति कल्लिऊण णियमणे मामि जंतदियएहि ।  
 पत्तेहिं नवरि मुक्को फलिओ वि तिलो अव(? वे)क्खाए ॥११२॥  
 सो सहो, तं धवलत्तणं च, रयणायरम्मि उप्पत्ती ।  
 संखस्स हिययकुडिलत्तणेण सव्वं पि पव्वमट्टं ॥११३॥  
 मेहा इव दोजीहा पयं समासाइऊण अइकलुसा ।  
 सच्छंदगमणसीला सयलं पि जणं कयत्थंति ॥११४॥  
 सुयणो मुहा किलम्मइ, हरइ खलो ज्जेव नवर पहुहिययं ।  
 तरुणो फलाइ गहिउं तरइ कई, न उण पंचमुहो ॥११५॥

\*

### १३. अथ सुस्वामिप्रक्रमः

लहुवित्तस्स वि पहुणो गरुया लीयंति सुद्धहिययस्स ।  
 मडहे वि दप्पणे संकमंति गरुओ वि गयवइणो ॥११६॥  
 तेयस्सीण पसाओ लहू वि वियहं घटेड महिमाणं ।  
 एककेण वि रविकिरणेण गयणमक्कमड हरिणंको ॥११७॥  
 पगइखलेसुं पि पियंवएसु पहुणो वइंति परिओसं ।  
 कुडिलहिययस्स संखस्स हरइ हिययं सरो मुहरो ॥११८॥

उन्नयसिहो वि दीवो न हणइ हिट्टट्टियं तिमिरनियरं ।  
 अहवाऽभिमाणमुक्कं पहुणो पालेंति रिउवग्गं ॥११९॥  
 नीया वि समत्थेहि गहिया उच्चं लहंति संठाणं ।  
 धूलिकणा पुहवीए चरंति गयणम्मि वाएणं ॥१२०॥  
 हिट्टट्टियजडनियरं तह य सुपत्ताइं उत्तमंगम्मि ।  
 जह धरइ तरू तह जइ पहु वि ता किं न पज्जत्तं ? ॥१२१॥

\*

१४. अथ लक्ष्मीप्रक्रमः

न मि(वि)णा जं सहइ गुणो वि, सहइ दोसो वि जीए परियरिओ ।  
 कम्मणमेगं भुयणस्स सरह तं भयवइं लच्छि ॥१२२॥  
 गुणगरूयाण वि धणवज्जियाण न हवंति चितिया अत्था ॥  
 लक्खेण वि दीवाणं न दिणं दिणनाहविरहम्मि ॥१२३॥  
 लच्छी-सरस्सईणं लच्छी गरुई, सरस्सई लहुई ।  
 इहरा कहमीसरमणुसरंति संपन्नविज्जा वि ॥१२४॥  
 लच्छीए गुणा नियमेण हींति, न गुणेहिं हवइ पुण लच्छी ।  
 विज्जूओ खलु समेहा हवंति, मेहा न सह विज्जू ॥१२५॥  
 अइसीयलकरपसरो जाओ संपुण्णमंडलो राया ।  
 इय चित्तिऊण लच्छी सच्चंगं तम्मि निवसेइ ॥१२६॥  
 लच्छीलयाइ मूलं गुण-सत्तिपयं परिट्टियं लोए ।  
 जेण अहोगमणं चेव ताण परिवइठणे तीए ॥१२७॥

\*

१५. अथ दानप्रक्रमः

दिंताण दाणमेव हि संक(इ स)इ, न य परिभवं कुणइ को उ ।  
 दाणेण विरहिआणं न ढलइ लोगो करीणं पि ॥१२८॥  
 कोडिं दिंता वि नमंति, मग्गणत्थं धरंति जे जीयं ।  
 ताण धणूण व पुरिसाण कह णु मा होउ टंकारो ॥१२९॥  
 सो वंसगुणो च्चिय एस को वि चावाण फुरियसाराण ।  
 जं गुणमुक्काण वि मग्गणाण लक्खं समपंपंति ॥१३०॥

चावाण नवरि एक्काण सहइ चारुत्तणम्मि टंकारो ।  
 सहलो मग्गणनिवहो विसज्जिओ जेण नमिऊण ॥१३१॥  
 दिंतो जलं पि जलओ स वल्लहो होइ सयललोयाणं ।  
 निच्चं पसारियकरो करेइ मित्तो वि संतावं ॥१३२॥  
 दिति फलाइं जहिच्चं कप्पदुमा, नेय क्किपि जंपंति ।  
 धूमलियजलहरा पाणियं पि दाऊण गज्जंति ॥१३३॥  
 लहइ गरुयत्तणं चिय दिंताण करो विमुक्कदाणो वि ।  
 अच्छरियं लहुयायइ सुवण्णभरिओ वि लिंताणं ॥१३४॥  
 न वि तह दूमेइ मणं गयस्स वंधो व्व करिणिविरहो व्व ।  
 दाणविओयविमुद्दिए जह भमरउळे भमंतम्मि ॥१३५॥  
 जो सहइ समरमज्जे मुणाललीलाए पहरणसयाइं ।  
 नूणं दाणावसरे तस्स वि हिययं चमक्केइ ॥१३६॥

\*

१६. अथ कुस्वामिप्रक्रमः

जडसंसग्गुल्लसिओ विलसंतो विरसवाणिओ निच्चं ।  
 पयडियवहुविहदोसो किं जलही ? न हि, कुसामी वि ॥१३७॥  
 पलए महागुणाणां हवंति सेवारिहा लहुगुणा वि ।  
 अत्थमिए दिणनाहे अहिलसइ जणो पईवं पि ॥१३८॥  
 ओल्लिगिओऽसि धम्मऽम्ह होज्ज इण्हि नइद ! वच्चामो ।  
 आलिहियकुंजरस्स व तुह दाणं केण वि न दिट्ठं ॥१३९॥  
 जे केइ पहू महिमंडलम्मि ते उच्छुदंडसारिच्छा ।  
 सरसा जडाण मज्जे विसमा पत्तेसु दीसंति ॥१४०॥  
 इण्हिपहुणो पहुणो पहुत्तणं, किं चिरंतणपहूणं ? ।  
 दोसगुणा गुणादोसा ए(?जे)हिं कया, न हु कया तेहिं ॥१४१॥  
 अप्पायत्तं संपयमवणेइ पहू परम्मुहो, न गुणं ।  
 ठाणं उवरि निरुंभइ मणीण जलही, न उण छायं ॥१४२॥  
 तोसो मणस्स कस्स वि आवइपडियम्मि भिच्चवग्गम्मि ।  
 सरियासु दरिदासुं सरियाद्विर्वई समुल्लसइ ॥१४३॥

अच्छुड का वि अपुच्वा रिद्धी ताराहिवस्स रिद्धीसु ।  
जा का वि पुराणा तारयाण रिद्धी हया सा वि ॥१४४॥  
सुहिए सुहियाइं रविम्मि, दुक्खिए दुक्खियाइं कमलाइं ।  
तह वि हु न तेण ताणं अवयरिओ पंकयकलंको ॥१४५॥  
जह जह पावंति पर्यं उन्नयमुन्नययरं दिणयरु व्व ।  
लहूईभवंति संतावयंति तह तह दढं केई ॥१४६॥  
तारावइणा जं तारयाण रिद्धेण निहणिया रिद्धी ।  
सयलकलाठाणस्स वि तेणं चिय झिज्झए लच्छी ॥१४७॥  
परिवाराणं सुयणत्तणं पि पिसुणे पहुम्मि न हु किं पि ।  
पडिकूलम्मि रविसुए सुहा वि अवरं गहा विहला ॥१४८॥  
महुमासवासराणं निडालसंजणियसेयविंदूणं ।  
काण वि परिवुद्धिदमहीयलस्स संतावमावहइ ॥१४९॥

\*

१७. अथ कृपणप्रक्रमः

अकयच्चओ न सोहइ विहवो विहवो व्व अंगणानिवहो ।  
कत्थ वि अपत्तभोगो सुवण्णतारुण्णओ जाय(भव)इ ॥१५०॥  
किं वंसेण गुणेण य ? किंवा कोडीए? तुज्झ रे चाव ! ।  
जायंति जस्स पुरओ मग्गणया मुक्कसिक्कारा ॥१५१॥  
कसिणं काऊण मुहं, पच्छा रत्तं मुहेण होऊणं ।  
दिण्णं फलं पलासेण तं पि सउणेहिं परिचत्तं ॥१५२॥  
लोहमयस्स वि मलिणस्स गाढमुट्ठिस्स कोसनिरयस्स ।  
किवणस्स किवाणस्स य आयारेणेव भिण्णत्तं ॥१५३॥  
अंधारिऊण वयणं दीहं रसिऊण मामिखत्थेहिं (?) ।  
पउरं पि कहव दिण्णं जलएण जलं अलं तेण ॥१५४॥

१. प्रस्तुतसंवादिते इमे गाथे प्रती टिप्पणीरूपेण विद्येते—

“परपत्थणापवत्त मा जणणि । जणेसि एरिसं पुत्तं ।

उअरे वि मा धरिज्जसु पत्थणभंगो कओ जेण ॥१॥

मोण कालविलयो उच्चहिट्ठी परम्सुह वयणं ।

भित्ठी अतत्लावो नक्कारा छव्विहा हुति ॥२॥”

करिणो हरिनहरविदारियस्स दीसंति मुत्तिया कुंभे ।  
अहव किवणाण मरणे पयड च्चिय होंति भंडारा ॥१५५॥

\*

१८. अथ दारिद्र्यप्रक्रमः

दीसंति जोयसिद्धा, अंजणसिद्धा तहेव दीसति ।  
दालिइजोयसिद्धा पासे वि ठिया न दीसंति ॥१५६॥  
महुरोल्लावसल्लूणो ललियपओ ख्वजाइपरिसुद्धो ।  
अ(त)ह वि न अग्घइ अधणो पच्चक्खकईण कव्वं व ॥१५७॥  
उप्पज्जंति तहिं चिय, वियसंति तहिं, तहिं विलिज्जंति ।  
पुण्णसरे कमलाइं व मणोरहा रोरहिययम्मि ॥१५८॥  
संता वि गुणविसेसा नराण पयडा हवंति ता कत्तो ।  
जाताण दप्पणाण व कओ ण भूईए सक्कारो ? ॥१५९॥  
जे जे गुणिणो जे जे य माणिणो जे विदत्तविन्नाणा ।  
दालिइ ! रे वियक्खण ! ताण तुमं साणुराओ सि ॥१६०॥  
संतवइ गसइ सव्वं जइ वि [?हु] धूमेण पढममंघेइ ।  
उअरभरणत्थिणो तह वि निच्चमगणिं अणुसरंति ॥१६१॥  
संता वि गुणा गुणवंतयाण दालिइत्तमभरक्कंता ।  
अत्थोज्जोएण विणा पयडा वि न पायडा होंति ॥१६२॥  
अप्पाणं चिय दुभरं जाण जप कि व तेहिं जाएहिं ? ।  
सुसमत्था वि [?य] न परोवयारिणी ते वि न किं पि ॥१६३॥  
लच्छीकरकमलवियासरेणुपूरिज्जमाणनयणेहिं ।  
दीसंति नेय रोरा पुरओ वि ठिया धणइडेहिं ॥१६४॥  
हरइ परिहीणविहवस्स नूण नियपणइणो वि अप्पाणं ।  
सव्वंगमसंपुण्णस्स घडइ न हु जाभिणी ससिणो ॥१६५॥

\*

१९. अथ स्थैर्य-धैर्यादिगुणाः

धोराण रमइ घुसिणारुणम्मि न तहा पियाथणुच्छंगे ।  
दिट्ठी रिउगयकुंभत्थलम्मि जह वहलसिंदूरे ॥१६६॥

सो केण विज्झविज्झइ वीरपयावानलो तिणिवखंतो ? ।  
उप्पत्तिकारणं जस्स खग्गधाराजलो च्चेय ॥१६७॥  
साविकखो दहवयणो वरप्पयाणेण साहसुक्करिसो ।  
संते वि करसमूहे एककेक्कं जो सिरं लुयए ॥१६८॥  
सुपओहराए सुहडो पुलयसणाहाइ खग्गलट्ठीए ।  
जायइ मउलिअनयणो दइआइ व कंठलगाए ॥१६९॥  
इक्कत्तो रुयइ पिया अण्णत्तो समरतूरनिग्घोसो ।  
नेहेण रणरसेण य भडस्स दोलाइयं हियं ॥१७०॥  
अज्ज वि विहुरम्मि प्हू अज्ज वि पहरंति वइरिसंघाया ।  
अज्ज वि मज्झत्था जयसिरी वि रे जीव ! मा वच्च ॥१७१॥  
तं नत्थि जं न सिज्झइ ववसायसमुज्जयस्स धीरस्स ।  
जं सीसमेत्तसेसो राहू ससि-दिणयरे गलइ ॥१७२॥  
अघडियपरावलवा जह जह गरुयत्तणे न विहडंति ।  
तह तह गरुआण हवंति बद्धमूलाओ कित्तीओ ॥१७३॥  
दिग्गयकओलवियलियमयपंकामोयवासियमणस्स ।  
भसलस्स कण्णतालाहयस्स मरणं पि रमणिज्जं ॥१७४॥  
खग्गम्मि निवासो जयसिरीए, समरम्मि होइ सा हत्थे ।  
हत्थट्ठिए वि विहवे विमुक्क धीरा विसूरिंति ॥१७५॥  
विवरुम्मुहा वि गरुया उवयारी होंति सयल्लोयस्स ।  
कुम्भेण निययपिट्ठिट्ठियं पि भुवणं समुद्धरियं ॥१७६॥  
चित्तुत्तिन्नो वि तुलागओ वि मित्तो तहा वि न हु मुक्को ।  
को हरिउं तस्स नहंगणस्स गंभीरिमं तरइ ? ॥१७७॥  
सब्भावं पहुहियए, जीयं सग्गे, जसं जए सयले ।  
ठविऊणं रणे सीसं कयकज्जो नच्चिओ सुहडो ॥१७८॥  
कुलमुद्धरंति एगे वडवोयकणंकुरेण सारिच्छा ।  
अन्ने वालयसरिसा जाया मूलं विणासंति ॥१७९॥  
कह नाम सहिज्झइ कायरेण समुहितगयघडावीडे ।  
गरुयगयचलणचंपियकरोडिकडुओ कडक्कारो ? ॥१८०॥  
तुंगत्तणं गयंदे संगरसारत्तणं च केसरिणो ।  
संगामसूरिमा तुंगिमा य सरभे समप्यंति ॥१८१॥

महिऊण महाजलहिं महूमहणो तत्थ मुयइ वीसत्थो ।  
 एयं नीइविरुद्धं, छज्जइ सव्वं समत्थाणं ॥१८२॥  
 उम्मूलेइ न पवणो तिणाइं किल उण्णओ असाराइं ।  
 भंजेइ महल्लतरू, गरुया गरुए विरोहंति ॥१८३॥  
 धीरो अरिक्खिंभयडपाडणोच्छन्नियमोत्तियच्छुरिओ ।  
 रेहइ रणम्मि जयसिरिसियक्खएहिं [व] अहिसित्तो ॥१८४॥  
 समरे धारागोयर मुचंति वि(वे)रिमंडलग्गेण(?) ।  
 त(तं) तम्मि वला खलु निवसिरीए लच्छीए विप्पंति ॥१८५॥  
 सच्चं कलानिहि च्चिय चंदो तेयम्मि जो पणट्टम्मि ।  
 पवसियतवणस्स वि गयणचक्कमक्कमइ पाएहिं ॥१८६॥  
 पइणो सुलहाइं धणाइं दिंति, पत्ती य दिंति पुण पाणे ।  
 गरुयत्तं तह वि पईण न उण पत्तीण, अच्छरियं ॥१८७॥  
 सुहडाण समरवज्जंततूरवररणघणजलासित्तो ।  
 पुलयच्छलेण उच्छाहमहिरुहो मुयइ किसलाइं ॥१८८॥  
 सत्तूण पायवीढे लुहंति माणंसिणो वि जं कह वि ।  
 तं अब्भत्थित्ति महिं विवरं पायालगमणत्थं ॥१८९॥  
 हियइच्छिअमलहंतो पंजरसउणु व्व धीरववसाओ ।  
 कोससयसंपुड[?] ]निरुद्धपसरो तडप्फडइ ॥१९०॥

\*

२०. अथ राजवर्णकप्रक्रमः

उव्वहसि कीस गव्वं एत्थ जए गयवई अहं एक्को ? ।  
 तुह वेरियाण नरवइ ! महिलासच्चा(इत्था) वि गयवइणो ॥१९१॥  
 नूणं धणुम्मि तुह पहु ! संकमइ विवक्खजीवियं समरे ।  
 इहरा तम्मि सजीवे कह रिउणो होंति अज्जीवा ? ॥१९२॥  
 संपुण्णकोसदंडं जलदुग्गमयं पि द(इ)लइ कमलवणं ।  
 दिट्टम्मि जम्मि, कह सो सूरुओ ? मा भुवणमक्कमउ ॥१९३॥  
 बहुलक्खएण बहुसो महापसाएण तुज्झ नरनाह ! ।  
 पणइसमूहो चंदी व्व वंदणिज्जो जए जाओ ॥१९४॥

तुह रिउणो नाह ! सुहत्थिणो वि भदत्तणं कह वहुंतु ? ।  
 जाण दुह च्वेय गई — एक्के मंदा, मया अण्णे ॥२०४॥  
 बहुसोहया(ग्गा)ओ अविहवाओ वहुंति तुज्झ वेरीण ।  
 अंतेउरीओ [ ] नहु नहु नरनाह ! नयरीओ ॥२०५॥  
 हरहास-इंस-हारिंदु-कुंद-वलहद-संखधवलेण ।  
 तुज्झ जसेण रिउणं साहसु कह मयलियं वयणं ? ॥२०६॥  
 कमलानिलओ वि तुमं नाह ! न दोसायरो सि सुकई वि ।  
 न य अत्थलईओ जं तेण जए विम्हयं कुणसि ॥२०७॥  
 उदामपियालवणो सरलत्तणजणियजणमणाणंदो ।  
 ससहरकंदरविसमो नरनाह ! तुमं हिमगिरि च्व ॥२०८॥  
 अथिरा वि थिरा लच्छी, थिरा वि भमिरी तए कया कित्ती ।  
 अह मुयइ च्चिय तुह दंसणेण महिलायणो पयइं ॥२०९॥  
 समरम्मि तुज्झ खग्गे विमलत्तणएण झत्ति संकंता ।  
 पडिमामिसेण सयला नज्जइ सरणागया रिउणो ॥२१०॥  
 पाणिग्गहिया वि चिरं असियट्ठी तुज्झ नाह ! अइचवला ।  
 अणुरायपुलइयंगी रिउण कंठग्गहं कुणइ ॥२११॥  
 किं नाह ! इमं जुत्तं चउरो वण्णाइ पालयंतस्स ।  
 जं तुह जसेण सयला वि एकवण्णा कया पुहवी ? ॥२१२॥  
 'लच्छीए गाढमालिंणो त्ति'इय चित्तिउण कित्तीए ।  
 ईसाउरेव पेच्छसु नरिंदभुवणे परिब्भमइ ॥ ॥२१३॥  
 रिउरमणीआणणकाणजेसु विलसंतपत्तवल्लीओ ।  
 नीयाओ खयं तरवारिवारिणा जस्स अच्छरियं ॥२१४॥<sup>१</sup>  
 समरम्मि जो'समग्गे विवक्खवग्गे पलायमाणम्मि ।  
 सम्मुहमप्पाणं चिय पेच्छइ करवालसंकंतं ॥२१५॥  
 पणईण देव ! दिंतो बहुसो लक्खाइं उत्तुणो कीस ? ।  
 पडिवक्खाण वि तुह दिति गयवरा रयणकोडीओ ॥२१६॥  
 जाहे च्चिय तं चलणे णयाण उवरिं करं पसारेसि ।  
 लच्छी भुयट्ठिया वो ताहे च्चिय तेसु संकमइ ॥२१७॥

१ एतदनन्तरं "गाथा शत २०९" इति प्रतौ ।



अगमहिंसीओ जाया सव्व च्चिय पत्थिवा न संदेहो ।  
 अण्णह खलाहिलासो कह ताण मणम्मि विप्फुरइ ? ॥२१८॥  
 दट्टूण तुज्झ उदयं पुव्वावर-दक्खिणोत्तरदिसामु ।  
 इय मच्छरेण नरवर ! पेच्छ रवी रायमुव्वहइ ॥२१९॥  
 संझावसरे संझावहूए उवरिं भमाडिज्जण रविं ।  
 खिप्पइ आरत्तियदीवओ व्व तुह रायरायस्स ॥२२०॥  
 जस्स य समरे अरिक्कुंभिपहरसंकंतमोत्तिओ खग्गो ।  
 अरिजीअलुद्धजमजीहदंतपंतीओ उवहसइ ॥२२१॥  
 अरिक्कुंभिक्कुंभनिब्भेयपूररुहिरच्छडारुणच्छाओ ।  
 परिकुवियजमकडक्खो व्व जस्स खग्गो रणे महइ ॥२२२॥  
 अलिकुलकुवलयकज्जलतमालनीलम्मि जस्स धारहरे ।  
 सइ रणसराओ नासंति रायहंसा पवरपक्खा ॥२२३॥  
 जस्स करे करवालो छज्जइ ताविच्छगुच्छसच्छाहो ।  
 समरम्मि हढायड्ढियजयलच्छीवेणिदंडो व्व ॥२२४॥  
 अरिकामिणीण कुंकुम-कत्थूरी-कज्जलाइं अंगेसु ।  
 जस्स करवालधाराजलेण सहस त्ति धोआइं ॥२२५॥  
 जस्स असिभिण्णअरिकरिक्कुंभत्थलगलियमोत्तियगणेण ।  
 वीएण व जणिआ समरभूमिपडिएण कित्तिलया ॥२२६॥  
 नहयलविसालफलए ससहरखडियाए तारसारीहि ।  
 जस्स पयावो कित्ती य दो वि 'दीवंति अविरामं ॥२२७॥  
 मेहं व सजलधारं रणगयणसमुण्णयं तमालनिहं ।  
 दट्टूण जस्स खग्गं पलाइयं रायहंसेहि ॥२२८॥  
 करिक्कुंभदलणसंसत्तमोत्तिओ जस्स रणभरे खग्गो ।  
 सत्तूण सगमग्गो व्व सहइ नक्खत्तसंजुत्तो ॥२२९॥  
 समरम्मि जस्स खग्गो विभिण्णरिउक्कुंभिक्कुंभरुहिरुल्लो ।  
 रेहइ जयसिरिचलणालत्तयपयपंतित्तो व्व ॥२३०॥  
 जस्स करवालदंडेण खंडिआ रेहए रणमहीए ।  
 अरिक्कुंजरदंता अंकुर व्व नज्जंति जसतरुणो ॥२३१॥

\*

२१. अथ राजनीतिप्रक्रमः

विरसाइं जाइं पमुहे, अमयरसायंति जाइं परिणामे ।  
 कज्जाइं ताइं सुवियारियाइं न जणे हसिज्जंति ॥२३२॥  
 साल्दरी कसिणभुयंगमस्स जं खिवइ मत्थए चलणं ।  
 तं मन्ने कस्स वि मंतवाइणो<sup>१</sup> फुरइ माहप्पं ॥२३३॥  
 अंबयफलं सुपक्कं कुहियं विटं समुद्धओ वाओ ।  
 साहा डोळ्ळणसीला न याणिमो कत्थ परिणामो ? ॥२३४॥  
 कज्जं फलं व सरसं जायइ नियकालपरिणईपडिय ।  
 तमकाले धिप्पंतं दुहावहं होइ विरसं च ॥२३५॥  
 तिसु जे अबुत्थपुव्वा रायकुले महियले य सेवासु ।  
 विण्णाण-नाण-लट्टत्तणाण ते बाहिरा पुरिसा ॥२३६॥  
 सिद्धं तं मन्निज्जइ जं सिज्जइ साम-भेयनीईए ।  
 सिद्धं पि तं असिद्धं पहाणपुरिसवखओ जत्थ ॥२३७॥  
 अणुयत्तह भणह पियं जं कज्जं तं मुणेह चित्तेण ।  
 महुरं लवइ मज्जरो सविसं च भुयंगमं गिलइ ॥२३८॥  
 गरुयाइं चिय साहइ पुरिसो कज्जाइं नत्थि संदेहो ।  
 रोसो सुरंगधूलि व्व जस्स न हु पायडो होइ ॥२३९॥  
 सुहडो न सो पयंगो आवट्टइ जो जडोपइट्टो व्व ।  
 अपहारियसुहकज्जो निक्कज्जं चैव खग्गम्मि ॥२४०॥  
 कडुयं पि नागरं चिय परिणाममयं, विसं न महुरं पि ।  
 रिउणो वि वरं सुयणा, मित्ताइं न उण खलपगई ॥२४१॥  
 समए च्चिय कीरंता फलंति किरिया सुहा व असुहा वा ।  
 मेहाणं पि जलाइं दहंति चित्तासु पडियाइं ॥२४२॥  
 किं चोउजं ठाणवसेण जं असंतो वि जायए महिमा ।  
 संघडइ महुरिमा घणगयाण लवणोयहिजलाणं ॥२४३॥  
 पडिवक्खेसुं तेयस्सिणा वि चरियव्वमप्पमत्तेण ।  
 बुट्ठीसु रवी पुरकयवाओ च्चिय पयडइ पयावं ॥२४४॥  
 किंपि पयं अहिरूढो लहुओ वि दहं तवेइ गरुयं पि ।  
 पयतलकंटयलेसो वि दहइ आमत्थयं देहं ॥२४५॥

१. “दुर्दुरी—देशीश” इति प्रतीतिपिप्पणी ॥ २. “णो त फु” प्रतिपाठ ॥

अवरेहिं वि जं सिज्झइ तम्मि कए किं परस्स उवयरियं ।  
 तरणिम्मि दलियतिमिरे उवयरइ जणस्स किं दीवो ? ॥२४६॥  
 उवयरिएसु वि केसु वि अयसो विप्फुरइ सज्जणाणं पि ।  
 मल्लिणत्तणं पि त्त(१ज)लसोहणेण विमलाण वि कराणं ॥२४७॥  
 देवघराण वि काण व वड्ढंताणं कमेण संकोओ ।  
 केसिं पि सु(१पु)णो जायइ वित्थारो पायवाण व्व ॥२४८॥  
 लहुएण वि गुरुओलंबणेण अहियं लहंति अपसंसं ।  
 नहभंगेण वि पडिमाओ देवयाणं अपुव्वा(१ज्जा)ओ ॥२४९॥  
 पयमुन्नयमहिरोहंति केवि दुन्नयपहेण वच्चंता ।  
 मयगहिलविब्भमाणं गयाण पवियंभए अग्घो ॥२५०॥  
 गरुयायंति अणेगे वसणेसु अणाउला पुणो विरला ।  
 बहुसो संति महग्घा जलणे कणयस्स पुण पुट्ठी(१सुट्ठी) ॥२५१॥  
 अवलंबियं तणाई विहलं धारंति अहव तुट्ठंति ।  
 अवलंबिय जे न हु तणसमा वि कि ताण उण भणिमो ? ॥२५२॥  
 अवियारिऊण कज्जं सहस च्चिय जे नरा पयट्ठंति ।  
 उज्झंति ते वराया दीवसिहाए पयंगो व्व ॥२५३॥  
 अवरगुणेणं जाणं मडप्फरो ताण नाम को गव्वो ? ।  
 वाउवसारूढनहंगणाण धूलीण को महिमा ? ॥२५४॥

\*

२२. अथ छेकप्रक्रमः

वंकभणियाइं कत्तो ? कत्तो अद्धच्छिपिच्छियव्वाइं ? ।  
 ऊससियं पि मुणिज्जइ छइल्लजणसंकुले गामे ॥२५५॥  
 लीलावलयणेण वि मुणंति जे हिययकज्जपरमत्थं ।  
 ते कारिमोवयारेहिं कह णु छइल्ला छलिज्जंति ? ॥२५६॥  
 सहस त्ति जं न दिट्ठो, सरहसचित्तेण जं न आलत्तो ।  
 उवयारो जं न कओ तं चिय कलियं छइल्लेहिं ॥२५७॥

१. °आ अवलंबणेण प्रतिपाठ ॥

अक्खंडियमुहरायो पुव्वाभासी अभिन्नमुहराया ।  
 सिढिलंता वि सिणेहं छेया दुक्खेण नज्जंति ॥२५८॥  
 रच्चावंति, न रच्चति, दिंति दुक्खं, न दुक्खिया हींति ।  
 अमुणिवि णियत्तइण्हि दुक्खाराहा जए छेया ॥२५९॥  
 मा रुयसु सुयण ! छेयाण अग्गए झिज्झिहिंति नयणाइं ।  
 न हु भिज्जइ ताण मणं वज्जं पिव सलिलनिवहेण ॥२६०॥  
 रच्चंति नेय कस्स वि, रत्ता वि मयच्छि ! न हु मुणिज्जंति ।  
 दिणकरकर व्व छेया अदिट्ठदोसा नियट्ठंति ॥२६१॥  
 रत्ते रत्ता, कसिणम्मि कसिणया, मज्झिमम्मि मज्झिमया ।  
 फलिहमणि व्व छयल्ला जत्थ गया तत्थ रंगिल्ला ॥२६२॥  
 जह पढमदिणे तह पच्छिमम्मि फरुसाइं नेय जंपंति ।  
 अम्मो( ?व्वो) छइल्लपुरिसा विरच्चमाणा वि दुल्लक्खा ॥२६३॥  
 जोव्वणभरेण अह मंडणेण हिययं हरंति रमणीओ ।  
 अंगनिवेसभवं चिय छेया मग्गंति चंगत्तं ॥२६४॥

\*

२३ अथ हियालीप्रक्रमः

विवरीयरए लच्छी वंभं दट्ठण नाहिकमलत्थं ।  
 हरिणो दाहिणनयणं करेण भा(भ)ण झंपए कीस ? ॥२६५॥  
 सिहिपिच्छकन्नऊरा जाया वाहस्स गव्विरी कीस ।  
 मुत्ताहलरइयपसाहणाण मज्झे सवत्तीण ? ॥२६६॥  
 जइ सामुयाए भणिया पइवासहरम्मि दीवयं देसु ।  
 ता कीस पोढमहिला हसिऊण पलोवए हियय ? ॥२६७॥  
 जइ सा सहीहिं भणिआ तुज्झ मुहं पुन्नचंदसारिच्छं ।  
 ता कीस मुद्धडमुही करेण गंडत्थलं फुसइ ? ॥२६८॥  
 मडयावत्थाभरणा मुयमडएणं च मंडियकरग्गा ।  
 मडयारूढा मुइया पियस्स मुयपाणियं देइ ॥२६९॥

१ “उचयारा—अयमपि सम्यक्” इति प्रती पाठान्तरनिर्देशः, अत्र “अक्खंडिय उचयारा” इति पाठान्तरं ज्ञेयम् ॥

ददूण तं जुयाणं परियणमज्झम्मि पोढमहिलाए ।  
 उप्फुल्लदलं कमलं करेण मउलावियं कीस ? ॥२७०॥  
 अच्छीहिं पई, सिहणेहिं देवरो, गुरुअणो निअंवेण ।  
 तिन्नि विहारेइ वैहू तं जाणह केण कज्जेण ? ॥२७१॥  
 हियं रोमुग्गिणं(णं) पायपहारं सिरेण इच्छंतो ।  
 पढओ न पिओ माणंसिणीए थोरंसुयं रुयणं ॥२७२॥  
 ददूण सामिसालं कंटं गहिऊण निव्वरं रुन्न ।  
 पत्ते वियालसमए ता कीस जुयज्जुया सिज्जा ? ॥२७३॥  
 हंतूण वग्गयंदं वाहो वाहाण मज्झयारम्मि ।  
 धुयइ सरं पियइ जलं तं जाणह केण कज्जेण ? ॥२७४॥  
 अट्ठिणवपेमसमागमजोव्वणरिद्धी वसंतमासम्मि ।  
 पवसंतस्स य पिउणो भण कीस पलोइयं सीसं ? ॥२७५॥  
 विद्धो वाहेण मओ मएण वाहस्स वंठियं कंडं ।  
 छिन्नं मयस्स सीसं तह वि मओ तं तणं चरइ ॥२७६॥  
 अमुणिय पयारिहरिसंकराणसद्धो ण [?] पलायंति ।  
 ताहि चिय गरुडगमणे ! हा मुद्धे ! कत्थ दीसिहिसि ? ॥२७७॥  
 जलजायजायवाहणगईए हरवहकलंकनयणीए ।  
 करनाससीससघणत्थणीए मह विम्हियं हियं ॥२७८॥

\*

२४. अथ वेश्याप्रक्रमः

दूरागय त्ति आयरपडिच्छियं पायमूलपडियं पि ।  
 उज्जंति फालिऊणं वेसा लेहं व गहिअत्थं ॥२७९॥  
 लोहमयी गुणमुक्का रत्तं ददूण जीवियं हरइ ।  
 विसभल्लिय व्व वेसा जं पावइ तं विणासेइ ॥२८०॥  
 सामन्नभुंदरीणं विव्वममावहइ अविणओ चेव ।  
 धूमु च्चिय पज्जलियाण वहुमओ सुरहिदारुणं ॥२८१॥  
 कयकट्ठिणकोसपाणा लोहपसारियसरीरसठाणा ।  
 सुंदरसिंघंसोहा खंडइ वेसाऽसिलट्ठि व्व ॥२८२॥

१. 'वहू न याणिमो केण' इति प्रती पाठान्तरम् ॥

अन्नोन्नरायरसियं आसन्नपओहरं गुणविह्वणं ।  
 धट्टं सहाववंकं वेसाहिययं सुरधणु व्व ॥२८३॥  
 अहिणि व्व कुडिलगमणे !, रोरहरे दीविय व्व निन्नेहे ! ।  
 सुकइ व्व अत्थलुद्धे ! वेसे ! दिट्ठा सि, वच्चामो ॥२८४॥  
 जह लडहत्त जह सा विअड्ढिहमा पणवहूण जह विणओ ।  
 तह जइ पिम्मं पि ह्वेज्ज को सलाहिज्ज ता अमयं ? ॥२८५॥  
 निम्मलपउत्तहारा बहुलोहा पुलइएण अंगेण ।  
 खग्गलइय व्व वेसा कोसेण विणा न संवहइ ॥२८६॥  
 सरसा निहसणसारा गंधइद्धा बहुभुयंगपरिमिलिया ।  
 चंदणलय व्व वेसा भण कस्स न वल्लहा होई ? ॥२८७॥  
 अत्थत्थेप(१च्छेए)ण मुहाइं होति विसउब्भवाइं सेसाणं ।  
 ताइं चिय उण वेसाण, मूलमत्थस्स अच्छरियं ॥२८८॥

\*

२५. अथ सर्वाङ्गस्त्रीवर्णनप्रक्रमः

मरगयमंजीरमऊहमिलियनहरयणकंतिचरणजुयं ।  
 बालारुणतिमिराणं समए १[? ॥२८९॥  
 . . . . . ।  
 . . . . . ॥२९०॥  
 . . . . . ]विहिणो लत्ताइरंजियं तस्स ।  
 हिययस्स व विदू (? ) निवडियरोमावली जाया ॥२९१॥  
 रूवेण से न सरिसी अन्ना अत्थि त्ति दप्पियमणेण ।  
 मज्झम्मि रोमराई रेह व्व कया पयावइणा ॥२९२॥  
 तदियसकयाहाया जह जह सिहिणो विणिंति वालाए ।  
 तह तह लद्धावास व्व वम्महो हिययमाविसइ ॥२९३॥  
 पीणा घणा सुदूरं समुण्णया महवियंभियच्छाया ।  
 मेहा थणा य से निव्वर्विति तण्हाउरं हिययं ॥२९४॥

१ अत्र कोष्ठकमध्यगत पाठो नोपलब्ध प्रतिलेखकेन, अतोऽत्र स्थाने “यथाप्रति” इति प्रतौ टिप्पणी उपलभ्यते ॥

मुहचंदमसंदिद्धं सुंदरचंदियपवाहपाणकए ।  
 जीए चओरमिहुणं व आगयं सहइ सिहिणजुअं ॥२९५॥  
 रससरियाए तीए तिवलितरंगाए सिहिणचक्काए ।  
 रमणपुलिणम्मि कीलं करेइ अज्ज वि सिख्ख मयणो ॥२९६॥  
 विसमेसुमहीनाहस्स विजयजत्ताए कयनिवासस्स ।  
 रइपीइगुड्डुरा इव उरोरुहा जीए रेहंति ॥२९७॥  
 भरिउच्चरियं विहिणो जं अमयं तरुणिसिहिणकलसाओ ।  
 तत्तो मन्ने घडिओ असेसजणवल्लहो चंदो ॥२९८॥  
 वयणारविंदनीसंदमाणलावन्नविटुपंति व्व ।  
 मोत्तियमाला कंठम्मि तीए परिघोलिरी सहइ ॥२९९॥  
 निउणविहिकम्मनिम्मियकवोललायण्णतच्छणोच्छलिया ।  
 तिस्सा मुहाओ जाया बाहिरछल्लि व्व ससिरेहा ॥३००॥  
 अण्ण(ण्णं) च्चि(चि)य(?) ससिविवं विहिणा से निम्मियं तथा वयणं ।  
 जस्स न कीत्ती[?हायइ] बहुलविसाहाहि दियसेहि ॥३०१॥  
 पडिबिंविओ जीए कवोलमंडलेसुं निसाए निसिनाहो ।  
 न्हाणत्थं पिव तम्महुजोन्हाए कलंकमलकल्लसो ॥३०२॥  
 तुह मुहसारिच्छं न लहइ त्ति संपुण्णमंडलो विहिणा ।  
 अन्नमयं व घडेउं पुणो वि खंडिज्जइ मयंको ॥३०३॥  
 अइसुरहिसासपरिभमिरभमरपरिविंविचुंविक्कवोलं ।  
 वयणं चलंतमयणाहिपत्तकोऊहलं जणइ ॥३०४॥  
 अहरच्छलेण दिन्ना विहिणा सिंदूररायमुद्द व्व ।  
 वयणे विंविनिहा से लायन्नं रक्खमाणेण ॥३०५॥  
 एईए [? ] अहरहयाणि मंदाइं लज्जमाणाइं ।  
 विंविफलाइं उव्वंधणं व वल्लीसु विरयंति ॥३०६॥  
 वयणेण इमीए विणिज्जियाइं जं पंकयाइं वियसंति ।  
 तं जलसंसग्गकयं मूढत्तं फुरइ ताण धुवं ॥३०७॥  
 नयणाइं सामलीए घोलावियमहुरमंदताराइं ।  
 कस्स न हरंति हिययं गयाइं व कन्नलग्गाइं ? ॥३०८॥  
 नयणनईसु य जिस्सा वाह(?हो) इव पविसिऊण पंचसरो ।  
 भूजुअलमिसेण धणुं तडम्मि मोत्तूण मज्जेइ ॥३०९॥

सोहंति जीए सवणा नयणनईपवहरयहयप्पसरा ।  
तरुणमणहरिणबंधे मयणमहावाहपास व्व ॥३१०॥  
अद्धिदुविंदु(१ब)सरिसं निडालफलेयं विहाय निप्पंकं ।  
जोव्वणसिरीए मुहदप्पणं व विहिणा विणिम्मवियं ॥३११॥  
उक्कीरिउं मयंकं विहिणा मुहमंडलम्मि निम्मविए ।  
तच्छियलंछणवल्लरिकरणिं कुरलावली कुणई ॥३१२॥  
पिट्ठिट्ठिएण रेहइ मुद्धा पिहुलेण चिउरभारेण ।  
नियमुहमयंकनिज्जिअभीएण व तिमिरनिवहेण ॥३१३॥  
मयणग्गिणो व्व धूमं, मोहणपिच्छं व लोयदिट्ठीए ।  
जोव्वणधयं व मुद्धा वहइ सुयंधं चिउरभारं ॥३१४॥  
पाउससिरि व्व उन्नयपओहरा, धणुलय व्व गुणकलिया ।  
नयर व्व दीहरच्छा बालासुकहा इइ महत्था ॥३१५॥  
एको वि पएसो अवयवाण सो नत्थि सामलिं(लं)गीए ।  
संवट्ठियचा [? ] वक्खंति तरुणीओ ॥३१६॥  
तइयउच्छिसिहिसिहाभासुरेण भुवणे हरेण अक्कंते ।  
अहरट्ठाणे तुह सुयणु ! वसइ निरुवद्वमणंगो ॥३१७॥  
तह पावियखंडण-पीलणो वि जो वइइ निब्भरं रायं ।  
जइ सो वि होइ अहरो को उण तुह उत्तरो सुयणु ! ॥३१८॥  
जइ कोट्टिमो सि उज्जयसयलतिहीचंददंसणसयण्हो ।  
ता [? ] करो जत्थ अणंगी(१गो) न वीसमइ ॥३१९॥  
अमएकनिहीणं तरइ को णु जुवईण वन्निउं महिमं ? ।  
जाण पभावे सहलत्तमेइ सक्कस्स वि समिद्धी ॥३२०॥

\*

२६. अथ शङ्कारप्रक्रमः

सुंद(१दे)रतुलियकंदप्प ! तुज्झ अणविग्घदंसणमणाओ ।  
परिवाडिनिमिसणं लोयणेहिं सिक्खंति तरुणीओ ॥३२१॥

१. "लयं ति चिहाय" प्रतिपाठ. ॥ २ 'उक्कीरिउण मं' प्रतिपाठः ॥  
३ एतदनन्तरं "गाथा ३००॥" इति प्रती ।



ता उम्मोइत्तं .... .... .... ।  
 .... .. .... .... .... ॥३२२॥  
 .... .. .... .... .... ।  
 .... ....' .... .. .... .... ॥३२३॥  
 .... .. .. .... . .... ।  
 .... .... . कसिण कंचुयं पेच्छ गोरिसुहं ॥३२४॥  
 रेहइ कररुहरेहा मुद्धाहिययम्मि पियकरोल्लिहिया ।  
 मयणनवमंदिरारंभदोरिया धाउरत्त व्व ॥३२५॥  
 वंकपरिसंकियाणं वंकुल्लावाण वंकदिट्ठीणं ।  
 को माइ ! उवज्झाओ अन्नो नवजोच्चणाहितो ? ॥३२६॥  
 मा हु नियच्छसु एयं एसा अइजोइया रुयावेइ ।  
 बाला कप्पूरम(स)लाइय व्व अच्छीसु लग्गंती ॥३२७॥  
 किं सच्चं चिय अहरो पियाण बहु रमइ मतु(मन्नु)दुक्खेणं ।  
 तत्थ मणोहरैलवियस्स जीय साओ अणंगस्स ॥३२८॥  
 सा तस्स मियंकस्स व करफंससमुग्गएण सेएण ।  
 ससिमणिघडियां वा(धी)उल्लियं व्व वारीमई जाया ॥३२९॥  
 अमुणियविसेसपसरंततोस-रोसेसु भूसियं तिस्सा ।  
 चाट्टुम्मि विप्पियम्मि वि एक्कावत्थं मुहं सरिमो ॥३३०॥  
 वर-वहुयाणं हत्था सज्जसपसरंतसेयसल्लेण ।  
 तक्खणघडिया अग्घं व दिंति मयणस्स इंतस्स ॥३३१॥  
 दीसंतो नयणसुहो निव्वुइजणओ करेहि वि छिवंतो ।  
 अब्भत्थिओ न लब्भइ चंदो व्व पिओ कलानिलओ ॥३३२॥  
 हत्थप्फंसेण वि पिययमस्स जा होइ सुक्खसंपत्ती ।  
 सा सरहसगत्तालिंगणेण इयरे जणे कत्तो ? ॥३३३॥  
 अवियण्हपिच्छणिज्जं समसुह-दुक्खं विइन्नसव्भावं ।  
 अन्नोन्नहिययलग्गं पुन्नेहि जणो जणं लहइ ॥३३४॥

१ “यथाप्रति” इति प्रती टिप्पणी, अनेनेदं ज्ञायते—लेखकप्रमादाद् इतोऽग्रे पाठो न गलितः किन्तु लेखकपूर्वादर्शे पाठभ्रश आसीत् ॥ २ ‘हरपलवियस्स प्रती ॥ ३ “पुत्रिका” इति प्रती टिप्पणी ॥

सा नु(१तु)ह हियए तं मह निसंस ! ईयं(१इय) वीयभारमक्कंतं ।  
पत्तिय परिणयदाडिमफलं व फुडिही फुडं हिययं ॥३३५॥  
दु(वु)ब्भसि पियाए समं(म्मं) पुच्छिसि तं तहवि कीस किसिआऽसि ? ।  
अहियभरेण अयाणुय ! मुयइ वइल्लो वि अंगाई ॥३३६॥  
नवसरसदंतमंडलकवोलपडिमागओ मयच्छीए ।  
अंतो सिंदूरियसंखवन्नकरणि वहइ चंदो ॥३३७॥  
अंधोअणयं सुहकंखिरीए अकयं कयं भणंतीए ।  
सरलसहावो वि पिओ अविणयमग्गं बला नीओ ॥३३८॥  
लज्जा चत्ता, सीलं च खंडियं, अयसघोसणा दिण्णा ।  
जस्स कएण कयाई सो चेव जणो[१ऽ]जणो जाओ ॥३३९॥  
नहरेहा जीए उरम्मि सहइ रोमंचखंडियनिवेसा ।  
खणविरहभीरुणो सीवणि व्व फुडियस्स हिययस्स ॥३४०॥  
एक्का अमावस च्चिय भुवणे सोहग्गगव्वमुव्वहइ ।  
जस्सेकसंगमाओ कलाहिं परिवड्ढए चंदो ॥३४१॥  
दुक्खं दिंतो वि षुहं जण(णे)इ जो जस्स वल्लहो होइ ।  
दइयनहदूसियाण वि वड्ढेइ सिहीण रोमंचो ॥३४२॥  
अणुराउ च्चिय दइउ(१या)सु घडइ सोहग्गचंगिमगुणाई ।  
चंदो च्चिय जणइ-मणीसु कठिणहियएसु सल्लिाई ॥३४३॥  
एकत्तो कमलवर्णं अन्नत्तो तीरसंठिया-वाला ।  
कमलाण लोयणाण य भमेण परिभमइ रिंछोली ॥३४४॥  
वरतरुणिघोरघणसिहिणपिल्लिओ हार! दोलसे कीस ? ।  
कुमुहेहिं समं गुणवंतयाण संगो च्चिय विरुद्धो ॥३४५॥  
चंदो वि जाण दासो तरुणिकवोलाण ताण किं भणिमो ? ।  
सोहंति ते वि जेहि ताण नामो वल्लहन्नराणं ॥३४६॥  
रोसेण वि जंपंती जं जणइ महूसवं हिययदइया ।  
नेहेण वि जंपंता तं कत्तो बंधवा अवरे ? ॥३४७॥  
चंगत्तं दिव्ववसेण नत्थि जइ तत्थ किं वयं भणिमो ? ।  
रसलडइत्तं उण वहउ(१इ) कोइ जइ(१ह) वहह(१इ) दक्खाए ॥३४८॥  
जं किर उल्लसइ दहं अणुरायपरम्मूहेसु अणुराओ ।  
तं चेय महविसं उण महणभवं तस्स पडिर्विचं ॥३४९॥

उद्धंलयं छायाविवज्जियं नट्टचित्तबुहरहियं ।  
 अणुहरइ उवलजुन्नेउलस्स(?) जं माणुसं रत्तं ॥३५०॥  
 येवेण वि विणएणं पुरिसा महिलासु जह पसीयंति ।  
 न तहा महिला पुरिसेसु कट्ठिणहियया जओ नीया ॥३५१॥  
 दाणेण तं न, विणएण तं न, रूवेण तं न सोहग्गं ।  
 परमपराहअ(?)विसंठुलाहिं जं फुरइ वायाहिं ॥३५२॥  
 जं नम्मयाए विहिओ विंझं मोत्तण जलनिहीसंगो ।  
 तं नूणं रमणीओ सलूणपुरिसेसु रच्चंति ॥३५३॥

\*

२७. अथ नयनप्रक्रमः

परंपुरपवेसविन्नाणलाइवं सुहय ! सिक्खियं कत्थ ? ।  
 जेण पविट्ठो हियए पढमं चिय दंसणे मज्झ ॥३५४॥  
 पायडियनेहसवभावविभमं तीए जह अहं दिट्ठो ।  
 संवरणवावडाए अन्नो वि जणो तह च्वेय ॥३५५॥  
 हिययट्ठिया वियंभइ अम्हाणं कंठधारिणी दइया ।  
 इयरमहिलाहिं मुक्का नयणसरा जं न लगंति ॥३५६॥  
 सामाइ नयणसोत्ते मा जाणह तारओ त्ति डसणत्थं ।  
 मयणभुयंगो एसो वंधिय भोयं ठिओ एसो ॥३५७॥  
 एको वि कालसारो न देइ गंतुं पयाहिणवलंतो ।  
 किं पुण वाहाउलियं लोयणजुयलं पिययमाए ? ॥३५८॥  
 नूणं तिणयणभयकयरमणीरूवेण वियरइ अणंगो ।  
 अन्नह कह नयणसरेहिं ससिमुही भिंदइ जुवाणे ? ॥३५९॥  
 ता चक्खुरायपरिपीडियाण इत्थीण सहि ! सुहं कत्तो ? ।  
 जा पियदंसणसलिलं पीयं न हु नयणपुडएहिं ॥३६०॥  
 परिओसवियसिएहिं भणियं अच्छीहिं तेण जणमज्जे ।  
 पडिवन्नं तीइ वि उच्चमंतसेएहिं अंगेहिं ॥३६१॥

१. °धवलयं प्रतौ ॥ २. न, वि रूवेण प्रतौ ॥

३. “वंकेहिं पिळो, सरलेहिं सज्जणो, वरगुणेहिं मज्झत्यो ।  
 रोसारुणेहिं पिसुणो, णयणाण चरन्विहो भंगो ॥१॥”

इति प्रतौ टिप्पणी

अमयमइया वि वाला करेइ कलिमलय(मयण)दाहमुच्छाअ ।  
 पिच्छंता कि न करइ नयणाइं विसालयाइ से ? ॥३६२॥  
 ईसा-मच्छररहिहिं निव्वियारेहिं मामि ! अच्छीहिं ।  
 इन्हि जणो[?S]जणं पिव नियच्छए, कह न झिज्जामो ? ॥३६३॥  
 पियहोत्त जाण विलासिणीण लीलाफुरंतपम्हाइं ।  
 उहुंति व तरलियपक्खसंपुडग्गाइं अच्छीइं ॥३६४॥  
 नयणाइं सवाणियपत्तलाइं परपुरिसजीयहरणाइं ।  
 असियसियाइं व मुद्धे ! खग्गाइं व कं न मारंति ? ॥३६५॥  
 वरतरुणिनयणपरिसंठियस्स जं कज्जलस्स माहप्पं ।  
 दीवयसिहासु न तहा ठाणेसु गुणा विवड्ढंति ॥३६६॥  
 पियदंसणसरहसमउलियाइं जइ से न होति नयणाइं ।  
 ता केण केन्नलइयं लक्खिज्जइ कुवलयं तिस्सा ? ॥३६७॥  
 हारो सिहीण, सवणाण कुंडल, तह नियंक्किणिगिया ।  
 नयणाण गुणो विहवे वि मंडलं(?णं) कज्जलसलाया ॥३६८॥  
 अणुरायतंतुआयड्ढियाइं जणसंकुले वि नयणाइं ।  
 वलिऊण सणियसणियं जत्थ पिओ तत्थ वच्चंति ॥३६९॥  
 सुहओ त्ति जियइ विद्धो, मरइ अविद्धो तहऽच्छिवाणेहिं ।  
 इय सिक्खविया केणं अउव्वमेयं धणुव्वेयं ? ॥३७०॥  
 हरविसमनयणकोवानलेण दड्ढेण तहवि मयणेण ।  
 कज्जलमिसेण तरुणीनयणे संकामिओ अप्पा ॥३७१॥  
 नवजोव्वणाण पिम्मंधलाण मिहुणाण लोयभीयाणं ।  
 पच्छन्नं जं नयणेहिं संगमो तं रइरहस्सं ॥३७२॥

\*

२८. अथ स्नेहप्रक्रमः

एकं चिय सलहिज्जइ दिणेस-दिस(?य)हाण नेहनिव्वहणं ।  
 आजम्ममेकमेक्केहिं जेहिं विरहो च्चिय न दिट्ठो ॥३७३॥

१ 'कन्नकलिय' इति लिखितपाठ सशोधय 'कन्नलइय' इति पाठ प्रतिशोधकेन कृतोऽस्ति ॥

पियवल्लिविरहियाणं नेहो पत्ताण चेव निव्वडिओ ।  
 फिट्ठंति जइ मयाणं वंभजलद्दाड नयणाइं ॥३७४॥  
 सच्चं चिय ससिणेहो सो सुहओ पियसहीओ ! जं अम्ह ।  
 ज्झत्ति परिपडुराइं तेण विणा होंति अंगाइं ॥३७५॥  
 जइ न झुल्लुक्किज्जंतो रूसणयदवेण मामि ! मिहुणाणं ।  
 खंखरसिणेहद्वभो ता कहणु पुणन्नवीह(हों)तो ? ॥३७६॥  
 भुंजसु सिणेहजुत्तं कत्तो लोणं कुगामरट्टम्मि ? ।  
 सुहय ! सलोणेण वि किं व तेण नेहो जहिं नत्थि ? ॥३७७॥  
 मामि ! सरिसऽक्खराण वि अत्थि विसेसो पयंपियव्वाण ।  
 नेहभणियाण अन्नो, अन्नो उवरोहभणियाण ॥३७८॥  
 ताव य पुत्ति ! छइल्लो जाव न नेहस्स गोयरे पडइ ।  
 नेहेण नवरि छेयत्तणस्स मूला खणिज्जंति ॥३७९॥  
 मह मणवल्ली तुह वयणमंडवे निव्वरं समल्लीणा ।  
 रक्खिज्जसु सुक्कंती, सिंचिज्जसु नेहसलिलेण ॥३८०॥  
 एक्काए नवरि नेहो पयासिओ तिहुयणम्मि जोन्हाए ।  
 जा झीणइ झीणे ससहरम्मि वड्ढइ अ वड्ढंते ॥३८१॥  
 मयवहण ! मह निमित्तं जं निस(?य)सि निसंस ! कं नियंतीयं (?) ।  
 तं मन्ने सुहजीविरनेहस्स न गोयरे पडिओ ॥३८२॥  
 रणरणयरुज्जदुच्चल्लएहिं(?) नच्चइ नडो व्व ह्यलोओ ।  
 विरहे मरणेण विणा सिणेहरेहा न निव्वडड ॥३८३॥  
 समचिंताइ वि वरिणीए भत्तुणा सह इमो विसंवाओ ।  
 सो 'सामिणि' त्ति तं सुणइ, 'किंकरी' सा वि अप्पाणं ॥३८४॥  
 अणुराओ जस्स जहि तेणं चिय हिययनिव्वुई तस्स ।  
 मेहसलिलेहिं तिप्पइ वप्पीहो, न सरसलिलेहिं ॥३८५॥  
 पुन्निमससि व्व छिज्जइ अणुदियहं सुयणु ! खलयणसिणेहो ।  
 पिच्छइ सुयणाण पुणो वीयाचंदस्स अणुहरइ ॥३८६॥

\*

१. 'नयणाइ' इत्येतदुपरि 'वसणाइ' इति --शोबकलिखित-- पाठः ॥ २. 'रणरणय' प्रतिपाठः ॥

२९. अथ दूतीप्रक्रमः

निवससि दुक्खसहाया मह हियए, सो पिओ तर्हि चेव ।  
सहि ! सुणह दोवि तुब्भे परमत्थं किंचि संदिसिमो ॥३८७॥  
निति तुहविरहहुयवहपलीविया तीए हिययभवणाओ ।  
इज्झंत ष्व तुरंता पेलावेल्लीए नीसासा ॥३८८॥  
अन्नत्थ पेसिएण वि आयन्नापूरिएण तणुमज्झा ।  
अकलेण वि तुज्झ सरेण सुहय ! मारिज्जइ वराई ॥३८९॥  
सूमि(१नूम)ति जे पडुत्तं, कुवियं दासं व्व जे पसायंति ।  
ते च्चिय भहिलाणं पिया, सेसा सामि च्चिय वराया ॥३९०॥  
महिलासहस्सभरिए तुह हियए सुहय ! सा अमायंती ।  
पडिदिणमणन्नकम्मा अंगं तणुअं पि तणुएइ ॥३९१॥  
विरहग्गितावतविए हियए वससि त्ति तीए सुयणो सि ।  
ससिमणिसमे वि निवसइ तुह हियए नो अणज्जा सा ॥३९२॥  
सरसा वि हु सुसइ च्चिय, जाणइ दुक्खाइं मूढहियया वि ।  
रत्ता वि पंडुर च्चिय जाया वट्टइ तुह विओए ॥३९३॥  
सोक्खाइं तुमार्हितो, तत्तो निदा, तुमाहि मे जीयं ।  
पियसंगमं तइंतो, जं जाणिसि तं कुणिज्जासु ॥३९४॥  
'जियउ'त्ति पयसणाहं तुह गोत्तं परियणाहि सोउमणा ।  
छिक्काकएण बहुसो नासाविवरे तणं छिवइ ॥३९५॥  
तइ सुहय ! अदीसंते तिस्सा अच्छीहिं कन्नलग्गे(ग्गा)हिं ।  
दिन्नं घोळिरवाहाहिं पाणियं दंसणसुहाण ॥३९६॥  
बहुसो वि कहिज्जंतं तुह वयणं मज्झ हत्थसंदिट्ठं ।  
'न सुयं'ति जंपमाणी 'पुणरुत्तऽसुयं कुणइ अज्जा ॥३९७॥  
'एहिसि तुमं'ति निमिसं व जग्गियं जामिणीए पढमद्धं ।  
सेसं संतावपरव्वसाए वरिसं व बोलीणं ॥३९८॥  
धरिओ धरिओ वियलइ उवएसो से सहीहिं दिज्जंतो ।  
मयरद्धयवाणपहारजज्जरे तीए हिययम्मि ॥३९९॥  
काला कप्पा वि गया संझादूईए संचरंतीए ।  
दिवसस्स निसाए समं न सक्किओ संगमो काउं ॥४००॥

हरचित्तए वि चित्ते चित्तभवो तीए कह समुप्पण्णो ? ।  
 तं पुण विउणियचित्तो अचित्तजम्मा कहं जाओ ? ॥४०१॥  
 जइ सो न एइ मह मंदिरम्मि ता दूइ ! अहमुही कोस ? ।  
 सो होही मज्झ पिओ जो तुज्झ न खंडए वयणं ॥४०२॥  
 सा तुज्झ कए गयमयविलेवणा तह वणिक्कसाहारा ।  
 जाया निहय ! जाया मासाहारा पुल्लिदि व्व ॥४०३॥  
 जो तीए अहरराओ रत्ति उवासिओ पिययमेण ।  
 सो च्चिय गोसे दीसइ सवत्तिवयणेसु संकंतो ॥४०४॥  
 सा दियहं चिय पेच्छइ पडिमावडियाइं दप्पणयलम्मि ।  
 एएहिं तुमं दिट्ठो त्ति तुज्झ विरहम्मि अच्छीहि ॥४०५॥  
 सब्भावसिणेहनिवेइरीए जीए तुमं न पत्तीणो ।  
 सा सुहय ! पढमदूई रुयइ विलक्ख व्व से दिट्ठी ॥४०६॥

\*

अथ प्रेमप्रक्रमः

न मुयंति गाढलग्गं खणं पि न धरंति सिढिलयं तं तु ।  
 पिम्मं निम्मोयं पिव जयम्मि जे ते च्चिय भुयंगा ॥४०७॥  
 पढमारंभे मणहरघणलग्गमणेयरायरमणिज्जं ।  
 पिम्मं सुरिंदचावं व चंचलं झत्ति वोलेइ ॥४०८॥  
 पिम्मस्स विरोहियसंधियस्स पच्चक्खदिट्ठदोसस्स ।  
 उदयस्स व तावियसीयलस्स विरसो रसो होइ ॥४०९॥  
 फुट्टंतेण वि हियएण मामि ! कह निव्वरिज्जए तम्मि ।  
 अद्दाए पडिर्विवं व जम्मि दुक्खा न संकमइ ॥४१०॥  
 कइयवरहियं पिम्मं णत्थि [१य] किर मामि ! माणुसे लोए ।  
 अह होन्न(ज्जा) विरहो कस्स होइ ? विरंही व को जियइ ? ॥४११॥  
 संतावियं न विहडइ पिम्मं नवजच्चकंचणच्छायं ।  
 वइदइ कलार्हिं अहियं मिहुणाणं माणकसवट्टे ॥४१२॥  
 जत्थ न दूरालोयणपसयच्छी दीहपउमनालेहिं ।  
 पिच्छइ अणुरायरसं अणवरयं तत्थ किं पिम्मं ? ॥४१३॥

१. "अह पिम्म को विरहो ? अह विरहो को उ जीएइ ॥" अयमपि पाठः समीचीन. १" इति प्रतौ टिप्पणी ॥ २. विरहि व्व को प्रतौ ॥

इन्हि वारेइ जणो तइया मूयल्लिओ कहं(हि) पि गओ ।  
जाहे विसं व जायं सव्वंगपहोलिरं पिम्मं ॥४१४॥  
जं दोसेसु निसम्मइ, जं उवएसेहिं तीरणे चलिउं ।  
जं च सहए विओयं तं सहि ! पिम्मं चिय न होइ ॥४१५॥  
आवायमेत्तगरुएहिं मामि कमसो सरंतलहुएहिं ।  
घंटानिनायसरिसेहिं लज्जिमो लोयपिम्मेहिं ॥४१६॥  
के धन्ना जे सुमुहि(? ही)तरुणीणं पिम्मनिम्मले हियए ।  
पेच्छंति दप्पणम्मि व संकंतं अत्तणो रूवं ॥४१७॥  
अइवल्लहं पि न उ सरइ माणुसं देस-कालअंतरियं ।  
वल्लीए समं पिम्मं जं आसन्नं तहिं चढइ ॥४१८॥  
समसुख-दुक्खं संवड्ढियाण कालेण रूढपिम्माणं ।  
मिहु एग ण मरइ जं तं खु जीयइ परं मयं होइ ॥४१९॥  
सहि ! एरिस च्चिय गई मा रूव्वउ तंसवलियमुहइदं ।  
एयाण वालवालुंकिंतंतुकुडिलाण पिम्माण ॥४२०॥  
जा न चलइ ता अमयं, चलयं पिम्मं विसं विसेसेइ ।  
दिट्ठं सुय च कत्थ वि मयच्छि ! विसगग्भिभयं अमयं ? ॥४२१॥  
संतावियाइं अम्हे अमुणा पिम्मेण वंकविसमेण ।  
दुग्घडियमंचएण व खणे खणे पायवडणेण ॥४२२॥<sup>१</sup>  
दढनेहनालपसरियसब्भावदलस्स रइसुयधस्स ।  
पेमोप्पलस्स मुद्धे ! माणतुसार च्चिय विणासो ॥४२३॥  
जाए माणप्पसरे फिट्ठे नेहे गयम्मि सब्भावे ।  
अब्भत्थणाए पिम्मं कीरंतं केरिसं होइ ? ॥४२४॥  
अन्नं तं सयचलयं पि मिलइ रसगोलयं व जं पिम्मं ।  
अन्नं मयच्छि ! मुत्ताहलं व भग्गं न संघडइ ॥४२५॥  
दाडिमफलं व पिम्मं सकसायं एक्कवारियं होइ ।  
जाव न वीयं रत्तं न ताव सरसत्तणं कुणइ ॥४२६॥

१ एतदशुद्धोत्तरार्द्धस्थाने “मिहुणाण मरइ एग, ज जीयइ त मयं होइ” इत्येतद्भाव-  
द्योतकमुत्तरार्द्धं सम्भवति ॥ २ एतदनन्तरम् “गाथा ४०० ॥” इति प्रती ॥



अन्नाऽऽसत्ते हे पुत्ति ! पिययमे कुणसु आयरं अद्वियं ।  
 पिम्माइं मयीलंबच्छि ! हौंति अक्कंतसाराइं ॥४२७॥  
 दुल्लहजणाणुराओ लज्जा गरुई परच्चसो अप्पा ।  
 पियसहि ! विसमं पिम्मं मरणं सरणं नवरमेक्कं ॥४२८॥  
 आलाव-हास-परिरंभणाइं पिम्मस्स परियरो एसो ।  
 पिम्मं पुण नयणतिहायभूरिपरिवोळिरा दिट्ठी ॥४२९॥  
 अदंसणेण अइदंसणेण तह अन्नजुवइनेहेण ।  
 माणेण पवासेण य पंचविहं झिज्जाए पिम्मं ॥४३०॥  
 अदंसणेण वालय ! मुट्ठु वि नेहाणुरायभरियाइं ।  
 हत्थउडपाणियाइं व काणेण गलंति पिम्माइं ॥४३१॥  
 सहजग्गिराण सहसोविराण सहहरिस-सोयवंताणं ।  
 नयणाण व धन्नाणं आजम्ममकित्तिमं पिम्मं ॥४३२॥  
 ताण नमो पिम्माणं कलहविहाणेसु जाण संधाणं ।  
 रणरणयपेल्लणेहिं न नाममित्ताण भणिएहिं ॥४३३॥  
 कलहे मिहुणाणमहो ! परिरक्खंताण अणुणयकलंक्कं ।  
 पेम्मभरतम्मिराण वि गहिलाण गलंति दियहाइं ॥४३४॥  
 अणुरायपरं पुरिसं महिलाओ विडंबयंति पाएणं ।  
 पेच्छंति पुणो पुरिसा महिलं पिम्मेण परमेण ॥४३५॥  
 सवभावपिम्मरहिणसु निष्फला हौंति भणिइभंगीओ ।  
 विहलो च्चिय कइरविणीसु गोसहस्सो वि तरणिस्स ॥४३६॥  
 दाहज्जरविहुराणं सिसिरेसु जलेसु जारिसी तन्हा ।  
 धन्नाणं पिम्माणं परोप्परं तारिसं पिम्मं ॥४३७॥  
 घडिउं पुणो न तीरई पणयपरूढं पि विहडियं कहवि ।  
 पेम्मं मुणालनालं व सुयणु ! बहुएहिं वि गुणेहिं ॥४३८॥  
 सव्वंगनिव्वुडकरो अन्नो सो सत्तमो रसो कोइ ।  
 आसाइज्जइ जो पढमपिम्मे पियसंगमाहितो ॥४३९॥

३१. अथ मानप्रक्रमः

‘माणो’ इमाइं दोअक्खराइं ‘पियसंगमो’ त्ति बहुयाइं ।  
 थोवं जिप्पइ बहुएहि एत्थ तुम्हे च्चिय पमाणं ॥४४०॥  
 अविरयरयकेलिपसंगसोक्खपवभारईसिकुंठइयं ।  
 माणनिसाणयनिसियं होइ पुणो अहिणवं पिम्मं ॥४४१॥  
 जइया पुणो न दीसइ भणह हले ! कस्स कीरण् माणो ? ।  
 अह दिट्ठम्मि वि माणो ता तस्स पियत्तणं कत्तो ? ॥४४२॥  
 गाढालिगणरहसोज्जयम्मि दइए लहुं समोसरइ ।  
 माणंसिणीण माणो पीलणभीओ व्व हिययाहिं ॥४४३॥  
 माणेण मह मणाओ पुच्चि निव्वासिओ पिओ मामि ! ।  
 इण्हि निव्वासिज्जइ मयणसहाएण सो तेण ॥४४४॥  
 वाहभरभमिरतारं तावियतवणिज्जतुलियगंडयलं ।  
 फुरियाहर-नासउडं माणिणिमाणं पि रमणिज्जं ॥४४५॥  
 दढमंतुदूमियाइ वि गहिओ दइयम्मि पेच्छह इमीए ।  
 ओसरइ वालुयामुट्ठिय व्व माणो सुरसुरंतो ॥४४६॥  
 जो कहवि सहीहि महं छिइं लहिऊण ठाविओ हियए ।  
 सो माणो चोरियकामुय व्व दिट्ठे पिए नट्ठो ॥४४७॥  
 निदाभंगो आवंडुरत्तणं दीहरा य नीसासा ।  
 जायंति जस्स विरहे तेण समं केरिसो माणो ? ॥४४८॥  
 पायवडिओ न गणिओ, पियं भणंतो वि अप्पियं भणिओ ।  
 वच्चंतो न निरुद्धो, भण कस्स कए कओ माणो ? ॥४४९॥  
 बाहुल्लफुरियगंडाहराए भणियं विलक्खहसिरीए ।  
 अज्ज वि किं रूसिज्जइ सतहावत्थं मए पिम्मे ? ॥४५०॥  
 पणयकुवियाण दोन्ह वि अलियपसुत्ताण माणइत्ताणं ।  
 निच्चलनिरुद्धनीसासदिन्नकन्नाण को मल्लो ? ॥४५१॥  
 पिट्ठिनिसम्मा वि पिया सणियं सणियं परम्मुहे दइए ।  
 दुट्ठरुहिरं व माणं आइद्धइ सिहिणतुंबेहिं ॥४५२॥  
 न वि तह अणालवंती हिययं दूमेइ माणिणी अहियं ।  
 जह दूरवियंभियगुरुयदोसमव्वभत्थभणियेहिं ॥४५३॥

उज्जगिरस्स तणु[?य]त्तणस्स ससियस्य दीहरुयणस्स ।  
 एयाण उरं दाऊण पुत्ति ! माणं कुणिज्जासु ॥४५४॥  
 आयंपंतकवोलं अलियक्खरजंपिरं फुरंतोदं ।  
 'मा छिवसुत्ति'सरोसं समोसरंतं पियं सरिमो ॥४५५॥  
 सच्चं कलहे कलहे पिम्मरंभा पुणन्नवा होंति ।  
 माणो उण माणंसिणि! गरुओ पिम्मं विणासेइ ॥४५६॥  
 तुंगो थिरो विसालो जो रइओ माणपव्वतो तीए ।  
 सो दइयदिट्ठिवज्जासणीए घायं पि न हु पत्तो ॥४५७॥  
 जुत्तं किज्जइ माणो पियम्मि जइ होइ सो वि साहीणो ।  
 माणेण विणा जेणं अणणसोक्खाइं ण हवंति ॥४५८॥

\*

३२ अथोभयानुगतचाटुप्रक्रमः

उज्जाणं व सतिलयं, नहं व चलतारयाहिं आयरियं ।  
 उयहिं व रम्मरयणि(णं) रेहइ तुह सुयणु ! मुहकमलं ॥४५९॥  
 सारिच्छयाइ गिणहइ लोओ, एयं गुणं न लक्खेइ ।  
 मंडिज्जइ तुज्ज मुहं मएणं मइलिज्जइ ससंको ॥४६०॥  
 किं कमलमिणं ? न हु तं,सकंठयं; किं ससी ? न, नत्थि मओ ।  
 दिदं पिए! तुह मुहं ससंकियं क(?अ)ज्ज तरुणेहिं ॥४६१॥  
 वयण-नयणप्पहानिज्जियाण तुह दीहरच्छि! एयाण ।  
 समदुक्खाण व जाओ समागमो चंद-हरिणाणं ॥४६२॥  
 मुद्धे! तवेसि चंदाणणा वि, हियए ठिया वि दुलहा सि ।  
 तण्हं जणेसि सुपओहरा वि, एयं महच्छरियं ॥४६३॥  
 पसयच्छि! अज्ज तुमए चलणं दिंतीए मज्ज हिययम्मि ।  
 पत्तिय बहुलालत्तयरसो व्व राओ परिट्ठविओ ॥४६४॥  
 कत्तो वच्चसि? निक्कव! विओयमरुनिवडियाइ किल इन्हि ।  
 अमियरससोक्खनिज्जर! पिज्जसि नयणंजलीहिं मए ॥४६५॥

१. "आकम्पत्" इति प्रतौ टिप्पणी ॥ २. "मृगेन शशाङ्को मलिन क्रियते । तव च मदेनालङ्कियते । तर्हि तव मुखशशाङ्कयो कृत. दृश्यम् ?" इति प्रतौ टिप्पणी ।

मयणग्गिणा ण डज्झसि मह हिययगओ वि जं परित्वंतो ।  
 दे देसु सुहय ! मज्झ वि तं जलणत्थंभणिं विज्जं ॥४६६॥  
 जं जं ते न सुहायइ तं तं न करेमि जं ममायत्तं ।  
 अहयं चियं जं न सुहामि सुहय ! तं किं ममायत्तं ? ॥४६७॥  
 दक्खिण्णेण विरत्तो सुहय ! सुहावेसि अम्ह हिययाइं ।  
 णिक्कइयवाणुरत्तो सि जाण का णिव्वुई ताण ? ॥४६८॥  
 सच्चं धवलो सि तुमं तहा वि रंजेसि अम्ह हिययाइं ।  
 रायभरिणं वि हियए नाह ! निहत्तो न रत्तो सि ॥४६९॥  
 दीससि पियाइं जंपसि सब्भावो सुहय ! इत्तिओ चेव ।  
 फालेऊणं हिययं साहसु को दावए कस्स ? ॥४७०॥  
 अवरहसहस्साइं वहिमो हियए तुमम्मि अदिट्ठे ।  
 समुहमिलियम्मि पत्तिय एवकं पि हु नेय संभरिमो ॥४७१॥  
 जइ भुज्जाएइ मही, लेहणि वणराइ, उयहि मसिठाणं ।  
 लिहइ पुरंदरनाहो ता तुम्ह गुणा लिहज्जंति ॥४७२॥  
 अवरज्झसु वीसत्थं, सच्चं ते सुहय ! विसहिमो अम्हे ।  
 गुणनिब्भरम्मि हियए पत्तिय दोसा न मायंति ॥४७३॥

✽

३३. अथ मानिनीप्रत्युत्तरप्रक्रमः

वससि जहिं चियं हियए अणुदियहं नेसि तं चियं खयंति ।  
 नवरं सलोणया सुहय ! तुज्झ अम्हेसु निव्वड्डिया ॥४७४॥  
 हिययाइं(हिं)तो पसरंति जाइं अण्णाइं ताइं वयणाइं ।  
 ओ ! विरम किं इमेहिं अहरंतरमेत्तभणियेहिं ? ॥४७५॥  
 तंबोलरायअणुरंगि(जि)याइं नयणाइं हुंतु, को दोसो ? ।  
 अहरे कज्जलरेहा रे सुहय ! असंभवं दुक्खं ॥४७६॥  
 तइया मह गंडत्थलनिहियं दिट्ठिं न नेसि अन्नत्तो ।  
 इण्हिं स च्चेय अह, ते य कवोला, न सा दिट्ठी ॥४७७॥  
 हिययट्ठिया वि देइया वाहित्ता जं न देइ उल्लावं ।  
 तं नूण सुहय ! तुह दंसणेण कोवं समुव्वहइ ॥४७८॥

१. दर्इया वाहित्ता प्रतो ।

सहिमो तुज्झ पियत्तणस्स तह तं पि नेय जाणामो ।  
 दे सुहय ! तुमं ति य सिक्खवेसु जं तुह पिया होमि ॥४७९॥  
 अलियकुवियं पि कयमंतुओ व्व मं सुहय ! जेसु अणुणितो ।  
 ताण दियहाण सरई रुयामि, न उणो अहं कुविया ॥४८०॥  
 को तं ? पिए ! पईवो, नेहक्खयकारण किं तेण ? ।  
 नं दइओ वाऽऽयाओ ! इय तीए जयंति उल्लावा ॥४८१॥  
 सुंदर ! तुमाओ अहियं निययं चिय अम्ह वल्लहं जिययं ।  
 तं तुह विणा न होइ त्ति तेण कुवियं पसाएमि ॥४८२॥  
 न मुयंति दीहसासे, न रुयंति, न होंति विरहकिसिआओ ।  
 धन्नाओ ताओ जाणं बहुवल्लहो(?ल्लहओ) नरो न तुमं ॥४८३॥  
 तुह सुयणु ! न रूसिज्जइ, एकग्गाहीण गारवं कत्तो ? ।  
 वीयाए गओ चंदो वंदिज्जइ सयललोएहिं ॥४८४॥  
 अन्नमहिलापसंगं हे दिव्व ! करेसु मज्झ दइयस्स ।  
 पुरिसा एककंतरसा न हु दोस-गुणे वियाणंति ॥४८५॥  
 अप्पाण लाहवं चिय विरत्तहिययेसु अणुणयपराणं  
 वंधुयणचाडुएहिं न नाम जीवंति गयपाणा ॥४८६॥

\*

३४. अथ विरहग्रक्रमः

चंदण-पंकयहारं सहि(ही)ओ ! मा देह मज्झ हिययम्मि ।  
 अणुहवउ सो वि संतावदुक्खमिह जो जणो वसइ ॥४८७॥  
 थणवट्टच्छिद्दमासाइऊण जं दहसि विरहिणीहिययं ।  
 तं रयणायरसंभवगुणसार ! न हार ! जुत्तमिणं ॥४८८॥  
 विवरि(री)यऽद्धच्छिपलोइएहिं तेणऽम्ह गुरुयणसमक्खं ।  
 इंदीवरनालेण व जलं व आयड्ढियं हिययं ॥४८९॥  
 जीयव्वं जेण विणा न मए सुविणे वि चितियं आसि ।  
 तस्स विरहम्मि माए ! इन्दि दियहा गमिज्जंति ॥४९०॥  
 पियहोत्तं पंजलयं [?पि] पिच्छिमो जइ वि लोयसंकाए ।  
 तह वि हु केणऽम्हे वळेण वंकुडिज्जंति अच्छीओ ? ॥४९१॥

सव्वो च्चिय पियविरहे दुक्खविणोयं करेइ निहाए ।  
 मह तेण सा वि हीरइ, भण सरणं कं पवज्जामि ? ॥४९२॥  
 निह च्चिय वंदिज्जइ, किं कीरइ देवयाहिं अन्नाहि ? ।  
 जीए पसाएण पियो दीसइ दूरे वि निवसंतो ॥४९३॥  
 धन्ना ता महिलाओ जाओ पियं सुविणए वि पिच्छंति ।  
 निह च्चिय तेण विणा न होइ, को पिच्छए सुविणं ? ॥४९४॥  
 अच्छीइं चिय तं पेच्छिराइं रोयंतु अहव फुटंतु ।  
 हियएण किं कयं जेण वहइ मरणाहियसवत्थं ? ॥४९५॥  
 ससिवयणाए जणो जं जंपइ 'मुद्ध'त्ति तं तहा सच्चं ।  
 मह मयणानलजलिए निवसइ कह अन्नहा हियए ? ॥४९६॥  
 विरहविसतवियहियया सिहिसिहरसिलायलम्मि वीसंता ।  
 सामाए वयणपवणं पियंति जे ते च्चिय भुयंगा ॥४९७॥  
 विरहकिसियाए तीए कराओ भूमीए वियलिओ वलओ ।  
 पिम्ममहीरुहवियडाऽऽलवालकरणिं समुच्चहइ ॥४९८॥  
 जं पि य [?पिय]मंगलवासणाए पत्थाणपढमदियहम्मि ।  
 वाहसलिलं न निट्टइ तं चिय विरहे रुयंतीए ॥४९९॥  
 सरसं पि नलिणवत्तं डज्जंतं पेच्छिऊण अंगेसु ।  
 दाहभया हि सुमुक्का तीए भुया मुहय(इल)वलएहिं ॥५००॥  
 जेहिं दइयं न नायं अणायदुक्खा सुहीण ते पढमा ।  
 जाणं पिययणविरहो अणाइदुक्खाण ते पढमा ॥५०१॥  
 रोवंतु नाम तं जणमपिच्छमाणाइं दइढनयणाइं ।  
 तं हियय ! किं विस्ररसि साहीणे च्चित्तियव्वम्मि ? ॥५०२॥  
 सहि ! सुणसु मह पउत्तिं अहं पि किं पवसिया सह पिएण ।  
 अन्न च्चिय दीसइ का वि दप्पणे जेण सामसुही ॥५०३॥  
 अज्ज मए तेण विणा अणुहूयसुहाइं संभरंतीए ।  
 अहिणवमेहाण रवो निसामिओ वज्जपडहो व्व ॥५०४॥  
 विरहकरवत्तदूसहफालिज्जंतस्स तीए हिययस्स ।  
 अंसुसकज्जलमइलं पमाणसुत्तं व से धरियं ॥५०५॥

पियसंभरणपलोईतअंमुधारानिवायभीयाए ।  
 दिज्जइ वंक्कगोवाए दीवओ पहियजायाए ॥५०६॥  
 वाहि व्व विज्जरहिओ, धणरहिओ साहुवासवासो व्व ।  
 रिउरिद्धिदंसणं पिव दूसहणिज्जो तुह विओओ ॥५०७॥  
 भरिओव्वरंतपसरियभरणपिसुणो वराईए (?) ।  
 परिवाहो इव दुक्खस्स वहइ नयणहिओ वाहो ॥५०८॥  
 अज्जं पि ताव एक्कं मा मं वारेह पियसहि ! रुयंति ।  
 कल्लं पुण तम्मि गए जइ न मरिस्सं न रोविस्सं ॥५०९॥  
 एत्थ ठिया, इह रमिया, एत्थ य कुविया, पसाहिया एत्थ ।  
 अज्ज वि पियाणुराओ सुन्ने वि घरे तह च्चेव ॥५१०॥  
 मोत्तूण निययनाहं अन्नं नेच्छामि ताव सुविणे वि ।  
 आवयपडिया वि दढ रयणियरं स(म)हइ किं नल्लिणी ॥५११॥  
 एक्केण वि संवंधेण पुन्निमा घडइ तं पि किं चोज्जं ।  
 आपक्खं झिज्जइ जेण तीए विरहे रयणिनाहो ॥५१२॥  
 अहह ! तुहविरहहुतवहजालावलिकवलियं पुणो वि पुणो ।  
 ओ ! हिययं उज्जइ तुज्ज नेहनिस्संद[ऽ]सिच्चंतं ॥५१३॥  
 मा मा विज्जसु सहिए ! दीहरपत्तेहिं सरलतरलेहिं ।  
 वाळे ! तुमं न याणसि विरहसिही जलइ पवणेण ॥५१४॥  
 लुलियालयं मुहं से लक्खिज्जइ वामकरयलनिसन्नं ।  
 भमरभरवरि(?लि)यनालं कमळे कमळं व पल्लहत्थं ॥५१५॥

\*

### ३५. अथ सूर्यास्तप्रक्रमः

पच्छामुहो [वि] वियरइ पहरहओ अंवरं पि मोत्तूण ।  
 तह वि हु भन्नइ सूरु पेच्छ ! पसिद्धीए माहप्पं ॥५१६॥  
 वियलियतेएण वि ससहरेण जह दंसिओ दिणे अप्पा ।  
 तह जइ तुमं पि दंसे(सि)सि रयणीए सूर ! ता सूरु ॥५१७॥  
 सव्वो दिवसस्स वसो पुरिसो किं कुणइ तेयवंतो वि ? ।  
 दियहंते सूरु वि हु पेल्लिज्जइ सहि ! ससंकेण ॥५१८॥

किञ्चित्तिमित्तं संज्ञायवस्स [वा?]सं ति दंसणत्थं व ।  
 आरूढा तिमिरचर व्व वासतरुसेहरं सिहिणो ॥५१९॥  
 ता अत्थसेलसंकेयसगमुहसमियदिवससंतावो ।  
 अणुरायणिव्वभरो वारुणीए अवगूहिओ सूरु ॥५२०॥  
 अत्थायंतो वि हु अत्थसिहरिणा धारिओ सिरेण रवी ।  
 सूरु वि पच्छिमाए दिसाए ज(उ)ण वल्लहो [हो]इ ॥५२१॥  
 रविनिवडणविहडियजलहिसलिलपाय[रय]रयणकंति व्व ।  
 संचलणमासला नहयलाओ संज्ञा समुल्लसिया ॥५२२॥  
 परिणामकालसिठिलस्स सहइ नहरुफलस्स दिणवइणो ।  
 अत्थइरिसिलावडणोच्छलंतरससच्छहा संज्ञा ॥५२३॥  
 सुहमेरुधडियतवणिज्जपिडुभरियामियग्गभावेण(?) ।  
 कसणतुलादंढेण व तमेण गयणे समुल्लसियं ॥५२४॥  
 रविकणियम्मि वियडे मोलाय(यं)तम्मि दिवससयवत्ते ।  
 उड्डीणभमरनियरु व्व पसरिओ तिमिरसंघाओ ॥५२५॥  
 उव्वहइ अत्थसेलो पसरियपरिसेसलहुसयमऊहं ।  
 परिपिगकेसरइहं कंचणकमलं व रविबिंबं ॥५२६॥  
 अत्थमिए जगदीवे सयलतमोम्मूलणे 'खमो नाऽहं' ।  
 ओकसिऊण पदीवो धूमइ पवणाहओ सीसं ॥५२७॥<sup>१</sup>  
 रविनिवडणविहडियजलहिसलिलमग्गुग्गएण नीसेसं ।  
 वडवानलधूमेण व तमेण संछाइयं अंगं ॥५२८॥  
 दीवयसिहाओ रेहंति नयरभुवणोयरेसु दिप्पंता ।  
 मुक्का रविणा किरण व्व तिमिरपरिमाणमवगंतुं ॥५२९॥  
 पहरेहिं लंबिरंगो संकुइयकरो पणट्टरइमग्गो ।  
 संज्ञावियलियतेओ सूरु सूरु व्व अत्थमिओ ॥५३०॥  
 संज्ञारायायवं मुहपरिघोलंततारओ पियइ ।  
 भुवणे एस संलीलं आलोयमहुं तमोग्घाओ ॥५३१॥

१ "तसेण" प्रती ॥ २ एतदनन्तर "गाथा ५००" इति प्रती ॥



अत्थमणं पहरपरव्वसाण जइ होइ, होउ, को दोसो ? ।  
 जं पुण मुच्चइ तेओ सूरान न एरिसं जुत्तं ॥५३२॥  
 नवकुंकुमरत्तपओहराए अंकम्मि पच्छिमवहूए ।  
 तरणिं निएवि पुव्वा ईसाइ व सामला जाया ॥५३३॥  
 अद्धत्थमिणं सूरं अद्दुग्गमिणं य पुन्निमायंदे ।  
 संझाभरेण नज्जइ नहसयडं खुत्तचक्कं व ॥५३४॥  
 जलहिलजलसमालंविषयसयणस्स मुरारिणो समुदेण ।  
 दिज्जइ महापईवो व्व वीईसंवेल्लिओ सूरु ॥५३५॥

\*

३६. अथ चक्रवाकप्रक्रमः

पडिवन्ने निव्वहणं निव्वूढं तुह रंहंग ! एक्कस्स ।  
 मित्तत्थमणे दइया वि जेण सहस त्ति पडि(रि)चत्ता ॥५३६॥  
 मित्तम्मि गए, दोसायरुग्गमे, मउलियम्मि गुणनिवहे ।  
 का दाणि पियविओए होज्ज गई चक्कवायस्स ? ॥५३७॥  
 आसासिज्जइ चक्को जलगयपडिर्विवदंसणसुहेण ।  
 तं पि हरंति तरंगा पेच्छह निउणत्तणं विहिणो ॥५३८॥  
 आसन्नसंगमासाए नेत्ति रयणिं सुहेण चक्काया ।  
 दियहं पुण होंतविओयकायरा कहवि वोलंति ॥५३९॥  
 चंचुपुडल्लिन्ननवनलिणिनालखंडेण चक्कमिहुणेहिं ।  
 मित्तत्थमणे दिन्न व्व अग्गला जीवनिग्गमणे ॥५४०॥

\*

३७. अथ खद्योतप्रक्रमः

कह सो लहु त्ति भन्नइ खज्जोओ जो निसाइ पयडेइ ।  
 सूरत्थमणे तेयं निययपमाणाणुसारेण ॥५४१॥  
 जाया रयणम्मि गई, तारयसमसीसियाए विप्फुरियं ।  
 सूरत्थमणे खज्जोययाण किं जं न निव्वडियं ? ॥५४२॥

१ योइसं पती ॥ २ लहुं ति प्रतिपाठ ॥ ३. निसाई प्रतिपाठः ॥  
 ४ रयणिम्मि प्रतिशोधकशोधित पाठ ॥

नियनामपयडणत्थं लहुपक्खा वि हु फुरंतु खज्जोआ ।  
ववसायो च्चिय जिप्पइ, नाऽऽयारो तेयवंताणं ॥५४३॥  
तणुने(ते)यफुरणपयडियदरनहमग्गाण कीडयाणं पि ।  
खज्जोय त्ति पसिद्धी जा जाया तेण झिज्झामो ॥५४४॥

\*

३८. अथ चन्द्रप्रक्रमः

संझाराओत्थऽओं दीसइ गयणम्मि पडिवयाचंदो ।  
रत्तहुगुल्लंतरिओ व्व नहनिवाओ नववहुए ॥५४५॥  
जाओऽसि वंदणिज्जो जिस्सा संगेण सुद्धवक्खाए ।  
जइ सा वि होइ वीया पढमा उण चंद का तुज्ज ? ॥५४६॥  
वंको कलिककविहवो निसियर ! मइलोऽसि दिट्ठनट्ठोऽसि ।  
तह वि नमिज्जसि जं तं एयं वीयाए दुच्चरियं ॥५४७॥  
सरसं मउयसहावं विमलगुणं मित्तसंगमुल्लसियं ।  
कमलं नट्टच्छायं कुणंत ! दोसायर ! नमो ते ॥५४८॥  
मज्झे जडाण निवसंतयस्स कत्तो गुणाण वित्थारो ? ।  
हरससिणो तं बहुयं सा वि कला ज न से अीणा ॥५४९॥  
सारं कलाहिरामत्तणस्स तुह जाणियं चिय मयंक ! ।  
सरसा वि जेण समुद्दी न सक्किया कमलिणी काउं ॥५५०॥  
नरसिरकवालसमसीसियाए मज्झे जडाण निवसंत ! ।  
सभुयंगे हरसीसम्मि चंद ! को तुज्ज बहुमाणो ? ॥५५१॥  
हरिणट्ठाणे हरिणक ! जइ सि हरिणाहिवं निवासंतो ।  
न सहंतो चिय ता राहुपरिभवं से जियंतस्स ॥५५२॥  
चंदमयंदवियारियदुद्धरतमहत्थिमत्थउच्छलियं ।  
लक्खिखज्जइ गयणवहे मुत्तानियरं व गहचक्कं ॥५५३॥  
अइरत्तया वि गुणिणो मित्तरया दोसदंसणे विमुहा ।  
इय मुणिऊण य चंदो कुणइ सकोसाइं कमलाइं ॥५५४॥  
गयणमहासरसियपुंडरीयसरिसत्तणं वहंतस्स ।  
चंदस्स मयकलंको छज्जइ नीलालिवलउ व्व ॥५५५॥

जलहिविसंवडिण वि निवसिज्जइ हरसिरम्मि चंदेण ।  
 जत्थ गया तत्थ गया गुणिणो सीसेण वुज्झंति ॥५५६॥  
 चंदुच्चतावयंसं पवियंभियसुरहिकुवलयामोहं(यं) ।  
 निम्मलतारालोयं पियंइ व रयणीमुहं चंदो ॥५५७॥  
 दीहमुणालेहि व पसरिएहिं किरणेहिं पियइ हरिणंको ।  
 भुवणंतरालसरमज्झसंठियं तमजलोप्पीलं ॥५५८॥  
 दरविहडियवयणविणिंतगंधलुद्धालिगणसणाहाइं ।  
 कुमुयाइं ससहरक्कंततिमिरभरियाइं व फुडंति ॥५५९॥  
 सयलेण भुवणपरिपायडेण निव्ववियसयललोएण ।  
 अकुणंती नलिणी चे(चि)य वंचिज्जइ संगमं ससिणा ॥५६०॥  
 गयणतलाए अइनिम्मलस्स चंदस्स फुडियपउमस्स ।  
 मियमहुअरपयपैप्फंदियस्स जोन्हारओ फुरइ ॥५६१॥  
 जह जह उग्गमइ ससी ईसिपसारियकरो पिययमो व्व ।  
 रयणिविलैयाए तह तह सिचयं व तमो समोसरइ ॥५६२॥  
 मित्तत्थमणे ओ ! ससहरस्स अइनिम्मला मुहच्छाया ।  
 अन्नाण वि अंतरकलुसियाण एसो च्चिय सहावो ॥५६३॥  
 खत्थो वि सया दोसायरो वि परिहरियमित्तवग्गो वि ।  
 तह वि हु मयं वहेई इय पयडं पेच्छ निल्लज्जो ॥५६४॥  
 संझायवपल्लवियस्स तारयाकुमुमियस्स नहतुरुणो ।  
 परिपक्कफलं व मयंकमंडलं पढममुल्लसियं ॥ ५६५ ॥  
 दीसइ विमले ससिमंडलम्मि अह तुच्छलंछणच्छाया ।  
 वैम्महवाणनिहंसणरेह व्व निसाणवट्टम्मि ॥५६६॥  
 तुहिणंसुमंडलमिणं विप्फुरियकलंककंतिलिविकलियं ।  
 तियलोक्कविजयवत्तं(यंतं) व दीसए कुसुमवाणस्स ॥५६७॥  
 अंतोविप्फुरियकलंककंतिससिमंडलं निसारमणी ।  
 वहलमयणाहिसरियं रूप्प[य]कच्चोलयं कुणइ ॥५६८॥  
 मासच्छेए जो धाइ सम्मुहो सूरमंडलग्गस्स ।  
 जइ एरिसो ससंको नीसंको केरिसो होइ ? ॥५६९॥

१ पियई प्रतिपाठ ॥ २ 'पप्फुंदियस्स प्रतिपाठ' ॥ ३. "वणियाए" इति टिप्पणी ॥ ४. "काम" इति प्रती टिप्पणी ॥

ससिकच्चोलयढलिओ जोन्हाखडियारसो समीकुणइ ।  
 नक्खत्तऽक्खरमालं नहफलए तिमिरकज्जलिए ॥५७०॥  
 जोन्हाजलोहधोए तिमिरए उग्घडेइ ससिर्विबं ।  
 लंछणकसिणाहिसहो मयणस्स निहाणकलसो व्व ॥५७१॥  
 रयणिरमणीए ससिपियकरफंसोल्लसियसेयविंदूहिं ।  
 विप्फुरियं पिव गयणिंदनीलसयणं उडुमिसेणं ॥५७२॥  
 मित्तविरत्तं पि पियं कुमुयं, पउम न मित्तरत्तं पि ।  
 ससिणो, अहव जडाणं गुण-दोसवियारणा कत्तो ? ॥५७३॥  
 नरसिरकवालसमसीसियाए वद्धो हरेण जं चदो ।  
 अमयमओ जं न मओ ता किं किसिओ विमोहो उ ॥५७४॥

\*

३९. अथ कुमुदप्रक्रमः

फुट्ठंति जेत्तएणं मयरंदभरेण इयरकुसुमाइं ।  
 बाहिरदलेसु परिलुढइ तेत्तियं पुंडरीयस्स ॥५७५॥  
 का समसीसी सह पंकएण इयराण कुसुमजाईसु ।  
 दरवियसिए वि अइवियसिआइं उअरे समायंति ॥५७६॥  
 रेहंति कुमुयदलनिच्चलट्टिया मत्तमहुअरनिवाया ।  
 ससियरनीसेसपणासियस्स गंठि व्व तिमिरस्स ॥५७७॥  
 दोसायरेण वियसइ, मउलइ मित्तागमेण जस्स मुहं ।  
 तमणिट्टगुणं कुमुयं सिरि धरिउं के न इच्छंति ? ॥५७८॥  
 मित्तत्थमणे वियसंति, जाइं सउलिति मित्तउइयम्मि ।  
 कुमुयाइं ताइं सुमुयाइं होंति जाणेरिसं चरियं ॥५७९॥  
 ओ ! रायवल्लहं पि हु करेहिं मं छिवइ एस गोवालो ।  
 इय लज्जाए कुलीणा संकुइया कुमुइणी सहसा ॥५८०॥

\*

४० अथ प्रभातप्रक्रमः

निब्भरनिहासम्मिल्लपम्हजुयलाइं होंति मिहुणाणं ।  
 अंतोसुहपरिरक्खणघडियकवाडाइं वऽच्छीणि ॥५८१॥  
 पसरियपच्चूमसमीरविलुलिओ गयणपायवाहितो ।  
 अवसायजल्लवोहो व्व गलइ तणुतारयानिवहो ॥५८२॥

इय अम्ह निसासेसे कुवियपसुत्ताण रइसमारंभे ।  
 ता झत्ति कुक्कुडरवो निसामिओ वज्जपडहो व्व ॥५८३॥  
 दिवसमुहगयसमुम्मूलियाइं उड्डीणससिविहंगाए ।  
 धवलाइं गलंति निसालयाए नक्खत्तकुसुमाइं ॥५८४॥  
 पाउं जोन्हामइं जामिणिविलयाण फलिहवसओ व्व ।  
 मुक्को नहाहि निवडइ निलीणमयमहुयरो चंदो ॥५८५॥  
 सो अत्थमयइ [१य] ससी मणे व्हंतो व्व लंछणमिसेण ।  
 मयणाहिसामलिंगं(लंगिं) निरंतरं रयणिवरतरुणि ॥५८६॥

\*

## ४१. अथ सूर्योदयप्रक्रमः

नक्खत्तमालिया मह तुमए हरिय त्ति गयणलच्छीए ।  
 भणिए जलंतफालं व नवरविं धरइ पुव्वदिसा ॥५८७॥  
 सब्भासलत्ततारय ! भुत्तावर (?) मा करेहिं मं छिवसु ।  
 अन्नत्थखवियसव्वेरि ! नहभूसण ! दिणवइ ! नमो ते ॥५८८॥  
 उदये पत्ते दोसायरो वि लोयाण हवइ नमणिज्जो ।  
 किं पुण न होइ मित्तो जो तमसोम्मूलणं कुणइ ? ॥५८९॥  
 कमलोयरपरिवसियाइं अलिउलाइं करेहिं विहडंतो ।  
 उक्खणइ व तमवीयाइं पिच्छ रोसारुणो सूरु ॥५९०॥  
 फुरियपयावस्स तुहं सव्वरिउम्मूलणं कुणंतस्स ।  
 सोहंति सूर ! महिहरसिरेसु परिसंठिया पाया ॥५९१॥  
 संपुन्नकोसदंडं जलदुग्गगयं पि दलइ कमलवणं ।  
 दिट्ठम्मि जम्मि कह सो सूरु मा भुवणमक्कमउ ? ॥५९२॥  
 इट्ठाचुन्नं किरं(?) न मुणइ मसुणायवं परिप्फुरइ ।  
 रविणो गयणासिनिसाणएक्ककलओवमं विवं ॥५९३॥  
 तारोसहिं समावट्ठिज्जण कालेण पुव्वमूसाए ।  
 दिणयरकणयं सिद्धं उत्तारिज्जइ झलक्कंतं ॥५९४॥  
 पढमोग्गमंतरेहामत्तं नवमित्तमंडलं सहइ ।  
 तक्कालदिणसमागमपुव्ववहूए नहपयं व ॥५९५॥

\*

४२. अथ कमलिनीप्रक्रमः

अत्ताणगगलकयपत्तपरियरे निहियगुरुयडाजाले ।

मित्तसमप्पियकोसे कह कमले वसउ मा कमला ? ॥५९६॥

वियसइ को न पयत्थो ? को य न कोसेण होइ सकयत्थो ? ।

कस्स न गुणेहिं किच्ची सहसि तुमं कमल ! कंटइओ ? ॥५९७॥

कर-चरण-नयण-वयणेहि वामनयणाण जस्स समसीसी ।

तं कहसु कह न किज्जइ कमलं कमलाइ कुलभवनं ? ॥५९८॥

कमलो(?लं) च्चिचि(?)य वहउ सिरिं, भण्णउ गुणवंतयं पि तं चेव ।

वियसियमुहस्स कोसे मित्तकरा जस्स विलसंति ॥५९९॥

संगो महुएहिं समं, जडाओ बहवो, सकंटयं देहं ।

केण वि गुणेण लच्छीए तह वि कमलेसु अणुराओ ॥६००॥

नलिणगुणे पसरियकंटयम्मि जडसंगवद्धिउल्लासे ।

किं कीरउ विहिणो पंकयम्मि जं निवसए लच्छी ? ॥६०१॥

दइढमहिलासहावो अन्नो च्चिय को वि जं तक्किज्जंती ।

सूरेण वियसइ च्चिय ससिसंगपरम्मुही नलिणी ॥६०२॥

आलोयमत्तवियसंतकुमुइणीपीयमाणघणजोणं ।

ओ नलिणि ! मियंकं परिहरंति ! तइ वंचिओ अप्पा ॥६०३॥

पायडिया वि हु अहला मज्झे अणजाणयाण हींति गुणा ।

इय मन्नंतं कमलं निययगुणे गोविउं धरइ ॥६०४॥

हद्धी ! कह न मरिज्जइ मराललीलाविलासजोग्गाए ।

नवणलिणीए ? खंडेइ वायसो जत्थ अहरदलं ॥६०५॥

करसंवंधं काऊणं अंगपरिरंभणं अदिंतेहिं ।

न विडंबिज्जइ मित्तेहिं किच्चीएहिं सरोरुहिणी ? ॥६०६॥

पविरलदंसणसीलेण होइ पिम्मं सुदूसहं इमिणा ।

इय कलिऊण य नलिणी ससिसंगपरम्मुही जाया ॥६०७॥

न सहइ मयंककिरणे, सहइ सुतत्ते वि दिणयरमऊहे ।

सोमालत्तण-जरहत्तणाइं, कमले समप्पंति ॥६०८॥

विसमायव्वडियस्स वि सूरस्स दिणक्खए पियं नलिणिं ।

छिवइ करेहिं ससंको राया वि भएण संकुइयं ॥६०९॥

पंकयनयणेहितो कमलिणिदश्याए सूरविरहम्मि ।  
 नीहरइ भमरविंदं सकज्जलं वाहसलिलं व ॥६१०॥  
 मित्तस्स सयासमुहे जडविद्युहे कयसुपत्तपरिवारे ।  
 कमले च्चिय कमलाए जुज्जइ वासो न अन्नत्थ ॥६११॥

\*

### ४३. अथालिमालतिकाप्रक्रमः

सा जयइ का वि कीलारइ-मालइमिलिअमार-भमरस्स ।  
 पसरंताए जीए रमणिज्जं तिहुअणुज्जाणं ॥६१२॥  
 वियसइ मालइकलिया चंपिज्जंती वि तरुणभमरेहिं ।  
 नूणं पियविहियं असुहयं पि सव्वं सुहावेइ ॥ ६१३ ॥  
 अइवियसिया कुणंती सव्वंगसमप्पणं पि सयवत्ती ।  
 तह वि न सा जह जाई रुच्चइ छेयस्स भमरस्स ॥ ६१४ ॥  
 मन्ने न मयं न ससं ससहरमज्झम्मि महुअरो एसो ।  
 मालइविरहमहानलत्तो पत्तो सुधाकुंडे ॥ ६१५ ॥  
 रे भमर ! तए मुक्का महुमासवसंगएण जं जाई ।  
 पावेण तेण नूणं जायं कसिणत्तणं तुज्झ ॥ ६१६ ॥  
 उज्जाण(णे) वियसियजाइगंधधायंतछप्पहनिहेण ।  
 गुलियाधणुखेलिलरवम्महस्स गुलिया समोड्डंति ॥ ६१७ ॥  
 महुमासवियसियाए माहवियाए पयंसि पडिलगं ।  
 दट्टण अलिजुयाणं रोसेण न वियसए जाई ॥ ६१८ ॥  
 वसिऊण तह य सह कुमुडणीए गोसे समागओ भमरो ।  
 कलवयणो जाइपियामुहम्मि ओसंसुयं फुसइ ॥ ६१९ ॥  
 दियहे दियहे जं अद्वियकालिया होइ अलिजुआणस्स ।  
 तं मन्ने मणंपज्जलियजाइविरहग्गिधूवेण ॥ ६२० ॥  
 अइकोमलं ति न रमइ, मुयइ न राएण मालईकलियं ।  
 नो घडइ नेय विहडइ पिम्मेण विडंविओ भमरो ॥ ६२१ ॥  
 सहइ दरदलियमालइपरिमलमत्तलितरलरिछोली ।  
 उज्जाणे कीलिरमत्तमारकरिदाणरेह व्व ॥ ६२२ ॥

पीओ जाईइ रसो, दलाइं मिलियाइं सहि ! जहिच्छाए ।  
 विटगं तह वि अली लिहइ अतित्तो फुडं कामी ॥ ६२३ ॥  
 मालइविरहे रे मुद्ध ! भसल ! मा रुयसु निबभरुवकंठं ।  
 वल्लहविओगदुक्खं मरणेण विणा न वीसाइ ॥ ६२४ ॥  
 निबिडदलसंचियं पि हु कलियं वियसाविऊण सविसेसं ।  
 जे पढमं तीए रसं पियंति ते छप्पया छेया ॥ ६२५ ॥  
 कलिओग्गमे वि य तुमं जाया कलिकारिया सि भमराणं ।  
 दरवियसिया सि मालइ जं काही तं न याणामो ॥ ६२६ ॥  
 अविरयमहुपाणपरव्वसस्स सीलं अलिस्स किं भणिमो ? ।  
 सुद्ध कुसीला जाई जा वियसइ तस्स संसग्गा ॥ ६२७ ॥  
 कलिए ! कलिया सि तुमं अच्छसु मा, पोढिमं समल्लियसु ।  
 तुय(इह) पोढिमाए भग्गे नामं भमराण बुद्धिदहई(?) ॥ ६२८ ॥  
 भमरो भमिरो त्ति गुणुज्झिणहिं कुसुमेहिं लाइओ अयसो ।  
 लहिऊण जाइकलियं पुणो वि जइ भमइ तो भमरो ॥ ६२९ ॥  
 अण्णणं कुसुमरसं जं किल अहिलसइ पाणलोहिल्लो ।  
 सो नीरसाण दोसो कुसुमाणं नेय भमरस्स ॥ ६३० ॥  
 पाऊण वि कोसरसं छप्पयतरुणो पुणो कमलिणीए ।  
 सयवत्तियं पि वियसइ, अहवा मलिणाण कह सच्चं ॥ ६३१ ॥  
 लच्छीलीलाकमले अलिणो न कया वि निवडिया दिट्ठी ।  
 मन्ने जाइ च्चिय तेण तस्स मणवल्लहा जाया ॥ ६३२ ॥  
 केसररयविच्छड्डो जित्तियमित्तो य होइ कमलम्मि ।  
 जइ भमर ! तेत्तिओ अन्नहिं पि ता सोहसि भमंतो ॥ ६३३ ॥  
 भसलो विसट्टकेयइविलसिरघणरेणुपंडुरो सहइ ।  
 तं मालइ(इजाइ)विरहजजरगहिओ कयचंदणाळेवो ॥ ६३४ ॥  
 तं कं पि पएसं पंकयस्स भमिऊण छप्पओ छिवइ ।  
 नलिणी वि जेण मेलहइ आमूलगयं पि मयरंदं ॥ ६३५ ॥

\*



४४. अथ प्रावृट्प्रक्रमः

अन्नेहि वि क्लृवजलेहिं न हु न जीवन्ति मामि ! वल्लीओ ।  
जलहरजलसित्ताणं तु का वि अवरा मुहच्छाया ॥६३६॥

..... ।

..... ॥६३७॥

..... ।

..... ॥६३८॥

..... ।

सुरगिरिकृणयपरिक्खा निहसणरेहं व विज्जुलयं ॥६३९॥

गुरुघणपाउसनवसिरिनिक्खित्तपयाइं पकयवणाइं ।

सहसा सरसल्लिओयरमज्झपरूढाइं जायाइ ॥६४०॥

रयणियरा इव उदयं पत्ता मित्तं पराहवंता वि ।

मइला वि घणा लोयाण वल्लहा होंति वरिसंता ॥६४१॥

खुज्जोयलोयणुम्मीलणेण घणसमयरयणितिमिरोहो ।

अन्नेसइ व्व 'ससि-सूर-तारया कत्थ वट्ठन्ति ?' ॥६४२॥

सुव्वंतविभीसणमेघघोरसदाण विज्जुमालाण ।

पाउसदिणाण पहिया वीहंते रक्खसाणं व ॥६४३॥

घट्टं सहाववंकं अणेयरायं पि उव्वसणसीलं ।

खलमैहिलाहिययं पिव वियलइ चावं सुरिंदस्स ॥६४४॥

कसणा घणाण माला सुरदचावो वलाय-रिंछोली ।

पियविरहजोव्वणभरो पंचग्गी को जणो सहइ ? ॥६४५॥

लहिऊण जलं थोवं पि जलहरा दुज्जण व्व गज्जंता ।

निहणंति खणं मलिणा दिणे वि मित्तस्स वि पयावं ॥६४६॥

गिरिसिहरसंठिणं उज्झइ पहियस्स नीलकंठेण ।

निउरंवदूरपसरियसरेण नवपाउसे हिययं ॥६४७॥<sup>१</sup>

१. अत आरभ्य सार्द्धद्वयगाथाप्रमाणा रिक्ताक्षरपङ्क्तयः प्रती ॥ २ 'महिलियादि पिव प्रतिपाठ ॥ ३. प्रन्नुनार्धनिवेदकमत्र प्रती टिप्पणरूपेणेद पद्यं लिखितम्-“रे वाह भग्गेण बहु, मा उम्मूलि पलास । कल्ले जलहर थक्कसइ किस्ती पराई आस ॥१॥” ॥

ओ ! जोइमग्गपरिगयजलहरपेलंतघोलिरी विज्जू ।  
 निग्गयफुल्लिगजलमाण[?माण]मयणासिलट्टि व्व ॥६४८॥  
 वडवानलसंवलियं मन्ने पीयं घणेहि उयहिजलं ।  
 जेण समं विरसंता जालाओ [इ]मे तडिनिहेण ॥६४९॥  
 सहि ! दूमिति कलंवाइं जह ममं तह न सेसकुसुमाइं ।  
 नूणं इमेसु दियहेसु वहइ गुलियाधणुं कामो ॥६५०॥  
 जो इंदचावनिग्गयधारावाणेहि विरहिहिययाइं ।  
 भिन्नाइं न भिन्नाइं विज्जुज्जोएण य निएइ ॥६५१॥  
 नीयंगमाहिं बहुजडपयाहिं उम्मग्गपत्थियाहिं च ।  
 भज्जंति जत्थ मग्गा कुसीलमहिलाहिं व नईहिं ॥६५२॥  
 ओ ! गरुयपयावो वि हु पच्छाइज्जइ घणेहिं जत्थ रवी ।  
 अहवा कालवसेणं मलिणाण वि फुरइ माहप्पं ॥६५३॥  
 जत्थ लहिऊण उदयं पाडंति तडहुमे गिरिणईओ ।  
 दूमंति क न नीया वित्थरिया महिहराहिंतो ? ॥६५४॥  
 संताविऊण लोयं चंडकरो कत्थ संपयं नट्टो ? ।  
 दिसि दिसि जलया तडिदीवियाहिं मग्गं व जोयंति ॥६५५॥  
 निसइ व कसिणब्भनिसाणवट्टए कुवियपाउसकयंतो ।  
 गयवइगलट्टिकप्परणकुंठियं तडिलयक्किवाणं ॥६५६॥  
 जलहर! वरिसिहिमि तुमं भरिहिसि भुवणंतराइं सयलाइं ।  
 तन्हासुसिइ(य)सरीरे मुयम्मि वप्पीहयकुडुंवे ॥६५७॥

\*

४५. अथ शरत्प्रक्रमः

अह मणहरचंदमुही वंधुज्जीवाहू(ह)रा कुवलयच्छी ।  
 फुडकलसवाणिया तह पिय व्व पत्ता सरयलच्छी ॥६५८॥  
 विमलमयंकाहरणो केयइदलभूइभूसियसरीरो ।  
 गोरीपई व्व विलसइ उद्दीवियवम्महो सरओ ॥६५९॥  
 णंदियकुमुओ जोन्हासपुन्नो चारुपुक्खरसणाहो ।  
 सुरवारणो व्व सरओ पसाहियासो समोवइओ ॥६६०॥

आसन्नसिसिरभयकायरेहिं लोएहिं महियले सयले ।  
 दीवालियाए दीवयमिसेण ठाविज्जइ हुयासो ॥६६१॥  
 कीरइ पडिवक्खस्स य पाउससमयस्स विज्जुदुप्पिच्छं ।  
 सरएण मंडलग्गं व भग्गधारं जलयविंवं ॥६६२॥  
 अंतो पल्लिप्पमाणो अणवरयं विज्जुपुंजजालाहिं ।  
 भूईभावं व गओ नहंगणे जलहरुग्घाओ ॥६६३॥  
 दूरोणयगरुयपओहराए विरहम्मि पाउससिरीए ।  
 कहमापायडपवियंभियावपसरो रवी होउ ? ॥६६४॥  
 उवरिनिवेसियणलिणीदलाओ तणुईओ वद्धवेणीओ ।  
 सरियादइयाओ ठिया पओस(?पाउस)दइयस्स विरहम्मि ॥६६५॥  
 गयणच्छिणो गलंतस्स कालिमापिहिय[?तार]तारस्स ।  
 देइ सरओ सियव्भं [? ]पयडपडलं व ॥६६६॥  
 उयह नहं मज्झगएकमेहमोव्वंतसंतयजलोहं ।  
 सरयस्स फलिहदंडं मरगयरयणायवत्तं व ॥६६७॥  
 पायालोयरगमणा कयघणकज्जा फणि व्व फुडमणिणो ।  
 वद्धोद्धधूमदंडा महीए दीवा विरायंति ॥६६८॥  
 वंभंडंभंडघोलिरवियसियसयवत्तपरिमलमहग्घो ।  
 कस्स न जणेइ एसो सरओ सुरओ व्व उम्मायं ॥६६९॥

\*

४६. अथ हेमन्तप्रक्रमः

अवर्णितो सतावं हेमंतो सज्जणो व्व अल्लियइ ।  
 दुज्जणवयणेण व तावियाण लोयाण सरएण ॥६७०॥  
 कस्स न सद्धा गरुयत्तणस्स पइणो पसायमइयस्स ।  
 जइ साणंभंजणीओ न होज्ज हेमंतरयणीओ ॥६७१॥  
 हेमंते घणपेल्लणथणयडसंकंतकुंकुंमप्फंसो ।  
 कामीण गलइ सेओ रुहिरुग्गारो व्व सीयस्स ॥६७२॥  
 सीयं गमंति विरहानलेण विरहानलं पि सीएण ।  
 तेण न मरंति पहिया, विसस्स विसमोसहं जेण ॥६७३॥

कमलायराण उण्हो हेमंतो सीयलो जणवयाणं ।  
को किर भिन्नसहावं जाणइ परमत्थओ लोयं ? ॥६७४॥  
अच्छउ ता अन्नजणो हेमंतदिणेषु पेच्छ अच्छरियं ।  
अणुसरइ सीयभीओ वडवग्गिं झत्ति तवणो वि ॥६७५॥  
उन्हो त्ति समत्थिज्जइ दाहेण सरोरुहाण हेमंतो ।  
चरिण्ण नज्जइ जणो संगोवंतो वि अप्पाणं ॥६७६॥

\*

४७. अथ शिशिरप्रक्रमः

अंगे पुलयं अहरं सवेविरं जंपियं ससिक्कारं ।  
सव्वं सिसिरेण कयं जं कायव्वं पिययमेण ॥६७७॥  
मुहकुहरंतरणिज्जंतसासओ पत्थिओ जणो गोसे ।  
पियविरहजलणडज्जंतहिययधूमं व उग्गिरइ ॥६७८॥  
लोए फलाण मज्झे एक्कं चिय मह सुहाइ नारंगं ।  
जस्स परिकुवियदइआकवोलसरिसी फुरइ सोहा ॥६७९॥  
एको च्चिय दुन्विसहो विरहो मारेइ गयवई भीमो ।  
'किं पुण निसियसिलीमुहसमावहो फग्गुणो पत्तो ॥६८०॥

४८. अथ वसन्तप्रक्रमः

गहिज्जण चूयमंजरि कीरो परिभमइ पत्तलाहत्थो ।  
ओसरसु सिसिरनरवइ ! पुहई लद्धा वसंतेण ॥६८१॥  
पवणत्तुरयाधिरूढो अलिउलझंकारत्तूरनिग्घोसो ॥  
पत्तो वसंतराया परहुयउग्घुट्टजयसदो ॥६८२॥  
दीसइ न चूयमउलं अज्ज वि न हु वाइ मलयगंधवहो ।  
पत्तं वसंतमासं साहइ उक्कंठओ चैय ॥६८३॥  
अण्णण्णतरुलयासुरहिपरिमलेणानिलेण छिप्पंती ।  
कुसुमंसुएहिं रुयइ व परम्मुही तरुणचूयलया ॥६८४॥  
भमरो व्व फुडियहियओ वहिनिग्गयजाइविरहसिहिजालो ।

१. "किं पुण मिलियसिलीमुहसमावहो फग्गुणो मासो" इत्यपि पाठ समीचीनः ।" इति प्रती टिप्पणी ॥

रेहइ सामलमूलं किंसुयकुसुमं वसंतम्मि ॥६८५॥

महुसमए वि हु जाओ कोइलसहो कलो वि एयस्स ।

एक्काए सालईए विणाऽलिणो वज्जपडहो व्व ॥६८६॥

माणंसिणिमाणभयंदमत्थउच्छलियसोणियारुणियं ।

आरोह व्व वसंतो किंसुयकलियंकुसं वहइ ॥६८७॥

झंपेइ तुरियतुरिय अलिउलघणकंवलेण सहयारो ।

पहियाण विणासाऽऽसंकिओ व्व लच्छि वसंतस्स ॥६८८॥

\*

४९. अथ ग्रीष्मप्रक्रमः

अच्चंतखवियदोसो परिवड्ढियमित्तमंडलालोओ ॥

कस्स न जणेइ दुक्खं गिम्हो सुयणो व्व वोलित्तो ॥६८९॥

गिम्हे महइहाणं अंतो सिसिराइं वाहिरुन्हाइं ।

जायाइं कुवियसज्जणहिययसरिच्छाइं सलिलाइं ॥६९०॥

गिम्हावरमज्झन्हे पाया पहियस्स वालुयाउवरिं ।

चंदणपंक व्व ठिया पियापउत्ति सुणंतस्स ॥६९१॥

आसुंघिऊण अइ ए ! तन्हाविहले गयम्मि मयजूहे ।

झीणविहवस्स हिययं फुट्टं व तलं तलायस्स ॥६९२॥

दूसहसंतावभया संपइ मज्झट्टिए दिवसनाहे ।

छाहि व वंछमाणा छाया वि गया तरुतलाइं ॥६९३॥

दट्टूण दिवसनाहं वच्चंतं उत्तरोत्तरपएसुं ।

परिसुक्कदक्खिणासं हरिसेण विवड्ढिया दिवसा ॥६९४॥

गिम्हम्मि कलिजुगम्मि व जं मित्तो तवइ गोत्तजायं पि ।

दोसायरो जडो वि हु सुहाइ भवणस्स तं जुत्त ॥६९५॥

दीहरदिणम्मि गिम्हे अइसयखिण्णे रवी सया पहिओ ।

सयलसराण पियंतो करेहिं सलिलाइ तणुएइ ॥६९६॥

\*

१. “पत्ताणि(१ पत्ता) झडति, विअसति कुज्जया, अलिअणाण भाणदो । कुप्पहुवसंतसमए न हु दीसइ विअसिआ जाइ ॥११॥” इति प्रतौ टिप्पणी ॥

५०. अथासतीप्रक्रमः

असतीण नमो ताणं दप्पणसरिसेसु जाण हिययेसु ।  
 जो चिय गच्छइ पुरओ पुरिसो सो चेय सकमइ ॥६९७॥  
 सव्वस्सम्मि वि दइडे तह वि हु हिययस्स निव्वुई जाया ।  
 जं तेण गामदाहे हत्थाहत्थिं कुडो गहिओ ॥६९८॥  
 हंसेण समं जह रमइ कमलिणी तह य महुअरेणावि ।  
 सिय-कसिणणिव्विसेसाइं होंति महिलाण हिययाइ ॥६९९॥  
 सहउच्छयं जेणं दुल्लहं पि दूराओ अम्ह आणंतो ।  
 उवयारि जरय ! जीयं पि नित ! न कयावराहो सि ॥७००॥  
 अत्थिज्जइ निन्नेहं, भत्ते अरुई, जडम्मि अइतिन्हा ।  
 वेज्ज ! तहा कुणसु लहुं जह अन्नं मज्झ पडिहाइ ॥७०१॥  
 विज्ज ! जरो न हु एसो चिरवाही चेय कोइ संभूओ ।  
 उवसमइ सलोणेणं विडंगजोयामयरसेणं ॥७०२॥  
 अन्नत्थ वच्च वालय ! न्हायंतिं कीस मं पलोएसि ।  
 एयं रे ! जायाभीरुयाण तूहं चिय न होइ ॥७०३॥  
 पाणिगहिया वि पुरओ कया वि नेहेण सिच्चमाणा वि ।  
 थेरस्स पिया करदीविय व्व अन्नाणमुवयरइ ॥७०४॥  
 वंकं को पुलइज्जइ ? कस्स कहिज्जइ सुह व दुक्खं वा ? ।  
 केण व समं हसिज्जइ ? पामरपउरे हयग्गामे ॥७०५॥  
 अइलज्जियमइभीयं अइभूमिपलोयणं च अइमाणं ।  
 पुरिसस्स महिलियाए न [य] सुइसीलस्स चरियाइं ॥७०६॥  
 कस्स व न होइ रोसो दट्टूण पियाए सव्वणं अहर ? ।  
 सभमरपउमग्घाइरि ! वारियवामे ! सहसु इण्हि ॥७०७॥  
 जाइकलियं न इच्छसि, कमलग्गं मुयसि, अक्कमारूढे ! ।  
 विवरीयसरूवे लच्छि ! भमरि ! ओ ! वंदणिज्जा सि ॥७०८॥

\*

५१. अथ वृक्षजातिप्रक्रमः

मूलाहितो साहाण संभवो होइ सयलवच्छाणं ।  
 साहाहिं मूलबंधो जेहिं कओ ते तरू विरला ॥७०९॥

कह तं न वंदणिज्जं सयलजणाणं पि चंदणं होइ ।  
 दोजीहक्कंतेण वि जेण न मुक्को नियसहावो ॥७१०॥  
 सउणोवभोगजोग्गं एक्कं पि फलं न जस्स संजायं ।  
 सो वि हु रुक्खो कह वा जणेण भन्नइ सिरीसो त्ति ॥७११॥  
 छायारहियस्स निरासयस्स दूरयरदावियफलस्स ।  
 कज्जेण विणा जा का वि वड्ढिमा ताल ! सा तुज्झ ॥७१२॥  
 मोत्तूण पत्तनियरं जडाण नियपरिमलं समप्पंतो ।  
 सहसोम्मूलणदुक्खं वालय ! वालो सि, किं भणिमो ? ॥७१३॥  
 पइं मुक्केणं तरुवर ! नासइ पत्तत्तणं न पत्ताण ।  
 तुह पुण छाया जइ होज्ज तारिसी तेहिं पत्तेहिं ॥७१४॥  
 नारंगभंगसंजणियदप्पहुंकारजु(१३)ज्जए तत्थ ।  
 खलु नत्थि चंचुपसरो नालिय ! रे एत्थ नालियरे ॥७१५॥  
 गुरुविरहसंधि-विग्गहनिम्मवणे अत्थि कोइ जइ एत्थ ।  
 पढमेक्कमंजरि अंगुलिं व उब्भेइ सहयारो ॥७१६॥  
 सहयारमंजरिं वज्जिऊण महमहियपरिमलोग्गारं ।  
 अहिलमइ अक्ककलियं कहिं पि किं महुअरजुवाणो ॥७१७॥  
 तइय च्चिय पम्मुक्का तुज्झ फलासा पलास ! सउणेहिं ।  
 कुसुमोग्गमेसु जइया हयास ! कसिणं कयं वयणं ॥७१८॥  
 ठाणवमट्टेण वि चंदणेण ओ! पेच्छ नरवईणं पि ।  
 केण वि निययगुणेणं [ण] वंदणिज्जो कओ अप्पा ? ॥७१९॥  
 सिसिरत्तणावलेवं वहंति सव्वे वि दिवसविरमम्मि ।  
 मज्झन्हसीयला जे वयंसि ! विरला वणोद्देसा ॥७२०॥  
 मणहरवणं पि हु कणियारकुसुमं न एइ भमराली ।  
 रुवेण किं व कीरइ ?, गुणेण छेया हरिज्जंति ॥७२१॥  
 फणसेहिं समं महिमंडलम्मि का तरुवराण समसीसी ।  
 जो पहियारुहणक(कि)लेससंकिओ फलइ वुंधम्मि ॥७२२॥  
 जेण निओ परिवुड्ढिं तालो अइसलिलदाणसेवाए ।  
 तस्सेय जो न फलिओ सो फलिइ कह नु अन्नस्स ? ॥७२३॥  
 अहलो पत्तावरिओ फलकाले मुयसि मूढ! पत्ताइं ।  
 इणि कारणेण रे विडव! 'महुअ' तुह एरिसं नाम ॥७२४॥

५२. अथ पर्वतप्रक्रमः

एक्को च्चिय उययगिरी सज्जणचूडामणी भुयणमज्झे ।  
जो सीसे काऊण मित्तं उदयं करावेइ ॥७२५॥  
सो को वि समुप्पन्नो धराहरो कुलगिरीण मज्झम्मि ।  
जस्स भुवणाहिनाहो सूरुो वि पयाहिणं कुणइ ॥७२६॥  
सुरगिरिणो किं तुंगत्तणेण ? किं तस्स कणयरीद्धीए ? ।  
पासे वि भमंतं मित्तमंडलं जस्स अत्थमिअं ॥७२७॥  
उव्वहइ नवतणंकुररोमंचपसाहियाइ अंगाइं ।  
पाउसलच्छीइ पओहरेहिं परिपिल्लिओ विञ्जो ॥७२८॥  
वद्धियपओहेराए अइलंघियगुरुमहीहरसयाए ।  
जणओ सुयाइ खिज्जइ विञ्जो रेवाए कुमरीए ॥७२९॥  
मयवसमयरभमरेहिं को (?) विणा करिवरेहि विझगिरी ।  
विझं विणा करी वि हु पावंति पराहवसयाइं ॥७३०॥  
एक्कस्स मलयगिरिणो दिज्जइ रेहा गिरीण मज्झम्मि ।  
जत्थ ठियकुडय-निवा रुक्खा सिरिचंदणं हौंति ॥७३१॥  
जह सरसे तह सुक्के वि पायवे वहइ अणुदिणं विञ्जो ।  
उच्छंगवद्धियं नीरसं पि गरुया न सिद्धिलंति ॥७३२॥  
अत्थइरि ! सहइ तुह चेय तुंगिमा महिहराण मज्झम्मि ।  
मित्तं वियलियतेयं सीसेण समुव्वहंतस्स ॥७३३॥<sup>१</sup>  
किं वाऽऽगएहिं किं वा गएहिं किं वा गएहिं विझस्स ।  
जाण समवखं कीरइ वंसच्छेओ पुलिदेहिं ॥७३४॥

\*

५३. अथ सिंहप्रक्रमः

इत्तो रुहिरं इह मोत्तियाइं तह करिकवालखंडेहिं ।  
अच्छउ अणं पंचाणणस्स मग्गो वि दुव्विसहो ॥७३५॥  
पहरसि जेहि गयंदं करालनहपंजरेहि हत्थेहिं ।  
तेहिं च्चिय पहरंतो लज्जसि न मयंद ! हरिणम्मि ? ॥७३६॥

१ हरपसाहियाए प्रती ॥ २ 'अइलंघियगुरुमहीहरसयाए' इत्यशुद्ध पाठ विशोध्य 'अइलंघियगुरुमहीए' इति शोधित पाठ प्रती ॥ ३ एतदन्तरं "गाथा ७००॥" इति प्रती ॥



हा ! हा ! कह न मरिज्जइ इमिणा दुक्खेण जं मयंदस्स ।  
 दीसइ गुहा समुब्भडजंबुयपयपंतिचित्तलिया ॥७३७॥  
 इह वस-मासं इह रुहिरकदमं इह हि मुत्तिउक्केरो ।  
 कइवारं केसरिविलसियस्स मग्गो च्चिय कहेइ ॥७३८॥  
 निसियखरनहरपहरणविभिन्नकरिकुंभभासुरकरा(रे)णं ।  
 हरिणाण को विरोहो ? का मित्ती सह मयंदेण ? ॥७३९॥  
 लीलानिदलियगयंदकुंभपयडियपयावपसरस्स ।  
 सीहस्स मएण समं न विग्गहो नेय संधाणं ॥७४०॥  
 निग्गूढपोरिसाणं असच्चसंभावणा वि संभवइ ।  
 एक्काणणे वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥७४१॥  
 खरनहरपहरनिदलियमत्तमायंगकुंभकेसरिणो ।  
 अइदुब्बलस्स वि बलं खंडिज्जइ किं सियाळेहिं ? ॥७४२॥  
 हेलाए निसुंभियकुंभिकुंभविहवस्स चलणनहपंती ।  
 छिप्पउ छलेण निदालयस्स हरिणो वि हरिणेण ॥७४३॥  
 निविडचवेडवियारियकरिकुंभोच्छलियमोत्तियनिहेण ।  
 पुप्फवरिसो व्व खित्तो सिद्धेहिं सीहचरियस्स ॥७४४॥  
 पंचाणणनहमुदंकियाइं रेवातडाइं ददूहण ।  
 मयपसरपरवसेहिं वि गएहिं न हु तत्थ परिभमियं ॥७४५॥

\*

५४. अथ गजप्रक्रमः

भुंजंति कसिणदसणा अविभतरसंठिया गयंदाण ।  
 जे उण विहुरसहावा ते धवला वाहिर च्चेय ॥७४६॥  
 दाणं दितस्स वि खणइ अंकुसो तह गयंदकुंभयडं ।  
 सीसे वि कया वंका लोहमया कं न दूमंति ? ॥७४७॥  
 दंतच्छोहं तडविडविमोडणं सरससल्लईलिहणं ।  
 जइ विंझो च्चिय न सहइ ता करिणो कत्थ वच्चंति ? ॥७४८॥  
 दंतुल्लिहणं सव्वंगमज्जणं हत्थबुड्डुणायासं ।  
 पोहंगयंदाण वणे पुणो वि जइ नम्मया सहइ ॥७४९॥

तह नीससियं जूहाहिवेण चिरविलसियं सरंतेण ।  
जह गहियं तिणकवलं सरसं पि हु झत्ति पज्जलियं ॥७५०॥  
नियजूहालिद्धस्स वि वल्लहघरिणीमुहं सरंतस्स ।  
सरसो मुणालकवलो गयस्स हत्थे च्चिय मिलाणो ॥७५१॥  
अज्ज वि तं सरइ गओ मज्जंतो सरवरम्मि लीलाए ।  
जं करिणिकरगुम्मूलिएण पहओ मुणालेण ॥७५२॥  
वियलियमएण गयजोव्वणेण हल्लंतदंतमुसलेण ।  
अज्ज वि उलं सणाहं जूहाहिवइं जियंतेण ॥७५३॥  
रेवाणइतीरुक्कंपिएण तह कहवि तेण निस्ससियं ।  
जह सुन्नमणस्स गयं गएण न हु लक्खियं जीअं ॥७५४॥  
रायंगणम्मि परिसंठियस्स जं कुंजरस्स माहप्पं ।  
विंझगिरिम्मि न तहा ठाणेसु गुणा विवइहंति ॥७५५॥  
सित्थेण कि व रित्तं करिणो कवलावसेसपडिएण ।  
तं पुण तेणं चिय जियइ बप्पुडं कीडियकुडंवं ॥७५६॥

\*

५५. अथ करभप्रक्रमः

कंकेल्लिपल्लवोव्वेल्लमणहरे जइ वि नंदणे चरइ ।  
करहस्स तह वि मरुविलसियाइं हियए खुडुक्कंति ॥७५७॥  
पुणरुत्तपसारियदीहकंधरो करह ! किं पलोएसि ? ।  
कत्तो लब्भंति मरुत्थलीओ दिव्वे पराहुत्ते ? ॥७५८॥  
तं जीहाए विलगं किं पि फलं मामि ! तस्स तद्वियहं ।  
वोक्करइ वक्खिओ(? चक्खिउं) सणवणाइं करहो धुयग्गीवो ॥७५९॥  
नीससिय रुयसि झिज्जसि झूरसि चित्तेसि भमसि उबिबो(?उव्विग्गो) ।  
सा मरणस्स कएणं करह ! तए चक्खिआ वल्ली ॥७६०॥  
उयह महीहरउच्छंगसंगदक्खाए कह व पत्ताए ।  
करहेण उज्जुएणं अहरदलगं पि न हु मुक्कं ॥७६१॥  
सरलाओ नवनवाओ अणवरयं जइ वि चरइ वल्लीओ ।  
तह वि [? हु] हिययम्मि सया करहो दक्खारसं सरइ ॥७६२॥

\*

५६. अथ धवलप्रक्रमः

अप्फोडियगुर्यपयप्पहारविस्थिणजणियकिणसोहो ।  
 धवलस्स महाभरकड्डणाइं खंधो च्चिय कहेइ ॥७६३॥  
 डिंभाण न सो कुप्पइ, थेरे परिहरइ, खमइ कसराण ।  
 धवलाण धवलवसहो न सहइ तणुयं पि फुंकारं ॥७६४॥  
 धवलस्स नेय भारो दुक्खइ हिययम्मि दुक्खए अन्नं ।  
 अणजाणएण पहुणा कसरेण समं पि जं जुत्तो ॥७६५॥  
 चिक्कणचिक्खललचहुट्टचक्कथक्के भरम्मि जाणिहसि ।  
 अविसेसन्नु गहवइ ! परम्पुहो जं सि धवलाण ॥७६६॥

\*

५७ अथ मुत्कलप्रक्रमः

अमरसिरोवरि ठाणं लद्धं रे ! धयवडा ! हि अब्भहियं ।  
 नियवंसस्स वि छाया न कया ता कीस फरहरसि ? ॥७६७॥  
 पाऊण पाणियं सरवराण पिट्ठिं न दिंति सिहिडिंभा ।  
 होही जाण कलावो पयइ च्चिय साहए ताण ॥७६८॥  
 जइ लब्भइ अवयारि कह व उलग्गेण आवयापडियं ।  
 उवयारमारियं तह करिज्ज जह दुक्करं जियइ ॥७६९॥  
 दिव्ववसा पइं जंबुय ! पत्ता जइ नाम केसरिस्स गुहा ।  
 ता तस्स करिवियारं परक्कमं ... .. ॥७७०॥  
 .... .. |  
 .... .. ॥७७१॥  
 .... .. |  
 .... .. ॥७७२॥  
 .... .. |  
 .... .. ॥७७३॥  
 नवणलिणमुणालुल्लोलमालियं हंस! माणसं मोत्तुं ।  
 लज्जाए कह न मओ सेवंतो गामवाहुलिअं ? ॥७७४॥

महणारंभे मंदररवेण तह कह वि भामिया लच्छी ।  
जेण जुअंतरपत्ता न तहा वि थिरत्तणं लहइ ॥७७५॥  
तं नत्थि जं न कीरइ कणयं[?प]लोहेण एत्थ लोयम्मि ।  
सुरो विहु अत्थमणे रहेण बुद्धो समुद्धम्मि ॥७७६॥  
गुणसंगेण वि गुरुआ जयम्मि सब्वत्थ हीति गारविया ।  
ठाणव्भट्टं घट्टं वंदिज्जइ चंदणं, उयह ॥७७७॥  
चडइ नमंताण गुणो आरूढगुणाणं होइ टंकारो ।  
जह चावाण नराण व गुणटंकारो, न थद्धाण ॥७७८॥  
पहरद्धं पि न तवियं रवि-ससिविरमे सणिच्छर-बुहेहिं ।  
पायडवंसेहिं व निप्फरेहिं किं कीरइ सुएहिं ? ॥७७९॥  
सच्चायरेण रक्खह तं पुरिसं जत्थ जयसिरी वसइ ।  
अत्थमियम्मि मियंके तारेहिं न कीरेण जोन्हा ॥७८०॥  
सेसेण सिरं दिन्नं, पिट्ठी कुम्मेण भुवणभारस्स ।  
कज्जारंभे सरिसे वि अंतरं होइ गरुआण ॥७८१॥  
मित्तं पयस्स सलिलेण सच्छह जं न होइ किं तेण ? ।  
विउणेइ मिलिज्जंतं आवट्टइ आवईपढमं(?डियं) ॥७८२॥  
तं मित्तं कायव्वं जं मित्तं वसणपत्तकालम्मि ।  
आलिहियभित्तिवाउल्लयं व न परम्महुं ठाइ ॥७८३॥  
धम्मो लंग्गा इह मग्गणा वि पावंति उत्तमं ठाणं ।  
गुणसंगिणो फुरंता गयणंगणगामिणो हुंति ॥७८४॥  
तिक्खो वि खरो वि सलोहओ वि परपीडगो वि लहुओ वि ।  
लग्गो धम्मम्मि नरो सरो व्व गरुअं गुणं लहइ ॥७८५॥  
लीलाए कुवलयं कुवलयं व सीसे समुव्वहंतेण ।  
सेसेण सेसपुरिसाण पुरिसयारो वि पम्हुट्ठी ॥७८६॥  
पूयफलेहिं चिय केवलेहिं पयडो न होइ मुहराओ ।  
जाव न होइ सहाया निच्चं सच्चून्नया पत्ता ॥७८७॥  
हारो खित्तो महिमंडलम्मि तरुणीए रइसमारंभे ।  
अवसररहिया गुणिणो(गुणवंतया)वि दूरे धरिज्जंति ॥७८८॥

कस्स वि गुणबुद्धि च्चिय उच्चपयारोहणेसु निगडाई ।  
 अङ्गारवेण पिच्छाण नीयनहगामिणो सिद्धिणो ॥७८९॥  
 अहियमहियं कलाओ संगहिय सिरिए तह कहं रविओ (?णो) ।  
 अप्पं हरिणकेणं मित्तस्स वि जह न संघडइ ॥७९०॥  
 ऊहइ सो को वि कया वि भुवणपलहत्थणापरो परणो (?) ।  
 महिहरसिरेसु खेलंति जेण रच्छा इव न्ह(?त)णाई ॥७९१॥  
 तं किं पि उवलखंडं कया वि परमेसरी जणइ वसुहा ।  
 नरवइचूलाकुमुमेहिं जस्स किर दिज्जए अग्घो ॥७९२॥  
 दीवेसु तिमिरसंघाइरी इ फु(पप्फु)रइ कां वि सा कंती ।  
 तह वि हु, पहावत्तंसेसु उवलखंडेसु मणिसदो ॥७९३॥  
 तस्स पईवस्स। सयं कहं समत्था समत्थिमं कहिउं ? ।  
 देवे गयम्मि, सूरु जेण न सीयंति ववहारा ॥७९४॥  
 तं धवलत्तं सो को वि भुवणसंतावलोवगो महिमा ।  
 पसुसंगेणेक्केणं ससिणो सव्वं पि सकलंकं ॥७९५॥  
 अइवल्लहेसु कोवो वियंभए, अहव अइविरुद्धेसु ।  
 अन्ने उण अवर्राहे वि हौंति जोग्गा अवेक्खाए ॥७९६॥  
 अङ्गरुयमहावंसुव्भवाण संघडिय[? विविह]विहवाण ।  
 तुइंति गुणा अइधट्टिमाए चावाण व नराणं ॥७९७॥  
 सच्छाण सुचित्ताणं मुत्ताणं सुत्तिसंपुडठियाणं ।  
 गुणसंगममलहंताण निप्फलो जम्मसरंभो ॥७९८॥

\*  
५८. अथ शान्तरसप्रक्रमः

न हु एत्तिणञ्चो(?हो)ही मलिणाण समुन्नईइ घणसमओ ।  
 कायव्वा अज्ज वि रायहंसमुन्ना सरुच्छंगा ॥७९९॥  
 अब्भत्थिया वि वंका गुणरट्ठिया निमिसमेत्तरंगिल्ला ।  
 इन्दि कलिजुगसमए सुरिदधणुसच्छहा लोया ॥८००॥  
 संतगुणविप्पणासे असंतदोसुव्भवे वि ज दुक्खं ।  
 तं सोसेइ समुदं, किं पुण हिययं मणुस्साणं ? ॥८०१॥

कीरंति जाइं जोव्वणवसेण अवियारिज्जण कज्जाइं ।  
 वयंपरिणामे सभारियोइं हियए खुडुक्कंति ॥८०२॥  
 दइहो चंदणविडवी असेसवणरायमंडणं इमिणा ।  
 हद्धी ! छारस्स कए विक्कमियं हयहुयासस्स ॥८०३॥  
 दिव्वम्मि परावु(हु)त्ते एत्ति(पत्तिय) घडियं पि विहडइ नराणं  
 व(क)ज्जं वालुयधरणं व कह व बंध च्चिय न एइ ॥८०४॥  
 खंडिज्जइ विट्ठिणा ससहरो वि, सूरस्स होइ अत्थमणं ।  
 हयदिव्वपरिणईए कवल्लिज्जइ को न कालेण ? ॥८०५॥  
 जलणपवेसो चामीयरस्स भण कह न जुज्जए काउं ।  
 हद्धी ! जस्स परिकखंति पत्थरा मामि ! गुणनियरं ॥८०६॥  
 वसणाइं रिद्धिसमुद्धरेसु लोएसु वीति पाएण ।  
 असमग्गसिरिं राहू वि गसइ, न हु जामिणीनाहं ॥८०७॥  
 दीणत्तं कुणमाणो जणो सयं चेव मरणसहिलसइ ।  
 पडिवयणं जं कट्ठिणं तं पुण मयमारणं तैस्स ॥८०८॥  
 ताव य कोवावसरो जाव विवेओ मणे ण विप्फुरइ ।  
 जलियं व भयवया हुयवहेण धूमो य विणियत्तो ॥८०९॥  
 सयलजणनयणकडुयं नित्थामं तह पयावपवभट्टं ।  
 नियत्तणयं धूमं पेच्छिज्जण छारं गओ अग्गी ॥८१०॥  
 दिवस-निसाघडमालं जीवियसलिलं जणस्स वेत्तुणं ।  
 चंदाइच्चवइल्ला कालऽरहट्टं भमार्डिति ॥८११॥  
 अत्थमणे छंडिज्जइ नूणं सूरुो वि निययकिरणेहिं ।  
 पुरिसस्स वसणकाले देहुप्पन्ना वि विहडंति ॥८१२॥  
 दीहरफणिंदनाले महिहरकेसर-दिसामुहदलिल्ले ।  
 ओ पियइ कालभमरो जणमयरंदं पुहइपउमे ॥८१३॥  
 परिगलियं तं पिम्मं गयाइ रूसण-पसाहियव्वाइं ।  
 इन्धि वित्तविवाहो व्व हियय ! तं निव्वभरं सुयसु ॥८१४॥

१ 'याइं ताइं हियप प्रतिपाठ ॥

२ 'तस्स' इत्येन लेखकलिखित पाठ सशोध्यात्र 'तत्थ' इति शोधककृतः पाठ प्रतौ ॥

३ "वीत" इति प्रतौ टिप्पणी ॥

मा वच्चह वीसंभं नईण नारीण सइरचारीणं ।  
 पसरियपओहराओ कूलाइं कुलाइं पाडंति ॥८१५॥  
 कह नाम तीए तं तह सहावघट्टो वि सिद्धिभरो पडिओ ।  
 अहवा महिलाण चिरं को वा हिययम्मि संठाइ ? ॥८१६॥  
 महिहरतणया रयणा[य]रप्पिया नम्मया वहइ सल्लिं ।  
 जुत्तं नीससइ जणो दीहं धूयाए जायाए ॥८१७॥  
 धवला मइलणसीला सिणेहपरिपूरिया वि तावेइ ।  
 दीवयसिह व्व महिला कज्जलमइलं घरं कुणइ ॥८१८॥  
 सग्गाओ हरं गंगा गया, हराओ गिरिं, तओ जलहिं ।  
 लद्धपसराण तिची महिलाण न एगपुरिसम्मि ॥८१९॥  
 महिलाओ कमलिणीओ व अणुरत्ताओ गुणेहिं जुत्ताओ ।  
 पिच्छंतस्सेव य दिणवइस्स भमरेहिं जुत्ताओ ॥८२०॥  
 मित्तइत्थमणुव्विग्गा दट्ठुं भमरेहिं कमलिणी मुक्का ।  
 अन्नासत्तं न रमंति महुलिहा ओ वि(?), किं चोज्जं ? ॥८२१॥  
 भइं कुलंगणाणं जासिं मणकमलकोसमणुपत्तो ।  
 मयणभमरो वराओ वच्चइ निहणं तहिं चेय ॥८२२॥  
 नेहक्खयं कुणंती पज्जलइ [य] सगुणवट्ठिसंगेण ।  
 दीवयसिह व्व लच्छी अथिर च्चिय बहुअवाएहिं ॥८२३॥  
 दूरेण निहियभमुहा पए पए किंपि किंपि चितंता ।  
 नट्टं व जोव्वणं महियलम्मि थेरा पलोयंति ॥८२४॥

१. अत्रार्थे प्रतौ गाथा-दोधकादिपद्यपञ्चकं टिप्पणीरूपेण लिखितं वर्तते, तद्यथा-  
 “जे नामंति न सीस कस्स वि भुवणे वि जे(ते) महासुहवा ।  
 रागंधा गलिअबला रुलति महिलाण चरणतले ॥१॥  
 जिम जलो जलमाहिली तिम नारी निरवाण ।  
 ओलागी लोही पीइं, नारी पीइ पराण ॥१॥  
 अजलि । धु अयाण नीर न देयें नीठुं ।  
 जिम पाणि, तिम प्राण नी(ना)र न देयें नीठु ॥१॥  
 अन्न रमइ निरिक्खइ अन्नं चितेइ भासए अन्न ।  
 अन्नस्स देइ दोसं कवढकुडी कामिणी वियडा ॥१॥  
 मोअण धोचिणि जलवहणि वाहिरभूमि गयाह ।  
 देवभवणि पप्पडबलणि रसगुट्ठी महिलाण ॥१॥ ”

किं वासरेहिं ? किं वा सरेहिं ? किं वा सरेहिं ? पसयच्छि ! ।  
 तारुन्न-समर-पयवज्जिएहि, बहुएहिं किं तेहिं ? ॥ ८२५ ॥  
 फणिणो सिराईं धुत्ता पियंवया जह विसाईं महुराईं ।  
 परिणामदारुणाओ वि परमहिलाओ तह सुहाओ ॥ ८२६ ॥  
 निर्वंडंति च्चिय उब्भडविवेयदंडग्गाढलग्गा वि ।  
 इंदियगइंदपरिपेळणाहिं गुरुपावपंकेसु ॥ ८२७ ॥  
 इह-परलोअभवानं सुक्खाणं मद्दवो च्चिय उवाओ ।  
 चावाण [१व] अणमंताण गुणसमारोहणं कत्तो ? ॥ ८२८ ॥  
 वयणिज्जं पिच्छिय विहडियम्मि गाढम्मि पिम्मगंठिम्मि ।  
 अजडाण सल्लविगमो, जडाण उण सल्लसंभूई ॥ ८२९ ॥  
 जीयं पि जस्स दिज्जइ दियहेसु सिणेहनहरनहिलेसु ।  
 तस्स च्चेय कया वि हु तणं पि दिंताण उव्वेओ ॥ ८३० ॥  
 इहलोयभवानं पि हु मूलं सुक्खाणमेणनयणाओ ।  
 दुक्खाण पुणो इहलोइयाण परलोइयाणं च ॥ ८३१ ॥  
 किं(१जं) जं पि भुवणकुहरे तं खु असेसं पि चंचलं चैव ।  
 तह वि जणजीवियाणं महिला पिम्मा(१म्मो)णयपडाया ॥ ८३२ ॥  
 रत्तासु वि जे रच्चंति महिलियासुं न ते वि सविवेया ।  
 जे उ विरत्तासु वि गाढरागिणो ताण भदाईं ॥ ८३३ ॥

\*

[गंथकारपसत्थी]

सिरिसीलसूरि-सिरिधम्मसूरि-सिरिसव्वदेवगच्छम्मि ।  
 चंदप्पहसूरीणं अणुकमसो सिस्सल्लेसेणं ॥ ८३४ ॥  
 विहितो [१हिओ] जिणेसरसूरिणा नवो (?) गाहारयणवरकोसो ।  
 भालिज्जठिएण इमो मणोहरो समणतोसकए ॥ ८३५ ॥  
 ससि-वाण-सूर(१२५१)वरिसे, अट्टावन्ना य पक्कमा एत्थ ।  
 गाहाणं अट्ट सया, रइओ सहसो सिलोगाणं ॥ ८३६ ॥

१ निविडंत च्चिय प्रतिपाठ ॥ २ एतदनन्तरम् "गाथा ८००" इति प्रती ॥





## सुभासियगाहासंगहो

॥ नमः सरस्वत्यै ॥

लंका लया पलासा वसंतमासम्मि लद्धमाहप्पा ।  
निव्वाहिज्जण सीयं पच्छा कलियारया जाया ॥ १ ॥  
कलियामिसेण उब्भेवि अंगुली मालईए महमहियं ।  
वारेउ जा समत्था मह इंतं महुरजुवाणं ॥ २ ॥  
पवणुद्धुयपल्लवकरयलेहि वारेइ माहवी भसलं ।  
पुप्फवइमल्लियासंगदूसिओ मा ममं छिवसु ॥ ३ ॥  
मालइकलिया मयरंदमंदिरा मंदमंदवियसंती ।  
कुसलेण छप्पण व तह रमिया जह न उत्तसइ ॥ ४ ॥  
गरुयत्तणस्स को मामि ! मरुयो पत्तियं पुण भणामि ।  
पाए धुवंति निस्सेसतरुयरा परिमलकहाए ॥ ५ ॥  
लच्छीकरकमलवियासरेणुपूरिज्जमाणनयणेहिं ।  
पासट्टिया वि दीसंति नेय रोरा धणइडेहिं ॥ ६ ॥  
सूरायवपप्फुटंतकणयकंदोदरेणुपिंगंगा ।  
दंसणमित्तेणं चियं माणसइंसा कलिज्जंति ॥ ७ ॥  
नूणं- रखलकालकूडविससंगकलुसिया लच्छी ।  
मउलंति जेण नयणाइं तक्खणं तीण जे दिट्ठा ॥ ८ ॥  
सुइ-दिट्ठिवायहरणे नराण लच्छीए को विसंवाओ ? ।  
जं न कुणइ गरलसहोयरा वि मरणं तमच्छरियं ॥ ९ ॥  
पेच्छंता वि न पेच्छंति, जाणमाणा वि नेय जाणंति ।  
निमुणंता वि हु निमुणंति नेय रज्जं समासज्ज ॥ १० ॥  
अणहुंता वि हु हुंतीए हुंति, हुंता वि जंति जंतीए ।  
ओ ! जीए समं नीसेसगुणगणा जयउ सा लच्छी ॥ ११ ॥  
अवणिज्जइ हारो कामिणीहिं थणमंडलाओ रइसमए ।  
अवसररहिया गुणवंतया वि दूरे ठविज्जंति ॥ १२ ॥  
दूर चिय पम्मुक्का तुम्ह(इज्ज) फलासा पलास ! सउणेहिं ।  
कुसुमोग्गमम्मि तइया जं किर कसणीकयं वयणं ॥ १३ ॥

अंधारिऊण वयणं विरसं रसिऊण मामि ! खत्थेहि ।  
 तह जलहरेहिं दिन्नं पउरं पि जलं अऊं तेहिं ॥ १४ ॥  
 महिउं महोअहिं महुमहो वि जं सुयइ तस्स उच्छंगे ।  
 तं चिय नीइविरुद्धं, अहवा छज्जइ समत्थाण ॥ १५ ॥  
 ता निग्गुण च्चिय वरं पयणुयलंभेण जाण परिओसो ।  
 गुणिणो गुणाणुरूवं फलमलहंता किलम्मंति ॥ १६ ॥  
 अब्भत्थिओ वि सयवत्तवणसिरो हरइ जं निसानाहो ।  
 तं तस्स नेय जुत्तं, अहवा का लज्ज सकलंके ? ॥ १७ ॥  
 होही वली सुरिंदो तुट्टेण मुरारिणा न संदेहो ।  
 वद्धो पायालगओ एसो सद्दो न फिट्ठेही ॥ १८ ॥  
 निव्वडियपुरिसयारे असच्चसंभावणा वि संभवइ ।  
 एक्काणणे वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥ १९ ॥  
 तं सहं तं धवलत्तणं च तं चेव महुयहीजम्मं ।  
 संखस्स हिययकुडिलत्तणेण सयलं समुप्फुसियं ॥ २० ॥  
 हारो उरस्स, सवणाण कुंडले, मेहला नियंवस्स ।  
 नयणाण पुणो गरुए वि ऊसवे कज्जलसलाया ॥ २१ ॥  
 जो जत्तियस्स अत्थस्स भायणं सो उ तेत्तियं लहइ ।  
 बुट्टे वि दोणमेहे न डुंगरे पाणियं ठाइ ॥ २२ ॥  
 उवमुंजिउं न सक्कइ रिद्धिं पत्तो वि पुन्नपरिहीणो ।  
 पउरं पि जलं तिसिओ वि मंडलो लिहइ जीहाए ॥ २३ ॥  
 अच्चासन्ने परिगलइ गारवं सुहय! तुज्झ को दोसो ? ।  
 नियअच्छी वि न पेच्छइ पडिलग्गा कज्जलसलाया ॥ २४ ॥  
 ठाणेसु गुणा पयडा, ठाणाणि गुणेहिं पायडिज्जति ।  
 सोहइ नयणेहिं मसी, मसीए सोहंति नयणाइं ॥ २५ ॥  
 वरतरुणिनयणपरिसंठियस्स जं कज्जलस्स माहप्पं ।  
 दीवयसिहा[ए] ण तहा, ठाणेसु गुणा विसट्ठति ॥ २६ ॥  
 वरतरुणिसिहिणपरिसंठियस्स हारस्स होइ जा सोहा ।  
 सिप्पीपुडम्मि न तहा, ठाणेसु गुणा विसट्ठंति ॥ २७ ॥

वंसच्छेए वि कए न मुयइ मायंगसंगहं विञ्जो ।  
 नियकित्तिलंछणाओ गरुया पालेंति पडिवन्नं ॥२८॥  
 छिज्जउ सीसं, अह होउ वंधणं, चयउ सव्वहा लच्छी ।  
 पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होइ तं होउ ॥२९॥  
 उज्झंति धणं, छड्ढंति मंडलं, परिहरंति नियजीयं ।  
 कुव्वंति नेय कहवि हु पइण्णहाणी महापुरिसा ॥३०॥  
 अच्छउ तावऽन्नजणो अंगे च्चिय जाइं पंच भूयाइं ।  
 ताणं चिय लज्जिज्जइ पारद्धं परिहरंतेहि ॥३१॥  
 दढलोहसंकलाण य अन्नाण य त्रिविहपासबंधाणं ।  
 ताणं चिय अद्विययो वायाबंधो कुलीणाणं ॥३२॥  
 कीरंति जाइं जोव्वणवसेण अवियारिऊण कज्जाइ ।  
 वयपरिणामे भरियाइं ताइं हियए खुडुक्कंति ॥३३॥  
 परिणमियकज्जपरिभावणाए बुद्धीओ जा विसट्टंति ।  
 ता जइ पढमारंभे हवंति ता किं न पज्जत्तं ? ॥३४॥  
 पढमं चिय रोसवसे जा इच्छा होइ सा न कायव्वा ।  
 अह कहव कीरइ च्चिय न सुंदरो तीय परिणामो ॥३५॥  
 अपरिक्खियकयकज्जं सिद्धं पि न सज्जणा पसंसंति ।  
 सुपरिक्खिय पुणो विहडियं पि न जणेइ वयणिज्जं ॥३६॥  
 वयणिज्जं चिय मरणं होइ कुलीणाण सयणमज्झम्मि ।  
 जं पुण मरणं सा कालपरिणई लोयसामन्ना ॥३७॥  
 केत्तियमित्तं च धरा मह बलिणो तुज्झ मग्गमाणस्स ।  
 अप्पा न केवलं चिय अहं पि लहुईकओ कण्ह! ॥३८॥  
 तइयपयं अलहंतो सामरिसो कीस कण्ह! मह उवरिं ।  
 एत्थ तुह च्चिय दोसो मडहा पुहई कया जेण ॥३९॥  
 परपत्थणापवन्नं मा जणणि! जणेसि एरिसं पुचं ।  
 उयरे वि तं म धरिहसि पत्थणभंगो कओ जेण ॥४०॥  
 जाओ सि कीस दुग्गय! ? किं न विलीणो [सि] गव्वभासे वि ? ।  
 महिलाण मंडणं अविहल(व)त्तणं न उण पुरिसाण ॥४१॥

अत्ताणं चिय दुहरं जाण जए तेहिं किं व जाएहिं ? ।  
 सुसमत्था जे न परोवयारिणो तेहि वि न किंचि ॥४२॥<sup>१</sup>  
 उवयारो कीरइ खलयणस्स जो फुसइ तक्खण च्चेव ।  
 सुअणो उवयारमहवभरेण दुक्खं समुच्चइ ॥४३॥  
 दो पुरिसा धरउ धरा, अहवा दोहिं पि धारिया धरणी ।  
 उवयारे जस्स मई, उवयरियं जो न पम्हुसई ॥४४॥  
 जइ मंडलेण भसियं हत्थिं दट्ठण हट्टमज्झम्मि ।  
 ता किं गयस्स जुज्जइ सुणहेण समं कलिं काउं? ॥४५॥  
 पडिवयणसमत्थेण वि सहियव्वं दुज्जणस्स सुयणेण ।  
 न य पिट्ठम्मि निलीणो वसहस्स सिरिं हरइ काओ ॥४६॥  
 उक्खणइ णइनियइं(?) पवणो नाऊण तुच्छमूलाइं ।  
 मूलेइ महल्लतरू गरुया गरुयं विरोहंति ॥४७॥  
 गरुयाणं गरुय च्चिय उवयारं जइ करंति न हु अन्नो ।  
 को उल्लवेइ विंझं मेहेण विणा पलिप्पंतं? ॥४८॥  
 रूसंति दूहवा सूहवाण, धणइत्तयाण दालिहा ।  
 पंडियजणाण मुक्खा, असईओ सईण रूसंति ॥४९॥  
 दीसंतो अमयमओ लोअण-मणनंदणो इमो एको ।  
 विसदलनिम्मियदेहो एसो पुण दूहवो अन्नो ॥५०॥  
 मुहराओ च्चिय भन्नइ जो जस्स पिओ किमत्थ भणिणण ? ।  
 पंगणयं चिय साहइ घरस्स अविभतरं लच्छिं ॥५१॥  
 जाईसराइं मन्ने इमाइं नयणाइं होंति लोयस्स ।  
 चियसंति पिए दिट्ठे, अव्वो! मउलंति वेसम्मि ॥५२॥  
 धणुरायनिव्वभरं पि हु पेम्मं माणेण जाइ सयखंडं ।  
 विप्पि(?)च्चियजलणालिद्धं तडयडसदेण लोणं व ॥५३॥  
 अइंसणेण पिययम ! सुदट्ठ वि नेहाणुरायरसियाइं ।  
 हत्थउडपाणियाइं व कालेण गलंति पेम्माइं ॥५४॥  
 हियए चित्तुत्तिन्ने वियलियनेहे पणट्ठसवभावे ।  
 अब्भत्थणाए पेम्मं कीरंतं केरिसं होइ ? ॥५५॥

१ एतदन्तरमिमा गाथा टिप्पणोरूपेण लेखकलिखिताऽस्ति “तेहि वि न किंचि भणिण विकमराएण देव ! तुट्ठेण । दिण्ण मायगसय कोढी हेमस्स जच्चस्स ॥”

पसयच्छि! परसरीरे जोइयपइयं(?)ति निग्गए जीए ।  
 तुहुं पुण जीवताण वि अविणट्ठतणुं समारुहसि ॥५६॥  
 परपुरपवेसविन्नाणलाहवं सुहय ! सिक्खिओ कत्थ ? ।  
 जेण पइट्ठो हियए पढमे चिय संगमे.... .. (?मज्झ) ॥५७॥  
 जइ सा लायन्ननिही दिट्ठा नयणेहिं ते च्चिय रुलंतु ।  
 अंगाईं अपावियसंगमाईं ता कीस झिज्जंति ? ॥५८॥  
 ददट्ठण तरुणिसुर . . ....लोइंतवद्धकरणेहिं ।  
 दीवो वि तग्गयमणो गयं पि तेल्लं न याणेइ ॥५९॥  
 एसो वोळेइ सही जो सो हिययं.... ..महिलाण ।  
 दिट्ठेण तेण कीरइ निउणावेढो नियंवस्स ॥६०॥  
 सिक्कार-कणिरकुररव-पारावयसइ-कोइलारवियं ।  
 कांइ वि करिंति ! इल सहि!, पियसुरए वेयणा कत्तो ? ॥६१॥  
 रेहइ चिय लंविरेकेसहत्थकुंडलललंतहारलया ।  
 अइढोप्पइया विज्जाहरि व्व पुरिसाऽऽरये वाला ॥६२॥  
 पुरिसन्नु बाल (? ) खेल्लंतयस्स जं पडइ वारि रमणीयं ।  
 गुरुविरइजलणसंतावतावियं तं पियस्स ओल्हावए अंगं (?) ॥६३॥  
 जत्थ सरे मज्जिज्जइ सेवय(?)णरि(?तरु)णीहिं तावियंगीहिं ।  
 साल्लरा नय(?तव)णमया तत्थ व दीसंति गयजीवा ॥६४॥  
 अब्बो ! न जामि खेत्ते, साली खज्जंतु कीरनिवहेहिं ।  
 जाणंता वि हयासा पहिया पुच्छंति मे मग्गं ॥६५॥  
 कह रक्खेउ वराईं कलवी कीराण मंदगइगमणा ।  
 पीणुन्नयगरुयपयोहरेहिं ताला न संघडइ ॥६६॥  
 पत्ते पियपाहुणए किं काही दुग्गओ तुरंतो वि ? ।  
 अंधो मलिएहिं वि लोयणेहिं अंधो च्चिय वराओ ॥६७॥  
 गुणिणो विहवारूढाण, विहविणो गुरुगुणाण न हु किपि ।  
 अन्नोन्नयलहुययरा गिरीण जे मूल-सिहरेहिं ॥६८॥  
 कंकेलिलपल्लयुव्वेल्लमणहरे जइ वि नंदणे चरइ ।  
 करहस्स तह वि मरुविल्सियाईं हियए खुडुक्कंति ॥६९॥

कसिणोज्जलो विरायइ वेणीदंडो नियंत्रवित्रम्मि ।  
 तुह सुंदरि ! सुरयमहानिहाणरक्खासुअंगो व्व ॥७०॥  
 कह तम्मि निव्वविज्जइ दुक्खं दुक्खुद्धएण हियएण ।  
 अदाए पडिर्विअं व जम्म(म्मि) दुक्खं न संकमइ ॥७१॥  
 अत्थवणं पहरपरव्वसाणं जइ होइ, होउ, को दोसो ? ।  
 जं पुण सुच्चइ तेओ सूरान न एरिसं जुत्तं ॥७२॥  
 पच्छाभिमुहो वच्चइ पहरदओ अवरं विमोत्तूण ।  
 तह वि हु भन्नइ सूरु पेच्छ पसिद्धीए माहप्पं ॥७३॥  
 खंडिज्जंतो वि ससी अवमाणं सहइ पुन्निमा जाव ।  
 सूरु पयावहरणे अत्थमइ, न खंडणं सहइ ॥७४॥  
 गयणंगणपरिसक्कणखंडणदुक्खाइं सहसु अणुदियह ।  
 न सुहेण हरिणलंछण ! कीरइ जयपायडो अप्पा ॥७५॥  
 अन्न च्चिय सा जाई जीए फलं होइ सुरहिगंधइहं ।  
 एसा कुसुमे च्चिय नवरि सुंदरो विहडइ फलम्मि ॥७६॥  
 एककेण वि तीरतडट्टिएण हंसेण होइ जा सोहा ।  
 सा सरवरं न पावइ बहुएहिं वि ठिक्कसत्थेहिं ॥७७॥  
 जह हंसो माणससरवियंभियं देइ ललियपयमग्गं ।  
 तह किं वओ वराओ जाणइ चलणं पि उक्खणिउं ? ॥७८॥  
 जह वरहिणस्स लज्जइ विहुयकलावस्स महुरकेयरवो ।  
 तह वायसस्स कत्तो दियहं पि वणे सरंतस्स ? ॥७९॥  
 उप्पयइ गयणमग्गे, भंजइ कसिणत्तणं, पयासेइ ।  
 तह वि हु गोव्वरईडो न पावए भम(चरियाइं ॥८०॥  
 अविरयरयकेलिपसंगसोक्खसव्भावईसिक्कुंठइयं ।  
 माणनिसाणयनिसियं होइ पुणो अहिणवं पेम्मं ॥८१॥  
 निव्वत्तसुरय ! जं परमुहत्तणं सुहय ! सिक्खिओ कत्थ ? ।  
 अह सुणयाण पसंगे, अह सुणया तुह पसंगाओ ॥८२॥  
 पेच्छह पवरवहूण सुरए चलणाण जेरिसो मग्गो ।  
 नज्जइ वंभंडपडंतयस्स ओक्खंभणा दिन्ना ॥८३॥

तं किंपि कयं रइसंगमम्मि मिहुणेहिं चाडुपरिकम्मं ।  
 जं सरिऊण विरामे अन्नोन्नं लज्जिया हुंति ॥८४॥  
 तह तेहिं एक्कमेक्कं अवगूढं विरहदुव्वलंगेहिं ।  
 जह तत्तमयणधीउलिय व्व एक्कं व जायाइं ॥८५॥  
 अणवरयसलिलनिवडंतधारपहराहया विस्सरंति ।  
 दइहगइंदा, तुंगत्तणेण निलयं न पावेति ॥८६॥  
 जह मायंगा संगहसि विंझ! तह य जइ मयवई एक्को ।  
 जीवंतस्स न कीरइ वसच्छेओ पुलिंदेहिं ॥८७॥  
 ससहर हरिणट्टाणि जइ सीहसिलिवु धरंतु ।  
 ता दुक्करु तुह राहु ! जइ माणुम्मलण करंतु ॥८८॥  
 पालित्तय! कहसु फुडं सयलं महिमंडलं भमंतेण ।  
 दिट्ठो सुय व्व कत्थ व चंदणरससीयलो अग्गी ? ॥८९॥  
 अयसाभियोगसंतावियस्स पुरिसस्स सुद्धसीलस्स ।  
 होइ वसं तस्स फुड चंदणरससीयलो अग्गी ॥९०॥  
 सुयणो सुद्धसहावो मइलिज्जंतो वि दुज्जणजणेण ।  
 छारेण दप्पणो इव अहिययरं निम्मलो होइ ॥९१॥  
 जं उप्पलस्स पत्तेण छिज्जए किं थ सत्थमग्गेण ? ।  
 महुरम्मि भाणियव्वे कि ते कडुएण भणिएण ? ॥९२॥  
 अणुयत्तह, भणह पियं, जं कज्जं तं मुणेह हियएण ।  
 महुरं लवइ मयूरो सविसं च भुयंगमं खाइ ॥९३॥  
 जंपसि(?सु) मुणालसरिसं, जं कज्जं तं मुणेहि हियएण ।  
 महुरं लवइ मयूरो सविसं च भुयंगमं खाइ ॥९४॥  
 कज्जम्मि समावडिए अणुयत्तइ दुज्जणं पि दुस्सीलं ।  
 कीस न पिज्जइ निंवो सरीरसंरक्खणट्टाए ? ॥९५॥  
 जेण विणा न दलिज्जइ अणुणिज्जइ सो कयावराहो वि ।  
 पत्ते वि नयरदाहे भण कस्स न वल्लहो अग्गी ? ॥९६॥  
 सरिसे वि मणुयजम्मे डहइ खलो, सज्जणो सुहावेइ ।  
 लोहं चिय सन्नाहो रक्खइ जीयं, असी हरइ ॥९७॥  
 सरिसे वि जलणदाहे गंडं चुवंति कणयपत्ताइं ।  
 ओरूयइ नेउरं सामलीए चलणोवरि विलगं ॥९८॥



गरुयाइं चिय साहइ पुरिसो कज्जाइं, नत्थि संदेहो ।  
 रोसो सुरंगधूलि व्व जस्स न हु पायडो होइ ॥१९॥  
 सज्जणसलाहणिज्जे पयम्मि अप्पा न ठाविओ जेहिं ।  
 ते पुव्वपुरिसमाहप्पगव्विया कह न लज्जंति ? ॥१००॥  
 अणमिसनयणाए मए जं पीयं पिययमस्स लायन्नं ।  
 अंगाइं तेण पियसहिं! अज्ज अजिन्नेण मज्जंति ॥१०१॥  
 पसयच्छि! सो कयत्थो जस्स कए मन्नुगग्गरिज्जंता ।  
 पंचमसरपसरुग्गारगव्विभणा इंति नीसासा ॥१०२॥  
 ते धन्ना अन्नभुअंगमेहि पारद्धसुरयकालम्मि ।  
 जे पुण तुंग[?य]सुपओहरीण हियए खुडुक्कंति ॥१०३॥  
 जंपंतो अविहत्तविग्गहो(?) तं सुहय! अज्ज सच्चवियं ।  
 दंत-नहकखय सुंदर! तुह हियए मह खुडुक्कंति ॥१०४॥  
 उण्हाइं नीससंतो अवगूहसि कीस मं पराहुत्तं ? ।  
 हिययं पलीविउं चिय इण्हिं पिट्ठिं पलीवेसि ॥१०५॥  
 निज्जंतो कम्मपरव्वसाहिं अन्नन्नदंगतरुणीहिं ।  
 एस हि ओसहिविडवो अंगे छल्ली न पलहवइ ॥१०६॥  
 जो विसमम्मि वि कज्जे कज्जारंभं न मुच्चए धीरो ।  
 अहिसारिय व्व लच्छी निवडइ वच्छत्थले तस्स ॥१०७॥  
 रच्छाणुमग्गचडिओ नाऽऽलत्तो जं जणाण भीयाए ।  
 सो चेव विरहडाहो अज्ज वि हियए छमच्छमइ ॥१०८॥  
 विद्धो जियइ सुहेणं, मरइ अविद्धो तुहऽच्छिवाणेहिं ।  
 केणेयं सिक्खविया अउव्वमेयं धणुव्वेयं ? ॥१०९॥  
 दट्ठो वि दहइ अंगं निज्जीवो संखच्चुण्णो व्व ।  
 ता किं करेमि माए! निज्जियरंगस्स कामएवस्स ? ॥११०॥  
 सब्भाववाहिरेहिं वि तह कहवि पियवखरेहिं जंपंति ।  
 जह वंधव त्ति कलिउं लोए सीसेण बुब्भंति ॥१११॥  
 जलहिविसघडिण वि निवसिज्जइ हरसिरम्मि चंदेण ।  
 जत्थ गया तत्थ गया गुणिणो सीसेण बुब्भंति ॥११२॥  
 ठाणं गुणेहिं लब्भइ ता गुणगहणं अवस्स कायव्वं ।  
 हारो वि गुणविमुक्को न पावए तरुणिथणवट्ठं ॥११३॥

वरिसंति न मेहा गज्जिऊण, पहुणो न दिंति हसिऊण ।  
 न फलंति तरू जे फुल्लिऊण ते कह न लज्जंति ? ॥११४॥  
 साहीणामय-रयणो अमरमरोरं च भुअणमकुणंतो ।  
 उल्लसिरीहिं न लज्जसि लहरीहिं तरंगिणीनाह ! ॥११५॥  
 परएसगयाणुम्माहियाण जंतूण सोयतवियाणं ।  
 नियदेसागयदिट्ठं सुणयं पि सुहावहं होइ ॥११६॥  
 सव्वंगनिव्वुइयरो सो अन्नो सत्तमो रसो कोइ ।  
 आसाइज्जइ जो पढमपेम्मपियसंगमाहितो ॥११७॥  
 जं सत्येसु न सुव्वइ, अगोयरं जं महाकईणं पि ।  
 तं किंपि सुहं नवसंगमम्मि दइओ जणो देइ ॥११८॥  
 जो रुच्चइ सो लोणिया(?यो), वंभ ! किं नेहि विधेय ? ।  
 छड्ढिवि सक्करगुलियरस, मट्टी खंति अणेय ॥११९॥  
 जाहं न अत्थी गुज्झिरसु, रूवु महदहि जाउ ।  
 खंतउ महुइ दारूणहं, कंत! लहेसहि साउ ॥१२०॥  
 विरसाइं जाइ पमुहे, अमयरसायंति जाइं परिणामे ।  
 कज्जाइं ताइं सुविचारियाइं न जणे हसिज्जंति ॥१२१॥  
 जंपसि मुणालसरिसं, हियए सारंगसिगकुडिलो सि ।  
 आपण(?ण)सुहयसरलत्तणेण परवंदणिज्जो सि ॥१२२॥  
 जम्मि तुमं अइनेहा सो वि तुमं मंदनेहओ पुत्ति! ।  
 न हु ताला वज्जइ दीहरऽच्छि! एक्केण हत्थेण ॥१२३॥  
 जत्थगओ तत्थगओ सामलि! सीहो न जुय(?ज्ज)इ दलम्मि ।  
 सप्पुरिसो वि तह च्चिय, फुसि नयणा, किं थ रुन्नेण ? ॥१२४॥  
 नाऊण वि विन्नाणं काऊण वि समरसाहसं कम्मं ।  
 लंघेऊण वि मेरुं पुण्णेहि विणा सुहं कत्तो ? ॥१२५॥  
 अ(थ)क्के भणियं सोहइ, थक्के भणियं सुहावहं होइ ।  
 अत्थक्के पुण भणियं कय पि कज्जं विणासेइ ॥१२६॥  
 जह मूसयस्स एक्केण वीहिणा दो वि वावडा हत्था ।  
 तह अमुणियकल्लाणा थेवेण वि उत्तुणा हुंति ॥१२७॥  
 गुणजाणए च्चिय जणे हुति गुणा पायडा महग्घा य ।  
 मणिरयणाइ वि गो' . . . . . ॥१२८॥

१. इतोऽप्रेतानि पत्राणि विनष्टानि, अतोऽपूर्वोऽय गाथासङ्ग्रहः ॥

## सुभासियपज्जसंगहो

किं भणिमो नवजुवईण ताण सव्वंगचंगिमसुहस्स ।  
 दिट्ठीतिभायफंसे वि जाणममयं पि हु न क्किपि ॥१॥  
 गयनेवच्छा वच्छे ! अइदुसहा तं सि तरुणनयणाण ।  
 वम्महकरसंगहिया निप्पडियार व्व खग्गलया ॥२॥  
 दिट्ठीए तस्स ससहरकरसलिलज्झलज्जलासलोणाए ।  
 वाला ससिमणिधीउल्लिय व्व सेउल्लिया जाया ॥३॥  
 नवसंगरंगनट्टावणण नच्चाविया तहा अहयं ।  
 मामि ! महं चिय हिययं न विम्हयं जेण पम्हुसइ ॥४॥  
 अमयमओ वि हु दाहं जणेइ, संजीवणो वि मोहेइ ।  
 मउओ वि विंधइ मणं, दिट्ठिच्छोहो मयच्छीणं ॥५॥  
 अइवंकदीहरा जणमणाइं मोहंति कुलवहुकडक्खा ।  
 अणिवरिसिय(अणिवारिय)विसमविसा रोसारुणकसिणभुयग व्व ॥६॥  
 अन्नेसिं सोहग्गं न सहंति, न दिति कइवि य सुहच्छि ।  
 जीयं हरंति विरहे अहो ! गुणा दुज्जगा तीए ॥७॥  
 कुप्पंति वल्लहत्थे अपहुप्पंतस्स निययअंगस्स ।  
 अन्नपहुप्पंतस्स य पुणो अस्यंति मिहुणाइं ॥८॥  
 अट्टाणट्टनिलयणं विसमियसयणं खलंतमिउवयणं ।  
 वारत्तनिमियनयणं पच्छन्नरयं कइं सुहयं ? ॥९॥  
 वल्लहजणस्स दुक्खे निसुए विरहम्मि जायए सुक्खं ।  
 सुक्खम्मि पुणो दुक्खं पिम्मस्स गई अहो ! विसमा ॥१०॥  
 जस्संतरावयासो गउरवदक्खिन्नदुज्जणजणाण ।  
 तं पि हु पेम्मं ति भणंतयाण जीहा वि लज्जेइ ॥११॥  
 तं सुयणा जं वसिया सि तक्खण च्चेय तस्स हिययम्मि ।  
 सो दुज्जणो उण न जो अज्ज वि निवसेइ तुह हियए ॥१२॥  
 मं परिचियं पि उज्झिय दुल्लहलंभे जणम्मि संकंत ! ।  
 हा ! हियय ! हीणसाहस ! लहसि तुमं दुक्खलक्खाइं ॥१३॥  
 वल्लहसयवासयमंदिरेसु संझभसरिसराएसु ।  
 पुरिसहियएसु पेम्मावंधो को नाम वामनयणाणं ? ॥१४॥

अवराहो वि हु वल्लहजणस्स परमं पमोयमप्पेइ ।  
 अहियं हरेइ हियय धूमो वि हु सुरहिवत्थुणं ॥१५॥  
 जग्गिरसोहग्गाणं अविणयवाणी वि वरिसए हरिसं ।  
 सुहडनिवकायरो वि हु किं न हु जयमज्जइ जयम्मि ? ॥१६॥  
 सो अत्थो जो हत्थे, तं मित्तं जं निरंतरं वसणे ।  
 तं रूवं जत्थ गुणा, त विन्नाणं जहिं धम्मो ॥१७॥  
 सो सुहओ परमप्पुव्वल्लि( ? प्पुव्विल्ल)निहाणं व नट्टसल्लं व ।  
 आसन्नो वि हु विहिओ हयविहि! कह नाम मह दूरे ? ॥१८॥  
 दूरट्ठिओ वि सु च्चिय मह हियए जलहरो व्व सरसीए ।  
 से व्व ण नलिणीव णवण(?) गएहि किं नाम अन्नेहिं ? ॥१९॥  
 कुविण्ण कयंतेणं, परिवारे वारियम्मि वि(? निसि)समये ।  
 कुलवालियाए लज्जा महल्लिया सहयरी होइ ॥२०॥  
 अइमुद्धमउयचवलो वलंतनयणाइ तीए जंतीए ।  
 दिट्ठिच्छोहो सविसेसदूसहो वालभुयगो व्व ॥२१॥  
 सच्चं रई चिय इमा जमिमीइ ममं मेणं पि गयनयणं ।  
 पहरेइ सो हयासो विसमेहिं सरेहि कुसुमसरो ॥२२॥  
 कोदंडकौसलेणं सो अज्ज वि लज्जिरो च्चिय अणंगो ।  
 जं किर लक्खं भुयणाइं तिन्नि, वाणा पुणो पंच ॥२३॥  
 अमयरससारमुल्लंचिऊण चंदाओ तुह मुहं विहियं ।  
 तस्स तलं जेण जणो सुयणु! कलंको त्ति कित्तेइ ॥२४॥  
 आयन्नाण गुणाणं रणरणओ, सुमरणम्मि दाहजरो ।  
 दिट्ठे हल्लप्फलओ, मिलियम्मि पियम्मि किंपि सुहं ॥२५॥  
 दिट्ठं सिणिद्धनयणं वयणं विणओवरोहसोहिल्लं ।  
 करकमलकेसबंधो य हरइ धीरं हियार्हितो ॥२६॥  
 एसो अलद्धदुल्लहकामो वामेयरो करो फुरिओ ।  
 दाहिणनयणकयत्थस्स तुज्झ कह नाम वामत्तं ? ॥२७॥  
 रूवं नयणाण गुणा मणस्स अवलोयणाइं चरणाणं ।  
 आलवणं सव्वंगस्स बंधणं तस्स किं भणिमो ? ॥२८॥

'सुमरिज्जसु' त्ति पिम्मस्स वाहिरं, 'मह सुहे'ति न वडेइ ।  
 'मा खिज्जसु' त्ति अणुहवविरुद्धमिह किं भणामि अहं ? ॥२९॥  
 नयणाण वंधणं मणविआरणं वेयणाइ सम्मोहो ।  
 अन्नाण दसणिज्जाण दुज्जणो तीय ख्वसिरी ॥३०॥  
 अमयमयवयणमविरामरमियमवियारवज्जरियकज्जं ।  
 जयइ पहुत्तं बालत्तणं व पेम्म च लोयम्मि ॥३१॥  
 गंगासणेण विणा वि जलनिही होइ जलनिहि व्व [? स]या ।  
 गंगा उण तेण विणा भण कत्थ खणं पि वीसमउ ? ॥३२॥  
 धरिणी लच्छि व्व महानिहि व्व अमयं व पुन्नमुत्ति व्व ।  
 जत्थऽत्थि धरं त चिय, अन्नं रन्नं ति मन्नंति ॥३३॥  
 ताओ गुणाण खाणी महिमडलमंडणं सुमहिलाओ ।  
 दोसा वि जत्थ निहिया गुणरूवेणं परिणमंति ॥३४॥  
 ताण कुलवालियाणं न लहइ सच्चं सहावमहिमाणं ।  
 जाण पडिवक्खवडिया दोसा वि मणं न दूमिंति ॥३५॥  
 ताण नमो समणीणं आजम्मं चरियवंभवेराणं ।  
 पिम्मनडकवडनाडयविडंवणा जाण न खणं पि ॥३६॥  
 तीए तिजयं पि कीरउ निउंछणं पिच्छुलुच्छुजट्टीए ।  
 छित्ता वि पीलिया वि हु जा न हु महुरत्तणं सुअइ ॥३७॥  
 महिला पसायगहिला सयंपभा होइ, न उण सप्पुरिसो ।  
 ससिणा विणा वि रयणी हवड, न दिवसो विणा रविणा ॥३८॥  
 मन्नामि मामि ! कि वा मज्झ कए तुज्झ दुक्करं अन्नं ? ।  
 सुहयस्स तस्स(? मज्झ) जं किर अप्पा वि समप्पिओ तुमए ॥३९॥  
 तं दच्छंति सहरिसं कयावराहं अहं ति सविलक्खं ।  
 पुणरवि चरणं दिस रोस मामि! नलमाणसं तइया (?) ॥४०॥  
 तण्हाए(?) तरलनयणो परिस्समे, अंचलम्मि वलहत्थो ।  
 दुक्खे सत्तो, धम्मम्मि विम्मिओ, तुह सुहे सुहिओ ॥४१॥  
 जूयं धणाण, वसणं गुणाण, पडिपत्थणोवयाराण ।  
 वत्थुवियारो पिम्माण माणमुम्मूलइ समूलं ॥४२॥  
 लज्जा कुलमज्जाया दुन्नि कवाडाई जेहिं भग्गाई ।  
 हियएसु तेसु सहस त्ति दुक्खमक्खलियमल्लियइ ॥४३॥

पिम्मस्स पोढमहिलाजणस्स विहवस्स वारिवाहस्स ।  
 परमप्पणो मणस्स य मुणंति मुणिणो विणयख्वं ॥४४॥  
 तित्थाण सुपुरिसाणं मणीण संताणमोसहीणं च ।  
 महिमा महासईणं च कालकलुसस्स दूरेणं ॥४५॥  
 नयरं महूसवमयं, तुच्छा लच्छी, मणं महारंभं ।  
 विहिनिहियं मह हियए तिसल्लयं सल्लए एयं ॥४६॥  
 वित्तविवाहं च गिहं, पयपब्भट्टो य नरवइनिओई ।  
 गयजोव्वणा य महिला न पुव्वसोहं पि हु लहंति ॥४७॥  
 विहवंगणाण गब्भो, निद्धणवंगणा दाणवसणाइं ।  
 ज च खवणाण कुच्चं तं अमयल्लं हलाहलयं ॥४८॥  
 अइक्किविणो चेय तुमं जं इक्कम्मि वि गुणम्मि घिप्पंते ।  
 अप्परिमाणगुणो वि हु वहसि मुहमहोमुहं नाह ! ॥४९॥  
 न हु तुह गुणे गहिस्सं[ ? ] दुण्ह पि जाण गहणम्मि ।  
 तुह गहणासहणेणं मह उण अइमुच्छगहणेणं ॥५०॥  
 समरतिमिरम्मि सहलं दूयं पिव पेसिऊण पत्तवहं ।  
 अहिसारइ रिउलच्छि महल्लिया जस्स चावलया ॥५१॥  
 तइं गिण्हिय चावलए रिऊण लच्छी ति गहियचावलया ।  
 रत्ता तुमम्मि नरवइ ! दरिसइ सरिसत्तणं नूणं ॥५२॥  
 उन्नमिऊण नहयले जलहर ! तुह गज्जिय पि लज्जेइ ।  
 वज्जेण दहिउममएण सिंचिउं वयसि ज भुयणं ॥५३॥  
 जइ विहवीण विणीयं दिट्ठिपहे कहवि वच्चइ अवच्चं ।  
 ता अमय-चंद-चंदिम-चंदणपंकेहिं न हु किपि ॥५४॥  
 मन्नंति दुहं पि सुहं महिलाओ अवच्चनेहगहिलाओ ।  
 परवाललालणं पि हु ज किर वझाओ ज्ञायति ॥५५॥  
 धन्नाओ ताओ कुलवालियाओ निम्महियमोहमहिमाओ ।  
 दिट्ठ न वियडभिउडीपुडकियं जाहि परवयण ॥५६॥  
 सुत्तु मालइपमुहं कुसुमसमूहं महूसवदिणेसु ।  
 एक्क चिय गिज्जइ वालियाहिं नोमालियाकुसुमं ॥५७॥  
 सुहडनरिंदपयावो सुमंतजावो पसूणसरचावो ।  
 तह य महासइसावो मा कयमव्वो ! नियत्तेइ ॥५८॥

निच्चं वरिससु दाणं, कुणेसु गमणं मणोहरगईए ।  
 दंससु दसणे चवले! जइ सि सुहत्थी मं भदे ! ॥५९॥  
 वेरीणं मरणसयं, वंधूण मणोरहो, सुहं हलिणो ।  
 गोवीण वल्लहरसो, कण्हेण सम विवद्धंति ॥६०॥  
 पोऊसप्पमुहाण वि सुयणो दिप्पेवि देइ दोहग्गं ।  
 रुद्धो(?ट्टो) वि दुज्जणो उण दहणाईणं पि सोहग्गं ॥६१॥  
 महिमं महासईणं किं भणिमो जाण पाणिमाहप्पा ।  
 आरंभो मोक्खफलो जायड, लच्छी वि कामदुहा ॥६२॥  
 उवजुज्जंति क्या वि हु न हि जे पत्तेसु कइ वि पत्तेसु ।  
 चंडालकूवजलसच्छहेहि किं तेहि विहवेहि ? ॥६२॥  
 विहलियसाहारत्तं किं भणिमो ताण दुज्जणजणाणं ।  
 दुहिय-सुहिएहिं मुक्के सुह-दुक्खे जेसु अल्लीणे ॥६३॥  
 दाणं दीणुद्धरणं आगमसवणं सुतित्थजत्ता य ।  
 पवयणभत्ती अ मणुस्सजम्मतरुणो फलसमिद्धी ॥६४॥  
 किं तेणावि घडिज्जइ जो न हु सव्भावरसनिसित्तो वि ।  
 पुरिसो य पुहइपिंडो व भिज्जिओ अप्पमप्पेइ ॥६५॥  
 वियलियधणाण दाणं, जरजज्जरजुव्वणाण परिणयणं ।  
 मरणसरणाण धम्मो, किसिकम्मं सरयसमयम्मि ॥६६॥  
 अवियलि[य]मप्पणु च्चिय सयलाओ सुहं महंति महिलाओ ।  
 नियपइणो च्चिय सुहमहिलसंति जा ताओ पुण विरला ॥६७॥  
 जे वरिसंते वि चिरं पुक्खलमेहे गुरुस्स अमियरसं ।  
 भिज्जंति किंपि न हु मुग्गसेलसीलाण ताण नमो ॥६८॥  
 जइ सजलमेहलेहाए पाठसो, माहवीए महुम्मओ ।  
 तइ लइ सिरिं पुरिसो गुणवणधरणीए धरिणीए ॥६९॥  
 पिम्मं त च्चिय जायंति जत्थ दोसा वि नणु गुण च्चेय ।  
 सिद्धरसो सो किर जत्थ हुंति लोहाइं वि सुवन्नं ॥७०॥  
 ते के वि कमलिणीए वि हवंति संतावदीहरा दियहा ।  
 मित्तो वि जेसु सह जीवणेण जीयं पि संहरइ ॥७१॥  
 सुपुरिसभरियाए वि निहि(?ट्टि)याए वंभंडभंडसालाए ।  
 संपइ पुरिसा कमसो अवयरमियरु व्व उव्वरिया (?) ॥७२॥

विरहेणं चिय पियसंगमाण सोहग्गमहियमुल्लसइ ।  
 गिम्हेणं चिय सीयलजलाण महमहइ भाहप्यं ॥७४॥  
 दप्पो गुणाण, निदा सुयाण, वसणं गुरूवएसाण ।  
 पणसुंदरी धणाणं, लोहो सुक्खाण खयवाही ॥७५॥  
 पूनंता देसंतरेहि सुहु सामुहउं हसेइ ।  
 पुन्नहीणु पुणु नियघरह भित्तिरि भुवख भयेइ ॥७६॥  
 वद्धा गाढं, गूढं च धारिया, निहणिया य खड्डाए ।  
 खंडीकया य किविणेण कह व न वि मोचिया लच्छी ॥७७॥  
 ईसा-विसाय-भय-कोह-[लोह-]अन्नाण-माण-मयणेहि ।  
 ससारनाडयनडा नच्चाविज्जंति जंतुगणा ॥७८॥  
 अन्नायगुणविसेसम्मि सामिए किं कुणंति गुणवंता ? ।  
 पुत्ति ! न मुत्तियमग्घइ गुंजाहरणे पुल्लिदम्मि ॥७९॥  
 किं दुल्लहमुवएसो, किं दूरे ? जं मणस्स उव्विद्धं ।  
 किं रम्मं ? जत्थ रई, किमुव्वसं ? जत्थ न हु सुयणो ॥८०॥  
 गाणं कंठपमाणं, माणं पिम्माणुमाणमिह सुहयं ।  
 जाणं आसणनाणं(?), दाणं नियविभवपरिमाणं ॥८१॥  
 ताव हु सीलं लज्जा गुरूवएसा वसंति हिययम्मि ।  
 लोयस्स ए ण जग्गइ जठरग्गिपलीवणं जाव ॥८२॥  
 ससिणेहदेहदहणे किं भणिमो तस्स विरहदहणस्स ? ।  
 जस्स पडियारकरणे वि आनलो चंदणरसो व्व ॥८३॥  
 चंदमुहि ! अमयवयणे ! नीलुप्पलनयणि ! रंभखंभोरु ! ।  
 विरहविहियम्मि हियए निहिया वि हु कह णु तं तवसि ? ॥८४॥  
 विणएहि गुणेहिंतो वि नूण तं चेव ससिमुहि ! महग्घा ।  
 जं ते वि तए गहिया अमयं विसं व पुण्णरहिया (?) ॥८५॥  
 अहह ! मह मणुयजम्मो मुसिओ मूढस्स विसयचोरेहि ।  
 अंधस्स व वणिणो खज्जमावणा डिंभरूएहि ॥८६॥



जा कुडिलनीयगमणा तं जालयं पि मुत्तुमोसरइ (?) ।  
 सा तुमए मइपरिहीण ! मीण ! सरिया कहं मरिया (?) ॥८७॥  
 वेहव्वनिच्चदुक्खं व वीयघरिणित्तणं व दहिऊण ।  
 संपइ पइम्मि विहिए व्हामि सोयं पमोयं वा ॥८८॥  
 ईसरसरियत्तो वि हु तुह महणिज्जो वि प(?) अ)मयमोत्ती वि ।  
 पुन्नत्तणं न पावइ ससी जडासंगदोसेण ॥८९॥  
 अहह ! विहिणो पउत्तं जं सयमवि निम्मियम्मि कम्मम्मि ।  
 चिद्धंतु समोवाया दुलहं(वल्लह)परिदेवियव्वम्मि ॥९०॥  
 जे निव्वासविया वि हु खणंति दूरे कया दहंति जणं ।  
 तेसु विसएसु राहव ! नाह ! वणं जुज्जइ बुहाणं ॥९१॥

---

## गाहारयणकोसगादासूची

अंगे पुल्य अहरं ६७७  
 अंधोअणय सुहकखिरीए ३३८  
 अजलि । धु अयाण [पृ० ६४ टि०]  
 अंतो पलिप्पमाणो ६६३  
 अतोविप्फुरियकलक ५६८  
 अंधारिऊण वयण दीह १५४  
 अवयफल सुपवक २३४  
 अइ कोमलं ति न रमइ, ६२१  
 अइगरुयमहावसुवभवाण ७९७  
 अइचपियं विणस्सइ २९  
 अइरत्तया वि गुणिणो ५५४  
 अइलज्जियमइभीय ७०६  
 अइवल्लह पि न उ सरइ ४१८  
 अइवल्लहेसु कोवो ७९६  
 अइवियसिया कुणती ६१४  
 अइसीयलकरपसरो १२६  
 अइसुरहिंसासपरिभमिर-३०४  
 अक्यव्वधो न सोहइ १५०  
 अकूलीणो दोमुहओ १०८  
 अक्खब्धिमुहराया २५८  
 अग्गमहिंसीओ आया २१८  
 अघडियपरावलंबा १७३  
 अच्चतत्तवियदोसो ६८९  
 अच्छउ का वि अपुठ्वा १४४  
 अच्छउ ता अन्नजणो ६७५  
 अच्छीइ चिय तं पेच्छिराइ ४९५  
 अच्छीहिं पई, सिहणेहिं देवरो २७१  
 अज्ज पि ताव एक्कं ५०९  
 अज्ज मए तेण विणा ५०४  
 अज्ज वि त सरइ गओ ७५२  
 अज्ज वि विहुरम्मि पइ १७१  
 अणवरयबहुलरोमचकंचुयं २३  
 अणुयसह भणह पिय २३८  
 अणुराउ चिय दइउ(?) या)सु ३४३  
 अणुराओ जस्स जहिं ३८५

अणुरायततुआयद्धिदयाइं ३६९  
 अणुरायपर पुरिस ४३५  
 अण्णणं कुसुमरस जं ६३०  
 अण्ण(ण्ण) च्चि(चि)य (?) ३०१  
 अण्णणततुलयासुरहि-६८४  
 अत्ताणगलकयपत्त-५९६  
 अत्थइरि ! सहइ तुह चैय ७३३  
 अत्थत्थेप(?) च्छेए)ण मुहाइ २८८  
 अत्थमणं पहरपरव्वसाण ५३२  
 अत्थमणे छडिज्जइ ८१२  
 अत्थमिए जगदीवे ५२७  
 अत्थायतो वि हु अत्थ ५२१  
 अत्थि(?) सति) असखा सखा ८९  
 अत्थिज्जइ निन्नेहं ७०१  
 अथिरा वि थिरा लच्छी २०९  
 अहंसणेण अहंसणेण ४३०  
 अहंसणेण बालय ! ४३१  
 अद्धक्खरभणियाइ २८  
 अद्धत्थमिए सरे ५३४  
 अद्धिदुब्धिदु(?) व)सरिस ३११  
 अन्नं त सयचलिय ४२५  
 अन्न रमइ निरिक्खइ [पृ० ६४]  
 अन्नत्थ पेसिएण वि ३८९  
 अन्नत्थ वच्च बालय ! ७०३  
 अन्नमहिलापसंग ४८५  
 अन्नाऽऽसत्ते हे पुत्ति । ४२७  
 अन्नेहिं वि क्वज्जेहिं ६३६  
 अन्नोन्नरायरसिय २८३  
 अप्पाण चिय दुभरं १६३  
 अप्पाण लाहवं चिय ४८६  
 अप्पायत्त सपयमवणेइ १४२  
 अप्फोडियगुरुयपम- ७६३  
 अब्भतिथया वि वक्का ८००  
 अभणंताण वि नज्जइ ७७  
 अमएकनिहीणं तरइ ३२०

अमयमइया वि बाला ३६२  
 अमरसिरोवरि ठाणं ७६७  
 अमुणियपयारिहरिसक-२७७  
 अमुणियविसेसपसरंत- ३३०  
 अरिकाभिणीण कुकुम-२२५  
 अरिकुंभिकुभनिव्मेय-२२२  
 अलिकुललयकज्जल-२२३  
 अलियकुविय पि क्यमंतुओ ४८०  
 अवर्णितो संताव हेमतो ६७०  
 अवरगुणेण आणं २५४  
 अवरज्झसु वीसत्थ ४७३  
 अवराहसहस्ताइं ४७१  
 अवरेहिं वि ज सिज्झइ २४६  
 अवलंबियं तणाई २५२  
 अवियण्हपिच्छणिज्ज ३३४  
 अवियारिरुण कज्ज २५३  
 अविरयमहुपाणपरव्वस-६२७  
 अविरयरयकेलिपसंग-४४१  
 असतीण नमो ताणं ६९७  
 अह मणहरचंदमुही ६५८  
 अहरच्छेण दिन्ना ३०५  
 अहलो पत्तावरिओ ७२४  
 अहिणवपेमसमागम-२७५  
 अहिणि व्व कुडिलगमणे ! २८४  
 अहियमहियं कलाओ ७९०  
 आयंपंतकवोलं ४५५  
 आलाव हास-परिरंभणाइं ४२९  
 आलौयमत्तवियसत-६०३  
 आवायमेत्तगरुएहिं ४१६  
 आसंसारं कइपुंगवेहिं १६  
 आसन्नसगमासाए ५३९  
 आमन्नमिसिरमयकायरेहिं ६६१  
 आमामिज्जइ चको ५३८  
 आमुधिऊण अइ ए ! ६९२  
 इपत्तो रुयइ पिया अण्णत्तो १७०  
 इच्छति न नेहलवं ७२  
 इत्थान्नि किय (१) सुगइ ५९३

इण्हि पहुणो पहुणो पहुत्तण १४१  
 इत्तो रुहिरं इह मोत्तियाइ ७३५  
 इण्हि वारेइ जणो तइया ४१४  
 इय अम्ह निसासेसे ५८३  
 इयरो गामतलाओ ३७  
 इह परलोअभवाणं ८२८  
 इहलौयभवाण पि हु ८३१  
 इह वस-भास इह ७३८  
 ईसा-मच्छररहिंएहिं ३६३  
 ईसि पि न लक्खिज्जइ ८५  
 उक्कीरिउ मयंक ३१२  
 उज्जगिगरस्स तणु[?] य]त्तणस्स ४५४  
 उज्जाण व सतिल्य ४५९  
 उज्जाण(णे) वियसियजाइ- ६१७  
 उदये पत्ते दोसायरो ५८९  
 उद्दामपियालवणो २०८  
 उद्धल्लय छायाविवज्जिय ३५०  
 उन्नयसिहो वि दीवो ११९  
 उन्हो त्ति समत्थिज्जइ ६७६  
 उप्पज्जति चयंति य ५८  
 उप्पज्जंति तहिं चिय १५८  
 उम्मूलेइ नौपवणो १८३  
 उय ऊडभुवणभारो वि ५४  
 उयह नहं मज्झगएक्क- ६६७  
 उयह महीहरच्छग-७६१  
 उयहिं-वडवानलाण ५१  
 उवयरिएसु वि केसु वि २४७  
 उवरिनिवेनियण्णिणी-६६५  
 उव्वहइ अत्थसेलो ५२६  
 उव्वहइ नवतणकुर- ७२८  
 उव्वहइ क्किस गव्वं १९१  
 ऊहइ सो को वि कया ७९१  
 एइए [?] अहरहयाणि ३०६  
 एक्कं चिय सल्लिज्जइ ३७३  
 एकत्तो कमलवण ३४४  
 एकत्तस मलयगिरिणी ७३१  
 एक्का अनावस च्चिय ३४१

एककाए नवरि नेहो ३८१  
 एककेण वि सवधेण ५१३  
 एकको च्चिय उययगिरी ७२५  
 एकको च्चिय दुव्विसहो ६८०  
 एकको वि कालसारो २५८  
 एकको वि पएसो अवयवाण ३१६  
 एत्थ ठिया, इह रमिया, ५१०  
 'एहिसि तुम' ति निमिसं ३९८  
 ओ ! गरुयपयावो वि हु ६५३  
 ओ ! जोइमगपरिगय-६४८  
 ओ ! रायवल्लह पि हु ५८०  
 ओलग्गिओऽसि धम्मऽम्ह १३९  
 कइणो जयतु ते अलहिणो २४  
 कइयवरहिय पिम्मं ४११  
 ककेल्लिपल्लवोव्वेल्ल-७५७  
 कज्ज फल व सरस २३५  
 कडुय पि नागर च्चिय २४१  
 कत्तो वच्चसि ? निक्खि व ! ४६५  
 कमलानिलओ वि तुम २०७  
 कमलायराण उण्हो ६७४  
 कमलो(१ लं) च्चि(१ चि)य वहउ सिरिं ५९९  
 कमलोयरपरिवसियाइ ५९०  
 कयकळिणकोसपाणा २८२  
 करचरण-नयण-वयणेहि ५९८  
 करसंबध काऽण ६०६  
 करिक्कुभदलणससत्त-२२९  
 करिणो हरिनहरविदारियस्स १५५  
 कलहंताण वि न हु निग्गयाइ ८३  
 कलहे मिहुणाणमहो ! ४३४  
 कलिए ! कलिया सि तुम ६२८  
 कलिओग्गमे वि य तुमं ६२६  
 कलिकालकवल्लनोव्वरिय-८६  
 कसणा घणाण माला ६४५  
 कसिणं काऽण मुह १५२  
 कसिणे वि जले कण्हस्स ५७  
 कस्स न सद्धा गरुयत्तणस्स ६७१

कस्स व न होइ रोसो ७०७  
 कस्स वि गुणवुद्धि च्चिय ७८९  
 कह त न वंदणिज्ज ७१०  
 कह नाम तीए त तह ८१६  
 कह नाम सहिज्जइ कायरेण १८०  
 कह सो लहु ति भजइ ५४१  
 काला कप्पा वि गया ४००  
 का समसोसी वडवानटेण ५०  
 का समसीसी सह पकएण ५७६  
 किं इत्तिएण गयणगणस्स ९५  
 किं कमलमिण ? न हु त ४६१  
 किं चोज्ज ठाणवसेण २४३  
 किं(१ ज) ज पि भुवणकुहरे ८३.२  
 किं नाह ! इम जुत्त २१२  
 किं पि पर्यं अहिरुद्धो २४५  
 किं वसेण गुणेण य ? १५१  
 किं वाऽऽगएहि किं वा ७३४  
 किं वासरेहि किं वा ८२५  
 किं सच्च च्चिय अहरो ३२८  
 किसिओ सि कीस केसव ! ५५  
 कीरइ पड्विवक्खस्स य ६६२  
 कीरति जाइ जोव्वणवसेण ८०२  
 कुलमुद्धरति एगे १७९  
 केसररयविच्छेओ ६३३  
 कोडिं दिता वि नमति १२९  
 को त ? पिए ! पईवो ४८१  
 खड्डिज्जइ विहिणा ससहरो ८०५  
 खग्गम्मि निवासो जयसिरीए १७७  
 खज्जंति एस ति न भजिऽण ८४  
 खज्जोयलौयणुम्मौलणेण ६४२  
 खत्थो वि सया दोसायरो ५६४  
 खरनहरपहरनिहलिय-७४२  
 खलसगे परिचत्ते १११  
 गयणच्छिणो गलतस्स ६६६  
 गयणतलाए अइनिम्मलस्स ५६१  
 गयणमहासरसियपुंडरीय- ५५५

गरुयाई चिय साहइ २३९  
 गरुयायति अणेगे २५१  
 गहिरुण च्यमंजरि ६८१  
 गाढालिंगणरहसोज्जयम्मि ४४३  
 गाहाण रयणकोस ८३७  
 गिम्हम्मि कलिजुगम्मि व ६९५  
 गिम्हावरमज्झन्हे ६९१  
 गिम्हे महइहाणं ६९०  
 गिरिसिहरसठिएण ६४७  
 गुणगरुयाण वि घणवज्जियाण १२३  
 गुणलेसो वि [ ? य ] न सुयण ! १०५  
 गुणसणेण वि गुरुआ ७७७  
 गुरुआ वि जेसु मढहा ९९  
 गुरुघणपाउसनवसिरि- ६४०  
 गुरुविरहसधि-विग्गह- ७१६  
 घट्टं सहाववंक ६४४  
 घट्टं पुणो न तीरइ ४३८  
 घरसिरपसुत्तकामिणि- ७१  
 चगतं दिव्ववसेण ३४८  
 चत्तुपुडछिन्ननवनलिणि-५४०  
 चंदण-पक्यहारं ४८७  
 चदमयदवियारिय-५५३  
 चदुच्चतावयंस ५५७  
 चंदो वि जाण दासो ३४६  
 चइइ नमंताण गुणो ७७८  
 चावगुणाणं दुण्ह ७९  
 चावाण नवरि एकाण १३१  
 चित्तमंदरमघाणमंथिए २२  
 चिकणचिक्खल्लचहुट्ट-७६६  
 चित्तुत्तिन्नो वि तुलागळो १७७  
 छंद अयाणमाणोहि २७  
 छाइलो पियइ तम ७३  
 छायारहियस्स निरासयस्स ७१२  
 छिन्नाण सोमियाण य ९०  
 जइ षट्ठय वानिम्महिओ २२  
 जइ सोत्तिनो वि दज्जय- ३१९

जइ न झुलुक्किज्जंतो ३७६  
 जइ भुज्जाएइ मही ४७२  
 जइया पुणो न दीसइ ४४२  
 जइ लब्भइ भवयारिं ७६९  
 जइ सा सहीहिं भणिआ २६८  
 जइ सासुयाए भणिया २६७  
 जइ सो न एइ मह मदिरम्मि ४०२  
 ज अन्थीहिं न पिउजइ ४७  
 ज किर उल्लसइ दंढं ३४९  
 जं ज ते न सुहायइ ४६७  
 जं नम्मयाए विहिओ ३५३  
 जं पि य [ ? पिय ]मगलवासणाए ४९९  
 जइसंसंगुल्लसिओ १३७  
 जतथ अनीइपराइं ६८  
 जतथ उच्छफलहभूमि(?) मिअ ) ६७  
 जतथ न दूरालोयण-४१३  
 जतथ मणिभवणमितीसु ६६  
 जतथ लहिरुण उदय ६५४  
 जतथ ससिकंतकविसीसय ६२  
 जलजायजायवाहण-२७८  
 जलण जलं च अमियं ३५  
 जलणपवेसो चामीयरस्स ८०६  
 जलनिहिमुक्केण वि कुत्थुहेण ५९  
 जलहर ! वरिसिहिसि तुम ६५७  
 जलहिजलसमालंबिय-५३५  
 जलहिविसंघडिएण वि ५५६  
 जस्स असिभिण्णअरि करि-२२६  
 जस्स करवालदडेण २३१  
 जस्स करे करवालो २२४  
 जस्स यः समरे अरि कुभि-२२१  
 जह कणय तह परिमाण-१०१  
 जह जह उगगइ ससी ५६२  
 जह जह पावंति पयं १४६  
 जह जह सरियाओ जलं ४२  
 जह पडमदिणे तह पच्छिमम्मि २६३  
 जह लउहत्तं जह सा २८५

जह सरसै तह सुकै ७३२  
 जाइकलिय न इच्छसि ७०८  
 जाए माणपसरे ४२४  
 जाओऽसि वदणिज्जो ५४६  
 जा न चलइ ता अमय ४२१  
 जाया रयणम्मि गइं ५४२  
 जाहे च्चिय तं चलणे २१७  
 जिम जलो जलमांहिली [ पृ ६४ टि० ]  
 'जियड'त्ति पयसणाह ३९५  
 जीय पि जस्स दिज्जइ ८३०  
 जीयव्व जेण विणा ४९०  
 जीयासुजिनभक्तिकीर्तिविजया (प्रतिलेखकप्रशस्तौ)  
 जुत्तं किज्जइ माणो ४५८  
 जे केइ पहू महिमडलम्मि १४०  
 जे जे गुणिणो जे जे १६०  
 जेण निओ परिचुद्धि ७२३  
 जे नामति न सीस [ पृ. ६४ टि० ]  
 जेहि दइयं न नाय ५०१  
 जो इदचावनिग्गय- ६५१  
 जो कहवि सहीहि मह ४४७  
 जो तीए अहरराओ ४०४  
 जो दोसेसु निसम्मइ ४१५  
 जोन्हाजलोहवोए ५७१  
 जोव्वणभरेण अह मडणेण २६४  
 जो अहइ समरमज्जे १३६  
 ज्ञपेइ तुरियतुरियं ६८८  
 ठाणब्भट्टेण वि चदणेण ७१९  
 छिभाण न सो कुप्पइ ७६४  
 णदियकुमुओ जोन्हा-६६०  
 तइय च्चिय पम्मुक्का ७१८  
 तइयऽच्छिसिहिसिहाभासुरेण-३१७  
 तइया मह गढत्थल-४७७  
 तइ सुहय ! अदीसते  
 त क पि पएस पंकयस्स ६३५  
 तं किं पि तवलखड ७९२  
 तं जीहाए विलग ७५९

तं धवलत्त सो को वि ७९५  
 त नत्थि जे न कोरइ ७७६  
 तं नत्थि ज न सिज्जाइ १७२  
 तं नमह जस्स रेहइ ११  
 त नमह जस्स वच्छे ८  
 त नमह जो जढायड-१३  
 त नमह भारई जीए १८  
 तं पणमह तिगिन्निच्छल ५  
 तं परिवद्धति खण ८२  
 तंबोलेरायअणुरगि(जि)याइ ४७६  
 तं मित्त कायव्व ७८३  
 तद्वियसकयाहाया २९३  
 तनुने(ते)यफुरणपयडिय-५४४  
 तस्स पईवस्स सयं ७९४  
 तह नीससिय जूहा-७५०  
 तह पावियखडण-पीलणो ३१८  
 ता अत्थसेलसकेय-५२०  
 ता उम्मोइत्त.....३२२  
 ता चक्खुरायपरिपीडियाण ३६०  
 ताण नमो पिम्माण ४३३  
 तारावइणा ज तारयाण १४७  
 तारोसहिं समावट्टिऊण ५९४  
 ताव य कोवावसरो ४०९  
 ताव य पुत्ति ! छइल्लो ३७९  
 तिक्खो वि खरो वि सलोहओ ७८५  
 तिसु जे अवत्थपुव्वा २३६  
 तुंगत्तणं गर्यदे १८१  
 तुंगो थिरो विसालो ४५७  
 तुह सुहसारिच्छं न लहइ ३०३  
 तुह रिठणो नाह ! सुहत्यिणो २०४  
 तुह सुयणु ! न रुसिज्जइ ४८४  
 तुहिणंसुमडलमिण ५६७  
 तुहिणकरसीयलो च्चिय ३३  
 तुमि(! नूर्मि )ति जे पहुत्त ३९०  
 ते अइगाहिरा फुडफेण-३४  
 ते घजा जे सुमुहि(ही)- ४१७  
 तेयस्सीण पसाओ ११७

तोसो मणस्स कस्स वि १४३  
 थणवट्टिहमासाइस्सण ४८८  
 घेठेण नि विणएण ३५१  
 दंतच्छोहं तडविडविमोडणं ७४८  
 दनुल्लिहणं सव्वगमज्जण ७४९  
 दक्खिण्णेण विरत्तो ४६८  
 ददट्टण त जुयाण २७०  
 ददट्टण तुज्झ उदय २१९  
 ददट्टण दिवसनाह ६९४  
 ददट्टण सामिमाल २७३  
 दद्वमहिलासहावो ६०२  
 दद्वो चंढणविडवी ८०३  
 दटनेहनाल्पसरिय- ४२३  
 दटमतुदूमियाइ वि ४४६  
 दढरोसकलुसिअस्स वि ७४  
 दरविहडियवयणविणित- ५,५९  
 दाडिमफलं व पिम्म ४२६  
 दाणं दितस्स वि खणड ७४७  
 दाणेण तं न विणएण ३५२  
 दाहज्जरविहुराण ४३७  
 दिताण दाणमेव हि १२८  
 दिति फलाडं जहिच्छ १३३  
 दितो जल पि जलओ १३२  
 दिग्गयकओलवियलिय- १७४  
 दियहे दियहे त्र अहिय-६२०  
 दिवस-निसाघडमाल ८११  
 दिवसमुहगयसमुम्मूलियाइ ५८४  
 दिव्वन्मि परावुत्ते ८०४  
 दिव्वयसा पडं जंयुय ७७०  
 दीणस कुयमाणो ८०८  
 दीवयमिहाओ रेहंति ५२१  
 दीवेसु तिमिरसराशरी ७९३  
 दीसद न च्चुगमउल्लं ६८३  
 दीसद विमले ससिमउल्लम्मि ५६६  
 दीसंति ओयसिदा १५६  
 दीसंगो मयणसुही ३३२

दीससि पियाइं जयसि ४७०  
 दीहसुणालेहि व पसरिएहि ५५८  
 दीहरदिणम्मि गिम्हे ६९६  
 दीहरफणिदनाले ८१३  
 दुवखं दितो वि सुहं ३४७  
 दु च्चेय पत्तरेहा ५२  
 दुल्लहजणाणुराओ ४२८  
 दु(सु)व्वमसि पियाए ३३६  
 दूरायय त्ति आयर-२७९  
 दूरेण निहियममुहा ८२४  
 दूरेणयगरुयपओहराए ६६४  
 दूपहसतावभया ६९३  
 देवघराण वि काण व २४८  
 दोमुह । निरक्खर[य] लोह-१०२  
 दोसायरेण वियसइ ५७८  
 धन्ना ता महिलाओ ४९४  
 धम्मे लग्गा इह मग्गणा ७८४  
 धरिओ धरिओ वियलइ ३९९  
 धवलस्स नेय भारो ७६५  
 धवला मइलणसीला ८१८  
 धीराण रमइ घुसिणारुणम्मि १६६  
 धीरो आरकरिकुंभयड-१८४  
 नदठ सच्छंदगइ १५  
 नक्खत्तमालिया मह ५८७  
 न मि(वि)णा ज सहइ गुणो १२२  
 न सुयति गाडलग्ग ४०७  
 न सुयंति दीहसासे ४८३  
 नयणनईसु य जिस्सा ३०९  
 नयणाइ सवाणियपत्त-३६५  
 नयणाइं सामलीए ३०८  
 नरसिरक्वालसमसीसियाए व-५७४  
 नरसिरक्वालसमसीसियाए म- ५५१  
 नलिणगुणे पसरियकटयम्मि ६०१  
 नवकुंभरत्तपओहराए ५३३  
 नवजोव्ववाण पिम्मवलाण ३७२  
 नवणलिणमुणाडुल्लोल- ७७४

नवसरसर्वतमडल- ३३७  
 न वि तह अणाख्वंती ४५३  
 न वि तह वूमैइ मणं १३५  
 न सहइ अन्भत्यणियं ११०  
 न सहइ मयककिरणे ६०८  
 नहयलविसालफलए २२७  
 नहरेहा जीए उरम्मि ३४०  
 न हु एत्तिणण वो(हो)ही ७९९  
 न हु महुमहस्स वच्छे ९२  
 नारंगभगसंजणिय- ७१५  
 निठणविहिकम्मनिग्गमय- ३००  
 निति तुह विरहहुयमह- ३८८  
 निग्गूढ पोरिसाण ७४१  
 निद्दच्चिय वंदिज्जइ ४९३  
 निद्दामंगो भायदुरत्तण ४४८  
 निद्दम्मो गुणरहिओ १०९  
 निब्बिडचवेठवियारिय-७४४  
 निब्बिडदलसंचियं पि हु ६२५  
 निम्मलपउत्तहारा २८६  
 नियजूहासिद्धस्स वि ७५१  
 नियनामपयदणरथ ५४३  
 नियवति थिय त्ठमड- ८२७  
 निवससि दुपन्नमहाया ३८७  
 निवसइ ष कसिणन्भनिसाण-६५६  
 निसियत्तरनहरपहरण- ७३९  
 नीयंगभाहि बहुअणपयाहि ६५२  
 नीया वि समत्थेहि १२०  
 नीलमणिकुट्टिमं अथ ७०  
 नीलसिथ क्यसि सिज्जसि ७६०  
 नूनं तिणमपभयक्यर- ३५९  
 नूनं घणुम्मि तुह पडु । १९२  
 नेहकखयं कुणती ८२३  
 पदं सुक्खेण तरवर ७१४  
 पदयो सुलहाइं पण्णाइं १८७  
 पदियहं विअंभते ६५

पंक्यनयणेहितो ६१०  
 पंचाणननहमुईकियाई-७४५  
 पणइस्सलेसु वि पियंवएसु ११८  
 पच्छामुहो [वि] वियरइ ५१६  
 पडिपिपिओ जीए कवोल-३०७  
 पडिपयणेसु तेयस्मिणा २४४  
 पडिपज्जतो वि यया ४  
 पडिवन्नपक्खवाओ ७८  
 पडिवन्ने भिव्वहण ५३६  
 पढम निय धवलकओ-६  
 पढम चिय पढमजिणस्स ३  
 पढमारंमे मणहरघणलरग- ४०८  
 पढमोगमतरेहामत्त ५९५  
 पणइण देव । दितो २१६  
 पणमह पणमंतमहाकईद-१७  
 पणमह पणयपकुवियय-१२  
 पणमह पुरिसोत्तमनाहि- १  
 पणयकुवियाण दोन्ह वि ४५१  
 पयमुन्नयमहिरोहति २५०  
 परपयणापवण्ण (पू० १३ टि० )  
 परपुरपवेसविन्नाणलाहव ३५४  
 परिओसविद्यासएहि ३६१  
 परिणालिय तं विम्म ८१४  
 परिणमकालसिदिलस्स ५२३  
 परिघाराण सुयणत्तणं १४८  
 परिहाजलसंवंतो ६३  
 पत्रए महागुणण १३८  
 पवणधुरियाधरुवो ६८२  
 पविरत्तंसनमंटेण ६०७  
 पवमिमसोहासमहरस्स- ८७  
 पवयथिअ । अज गुमए ४३४  
 पवुयदणो रोसाण-१५  
 पवरत्ते पि न तणिय ७७९  
 पवमि लेहि मई ७१९  
 पवरेहि पविरतो ५३०  
 पवमवत्त पईदं २१



पाठससिरि व्व उन्नयपओहरा ३१५  
 पाठं ओन्हामइर ५८५  
 पाठुण पाणियं सरवराण ७६८  
 पाठुण वि कोसरस ६३१  
 पाणिगहिया वि पुरओ ७०४  
 पाणिगहिया वि चिरं २११  
 पायडियनेहसवभाव- ३५५  
 पायडिया वि हु अहला ६०४  
 पायवडियो न गणिओ ४४९  
 पायालो(?) लु)यरगहरीहिं ४९  
 पायालोयरगमणा ६६८  
 पिट्टिडिएण रेहइ ३१३  
 पिट्टिनिसन्ना वि पिया ४५२  
 पिम्मस्स विरोहियसधियस्स ४०९  
 पियदंसणसरहसमठलियाइं ३६७  
 पियवलिंवरहियाणं ३७४  
 पियसंभरणपलोदंत-५०६  
 पियहोत्तं जाण विलासिणीण ३६४  
 पियहोत्तं पंजलयं ४९१  
 पिसुणो अइदित्तगी ७५  
 पीओ आईइ रसो ६२३  
 पीणा घणा सुद्धं २९४  
 पुणरुत्तपसारियदीह- ७५८  
 पुन्निमससि व्व छिजइ ३८६  
 पूयफलेहिं चिय केवलेहिं ७८७  
 पूरिजंतो वि जलेहिं ४३  
 पुरिसा जे गुणरहिया ९८  
 पुरिसाण कुलीणाण वि १००  
 पणसेहिं सम महिमंलडम्मि ७२२  
 पणिणो सिराइं धुत्ता ८२६  
 पुट्टंति जेत्तिएणं ५७५  
 पुट्टंतेग वि हियएण ४१०  
 पुग्गियग्गवस्व तुह ५९१  
 पनडगएधोत्तिर- ६६०  
 बहुलयरएण बहुओ १९४  
 बहुओ वि क्खिज्ज ३९७  
 बहुओइया(ग्ग)ओ शविहवाओ ३०५

बाहभरभमिरतारं ४४५  
 बाहुल्लफुरियग्गंडाहराए ४५०  
 भइं कुलगणाणं जासिं ८२२  
 भमरो भमिरो त्ति गुणुज्झिणहिं ६२९  
 भमरो व्व फुडियहिययो ६८५  
 भरिउव्वरियं विहिणो २९८  
 भरिओव्वरंतपसरिय-५०८  
 भसलो विसट्टकेयइ-६३४  
 भुंजसु सिणेहजुत्तं ३७७  
 भुंजति कसिणदसणा ७४६  
 भोअण धोविणि जलवहणि [पृ. ६४टि०]  
 मज्जे जडाण निवसतयस्स ५४९  
 मडयावत्थाभरणा २६८  
 मणहरवण्ण पि हु कणिणयार- ७२१  
 मन्ने न भय न ससं ६१५  
 मयणग्गिणा ण ज्जसि ४६६  
 मयणग्गिणो व्व धूमं ३१४  
 मयवसमयरभमरेहिं को (?) ७३०  
 मयवहण ! मह निमित्तं ३८२  
 मरगयमजीरमऊह- २८९  
 मलिणायारं ददहण १०६  
 महणारंमे मदररवेण ७७५  
 मह मणवल्ली तुह वयण-३८०  
 महिऊण महाजलहिं १८२  
 महिलाओ कमलिणीओ ८२०  
 महिलासहस्सभरिए ३९१  
 महिहरत्तणया रयणा- ८१७  
 महुमासवासराण १४९  
 महुमासवियसियाए ६१८  
 महुरोत्तावसच्छणो १५७  
 महुसमए वि हु जाओ २८६  
 माणंसिणिमाणगयंद-६८७  
 माणेण मह मणाओ ४४४  
 'माणो' इमाइं दोअवसराइं ४४०  
 मा मा विज्जसु सहिए ! ५१४  
 मामि ! सरिसडक्खराण वि ३७८

मा स्यसु सुयण ! छेयाण २६०  
 माल्द्विरहे रे मुद्ध । ६२४  
 मा वच्चह वीषंभं ८१५  
 मासच्छेए जो धाइ ५६९  
 माहृप्प त खल्ल लवणिमाए ४१  
 मा हु नियच्छसु एय ३२७  
 मित्तऽथमणुव्विग्गा ८२१  
 मित्तऽथमणे ओ ! ससहरस्स ५६३  
 मित्तऽथमणे विपसति ५७९  
 मित्तं पयस्स सल्लिखेण ७८२  
 मित्तम्मि गए दोसायस्सगमे ५३७  
 मित्तविरत्तं पि पिय कुमुयं ५७३  
 मित्तस्स सयासमुहे ६११  
 मुद्धे ! तवेसि चेदाणणा ४६३  
 मुद्धकुहरंतरणिज्जत-६७८  
 मुहचंदमसंदिद्ध २९५  
 मूलाहितो साहाण ७०९  
 मेह ष सजलघारं २२८  
 मेहा इव दोजीहा ११४  
 मोण कालविलंबो ( पृ० १३ टि० )  
 मोत्तूण निययनाहं ५११  
 मोत्तूण पत्तनियरं ७१३  
 रक्खत्तु वो रोमलया ९  
 रच्चंति नेय कस्स वि २६१  
 रच्चवति, न रच्चति, २५९  
 रणरणयरुज्जहुच्चल-३८३  
 रत्तासु वि जे रच्चंति ८३३  
 रत्ते रत्ता, कसिणम्मि कसिणया २६२  
 रयणायरस्स न हु होइ ३१  
 रयणियरा इव उदयं ६४१  
 रयणिरमणीए ससिणियकर- ५७२  
 रयणेहि निरंतरपरियत्तम ३०  
 रयिकणियम्मि पियडे ५२५  
 रबिनिबडणविहट्टियजलहिसमित्तपाय- ५२२  
 रबिनिबडणविहट्टियजलहिसमित्तमग्गु- ५२८  
 रससरिमाए तीए २९६

रायंगणम्मि परिसठिस्स ७५५  
 रिठरमणीभाणणकाणणेसु २१४  
 रूवेण से न सरिसी २९२  
 रे भमर ! तए मुक्का ६१६  
 रेवाणइतीरुक्कपिएण ७५४  
 रे वाहा ! मग्गेण बहु [ पृ. ५० टि० ]  
 रेहइ कररुहरेहा ३२५  
 रेहति कुमुयदलनिच्चल-५७७  
 रोवत्तु नाम तं जण-५०२  
 रोसेण वि जर्पती ३४७  
 लघुवित्तस्स वि पहुणो ११६  
 लच्छीए गाढमालिगिओ २१३  
 लच्छीए गुणा नियमेण १२५  
 लच्छीए विणा रयणायरस्स ४५  
 लच्छीकरकमलवियासरेणु-१६४  
 लच्छी धूमा, जामाठओ हरि ४०  
 लच्छीलयाइ मूल १२७  
 लच्छीलीलाकमळे ६३२  
 लच्छी-सरस्सईण १२४  
 लज्जा चत्ता सीलं च खडिय ३३९  
 ललिए महुरऽक्खरिए २०  
 लहइ गरुयत्तणं चिय १३४  
 लहिरुण जल थोवं ६४६  
 लहुएण वि गुरुआलंबणेण २४९  
 लीलाए कुवलयं कुवलयं ७८६  
 लीलानिहलियगयद-७४०  
 लीलावलयणेण वि २५६  
 लुलियालयं मुह से ५१५  
 लोए फलाण मज्जे ६७९  
 लोहमयस्स वि मल्लिणस्स १५३  
 लोहमयी गुणमुक्का २८०  
 वरुं को पुलइउत्तइ ? ७०५  
 वंक्कपरिसंक्कियाण ३२६  
 वंक्कमणिदाई कत्तो २५५  
 ववो कल्लिपिहवो ५४७  
 वड्डयानत्तसंक्कियं ६४९

वद्वियाम्बोहराए ७२९  
 वयण-नयणपपहानिज्जयाण ४६२  
 वयणारविंदनीसद- २९९  
 वयणिज्ज विच्छिय विहडियम्मि ८२९  
 वयणेण इमीए विणिज्जियाइ ३०७  
 वरतरुणियोरघणसिहिण-३४५  
 वरतरुगिनयणपरिसठियस्स ३६६  
 वर-वहुयाण हत्था ३३१  
 वसइ ऋहिं चैव खलो १०७  
 वसणाइ रिद्धिसमुदुरेसु ८०७  
 वससि ऋहिं चिय हियए ४७४  
 वमिळण तह य सह कुबुडणीए ६१९  
 वारं वार विणिवारिआ ३८  
 वाहिं व्व विज्जरहिओ ५०७  
 विज्ज । जरो न हु एसो ७०२  
 विइवियगुणो दोसेक्क-१०३  
 विद्धो वाहेण मओ २७६  
 विमलमयंकाहरणो ६५९  
 विमलेण वि क्ह उवमा ७६  
 वियडससिमडलायंत-१०  
 वियस्सियतेएण वि ससहरेण ५१७  
 वियत्थियमएण गय -७५३  
 वियसइ को न पयत्थो ५९७  
 वियसइ मालइकलिया ६१३  
 विरला उवयरिळणं ८८  
 विरसाइं जाइं पमुहे २३२  
 विरहकरवत्तदुसह-५०५  
 विरहफिसियाए तीए ४९८  
 विरहगिगनावतविए ३९२  
 विरहविसतवियहियया ४९७  
 विल्याटलार्हं वित्थिन्न- ६९  
 वियरि(री)यडदच्छिपलोइएहि ४८९  
 दिवरोयरं लच्छी २६५  
 दिवरम्मुहा वि गरुया १७६  
 दिवमाययवडियस्स वि ६०९  
 विस्सोमुपदोनाहस्स ३९७

विहलं पडिच्छिउं गुरुययाण ४६  
 .... ..विहिणो लत्ताइरजिय-२९१  
 विहितो [हिओ] जिणिसर- ८३५  
 सउणोवभोगजोगं ७११  
 सगो महुएहिं समं ६००  
 सझायवपल्लवियस्स ५६५  
 सझाराओत्थइओ ५४५  
 सझारायायव ५३१  
 सझावघरे सझावहूए २२०  
 सतगुणविष्णणासे ८०१  
 सतवइ गसइ पव्व १६१  
 संताविळण लोयं ६५५  
 सता वि गुणविसेसा १५९  
 संता वि गुणा गुणवतयाण १६२  
 सताविय न विहडइ ४१२  
 सतावियाइ अम्हे ४२२  
 संपुण्णकोसदहं १९३  
 संपुन्नकोसदहं ५९२  
 सग्गाओ हरं गंगा ८१९  
 सच्चं कलहे कलहे ४५६  
 सच्चं कञ्जनिहि च्चिय १८६  
 सच्चं चिय ससिणेहो ३७५  
 सच्चं चैय भुयंगी ५६  
 सच्चं धवलो सि तुमं ४६९  
 सच्चरियनिम्मलाण ९४  
 सच्छाण सुचित्ताणं ७९८  
 सज्जणसणेण वि दुज्जणस्स १०४  
 सत्तण पायवीडे १८९  
 सट्ठिमो तुज्ज पियत्तणस्स ४७९  
 सव्भाध पडुहियए १७८  
 सव्भावखलाण वि कुणइ ९३  
 सव्भाधपिम्मरहिणसु ४३६  
 सव्भाधसिणेहनियेइरीए ४०६  
 सव्भाप्रलुत्ततारय । ५८८  
 समए च्चिय कीरता २४२  
 समचित्ताइ वि धरिणीए ३८४

समरम्मि जस्स खरगो २३०  
 समरम्मि जो समग्गे २१५  
 समरम्मि तुज्झ खरगो २१०  
 समरे धारागोचर १८५  
 समसुख-दुक्ख सवड्डियण ४१९  
 सयलजणनयणकड्डयं ८१०  
 सयलेण भुवणपरिणयडेण ५६०  
 सरलाभो नवनवाभो ७६२  
 सरस पि नल्लिणवत्तं ५००  
 सरस मठयसहाव ५४८  
 सरसा निहसणसारा २८७  
 सरसा वि हु कव्वकहा १९  
 सरसा वि हु सुसइ च्चियं ३९३  
 सव्वगनिव्वुइकरो ४३९  
 सव्वम्सम्मि वि दह्ढे ६९८  
 सव्वायरेण रक्खह ७८०  
 सव्वो च्चिय पियविरहे ४९२  
 सव्वो दिवसस्स वसो ५१८  
 ससिकच्चोलयढल्लिभो ५७०  
 ससि-बाण-सुरवरिसे ८३६  
 ससिवयणाए जणो जं ४९६  
 सहइ दरदल्लियमालइ-६२२  
 सहइ समूलाण समुण्णयाण ८०  
 सह उच्छयं जणं दुत्तलह ७००  
 सहजग्गिराण सहसोविराण ४३२  
 सहयारमज्जिं वज्जिऊण ७१७  
 सहस त्ति जं न दिट्ठो २५७  
 सहि । एरिस च्चिय गइ ४२०  
 सहि । दूमिति कल्लभाइ ६५०  
 सहि । सुणसु मह पठत्ति ५०३  
 सा जयइ का वि कीला- ६१२  
 सा तरुप मियकस्स व ३२९  
 सा तुज्झ कए गयमय-४०३  
 सा दियह च्चिय पेच्छइ ४०५  
 सा नु(१)ह द्वियए त मह ३३५  
 सामन्नसुदरीणं २८१

सामाइ नयणसोत्ते ३५७  
 सारं कलाहिरामत्तणस्स ५५०  
 सारिच्छयाइ गिण्हइ ४६०  
 सालकाराहिं मणोहराहिं २६  
 साद्धरो कसिणभुयंगमस्स २३३  
 साविक्खो दहवयणो १६८  
 साहीणामय-रयणे ३६  
 सित्थेण किं व रित्त ७५६  
 सिद्ध त मज्जिज्जइ २३७  
 सियकरकिरणनिरंतर - ६४  
 धिरिशीलसूरिसिरी-८३४  
 सिसिरत्तणावलेवं ७२०  
 सिहिपिच्छकज्जरा २६६  
 सीय गमति विरहानलेण ६७३  
 सुदर । तुमाओ अहिय ४८२  
 सुद( ? दे )रतुलिय ; कदप्प ! ३२१  
 सुकइवयणऽण्णवाभो २  
 सुपभोहराए सुहडो १६९  
 सुयणत्तण न केण वि ९७  
 सुयणो तुसारसरिसो ९६  
 सुयणो-मुहा किलम्मइ ११५  
 सुरगिरिणो किं तुगत्तणेण ७२७  
 सुव्वंतभिभीसणमेघघोर- ६४३  
 सुहओ त्ति जियइ विद्धो ३७०  
 सुहडाण समरवज्जत-१८८  
 सुहडो न सो पयणो २४०  
 सुहमेरुघडियतवणिज्ज-५२४  
 सुहिए सुहियाइं रविम्मि १४५  
 सेसफणामणिदप्पण-७  
 सेसेण सिरं दिन्न ७८१  
 सो अत्तमयइ [ ? य ] ससो ५८६  
 सो केण विज्जमविज्जइ १६७  
 सो को वि गुणो गोवालियाण ५३  
 सो को वि समुप्पन्नो ७२६  
 सोक्खाइं तुमाहितो ३९४  
 सो जयठ जेण सुयणा ८१



## सुभासियगाहासंगहाणुक्कमो

अंधारिकण वयण १४  
 अन्नासन्ने परिगलइ २४  
 अक्छठ तावऽन्नजणो ३१  
 अणमिसनयणाए मए १०१  
 अणवरयसलिलनिवडंत- ८६  
 अणहुता वि हु हुंतीए ११  
 अणुयत्तह भणह पिय ९३  
 अणुरायनिब्भरं पि हु ५३  
 अ(थ)क्के भणियं सोहइ १२६  
 अत्ताणं चिय दुहरं ४२  
 अत्यवर्णं पहरपरव्वसाण ७२  
 अइंसणेण पिययम ! ५४  
 अन्न चिय सा जाइ ७६  
 अपरिविस्वयक्यकज्जं ३६  
 अब्भत्थिओ वि सयवत्त- १७  
 अयसाभियोगसंतावियस्स ९०  
 अवणिज्जइ हारो कामिणीहि १२  
 अविरयरयकेलिपसग- ८१  
 अव्वो! न जामि खेत्ते ६५  
 उक्खणइ णई नियइं (?) ४७  
 उज्झति घण, छडुंति ३०  
 उण्हाइं नीससंतो १०५  
 उप्पयइ गयणभग्गे ८०  
 उवभुजितं न सक्कइ २३  
 उवयारो कीरइ खलयणस्स ४३  
 एककेण वि तीरत्तड्डिएण ७७  
 एसो बोलेइ सही ६०  
 ककेल्लिपल्लवुव्वेळ- ६९  
 कज्जम्मि समावडिए ९५  
 कलियामिसेण उब्भेवि २  
 कसिणोज्जलो विरायइ ७०  
 कह तम्मि निव्वविज्जइ ७१  
 कह रक्खेठ वराइं ६६  
 कीरंति जाइं जोव्वणवसेण ३३

केत्तियमित्तं च धरा ३८  
 खंडिज्जंतो वि ससी ७४  
 गयणगणपरिसवकण- ७५  
 गरुयत्तणस्स को मामि ५  
 गरुयाइं चिय साहइ ९९  
 गरुयाणं गरुय च्चिय ४८  
 गुणजाणए च्चिय जणे १२८  
 गुणिणो विहवारुढाण ६८  
 छिज्जठ सोस, अह हौठ २९  
 ज उप्पलस्स पत्तेण ९२  
 जंपतो अविहत्तविगग्हो (?) १०४  
 जंपसि मुणालसरिसं हियए १२३  
 जपसि(सु) मुणालसरिसं जं ९४  
 ज सत्थेसु न सुव्वइ ११८  
 जइ मडलेण भसियं ४५  
 जइ सा लायन्ननिही ५८  
 जत्थगओ तत्थगओ १२४  
 जत्थ सरे मज्जिज्जइ ६४  
 जम्मि तुम अइनेहा १२३  
 जलहिविसघडिएण वि ११२  
 अह बरहिणस्स छज्जइ ७९  
 अह भायगा संगहसि ८७  
 अह मूसयस्स एककेण १२७  
 अह हसो माणससर-७८  
 जाइंसराइं मन्ने ५२  
 जाओ सि कीप्प दुग्गय ४१  
 जाहं न भत्थी गुज्जिअरसुं १२०  
 जेण विणा नं दंलिज्जइ ९६  
 जो अत्तियस्स अत्थस्स २२  
 जो रुक्खइ सो लोणिया(य) ११९  
 जो विसमम्मि वि कज्जे १०७  
 ठाण गुणेहि लब्भइ ११३  
 ठाणेसु गुणा पयडा २५  
 तं किंपि क्य रइसंगमम्मि ८४

तं सद्ं तं धवलत्तं २०  
 तइयपयं अलहंतो ३९  
 तह वैहि एक्कमेक्कं ८५  
 ता निरगुण च्चिं वरं १६  
 ते घना अन्नभुमगमेहि १०३  
 थक्के भणियं सोहइ १२६  
 दद्रूण तरुणिसुर.... ५९  
 दढलोहसंकलाण य ३२  
 ददो वि दहइ अंग ११०  
 दीसंतो अमयमओ ५०  
 धूर च्चिय पम्मुक्का १३  
 दो पुरिसा घरत्त घरा ४४  
 नाऊण वि विन्नाणं १२५  
 निज्जंतो कम्मपरव्वसाहि १०६  
 निव्वदियपुरिसयारे १९  
 निव्वत्तसुरय! ज ११मुहत्तण ८२  
 नूणं...रत्तलकालकूड-८  
 पच्छामिसुहो वच्चइ ७३  
 पडिक्कयणसमत्थेण वि ४६  
 पडमं च्चिय रोसवसे ३५  
 पत्ते पियपाहुणए ६७  
 परएसगयाणुम्माहियाण ११६  
 परपत्थणापवन्नं ४०  
 परपुरव्वेसविन्नाण-५७  
 परिणमियकज्जपरिभावणाए ३४  
 पवणुद्धयपल्लवकरयलेहि ३  
 पसयच्छि ! परसरीरे ५६  
 पसयच्छि ! सो क्यत्थो १०२  
 पालिसय! कहसु फुडं ८९  
 पुरिसन्नु बाल(!) खेत्तलनयस्स ६३

पेच्छंता वि न पेच्छंति १०  
 पेच्छह पवरवहूण ८३  
 महिउं महोअहि, महुमहो १५  
 मालइकलिया मयरंद-४  
 सुहराओ च्चिय भन्नड ५१  
 रच्छाणुमगवडिओ १०८  
 रुंसंति दूहवा सूहवाण ४९  
 रेहइ च्चिय लंबिरकेस-६२  
 लंका ल्या पलासा १  
 लच्छीकरकमलवियास-६  
 वसच्छेए वि कए २८  
 वयणिज्ज च्चिय मरणं ३७  
 वरतरुणिनयणपरिसंठियस्स २६  
 वरतरुणिसिहिणपरिसंठियस्स २७  
 वरिसति न मेहा गज्जऊण ११४  
 विद्धो जियइ सुहेणं १०९  
 विरसाइं जाइं पमुहे १२१  
 सज्जणसलाहणिज्जे १००  
 सच्चभाववाहिरेहि वि १११  
 सरिसे वि जलणदाहे ९८  
 सरिसे वि मणुयजम्मे ९७  
 सव्वंगनिव्वुइकरो ११७  
 ससहर ! हरिणद्धाणि ८८  
 साहीणामय-रयणो ११५  
 सिक्कार कुणिरकुररव-६१  
 सुइ-दिट्ठिवायहरणे ९  
 सुयणो सुद्धसहावो ९१  
 सुरायवपप्फुट्टंत-७  
 हारो उरस्स,सवणाण २१  
 हियए च्चित्तुत्तिन्ने ५५  
 होही वली सुरिंदो १८

## सुभासियपञ्जसंगहाणुक्कमो

अइक्किविणो चैय तुम ४९  
 अइमुद्धमउयचवलो २१  
 अइवंकदीहरा जण-६  
 अट्टाणट्टनिलयण ९  
 अन्नायगुणविसेसम्मि ७९  
 अन्नेसिं सोहयं ७  
 अमयमओ वि हु दाहं ५  
 अमयमयवयणमविराम- ३१  
 अमयरससारमुल्लचिऊण २४  
 अवराहो वि हु वल्लह-१५  
 अवियलि[य]मप्पणु च्चिय ६७  
 अहह ! मह मणुयजम्मो ८६  
 अहह ! विहिणो पउत्तं ९०  
 आयन्नाण गुणाण २५  
 ईसरसिरिपत्तो वि हु ८९  
 ईसा-विसाय-भय-कोह-७८  
 उन्नमिऊण नहयले ५३  
 उवजुज्जती कया वि हु ६२  
 एसो अलद्धदुल्लह-२७  
 किं तेणावि घडिज्जइ ६५  
 किं दुल्लहमुवएसो ८०  
 किं भणिमो नवजुवईण १  
 कुप्पंति वल्लहत्थे ८  
 कुविण कयंतेण २०  
 कोदंडकोसलेण २३  
 गंगासंगेण विणा ३२  
 गयनेवच्छा वच्छे ! २  
 गाणं कंठपमाणं ८१  
 घरिणी लच्छि व्व महा-३३  
 चंदमुहि ! अमयवयणे ! ८३  
 जइ विहवीण विणीयं ५४  
 जगिरसोहगाणं १६  
 जस्संतरावयासो ११  
 जह सजलमेहलेहाए ६९  
 जा कुडिलनीयगमणा ८७

जूयं घणाण वसणं ४२  
 जे निव्वासविया वि हु ९१  
 जे वरिसंते वि चिर ६८  
 तइं गिण्हिय चावलए ५२  
 तं दच्छंति सहरिसं ४०  
 त सुयणा जं वसिया १२  
 तण्हाए तरलनयणो ४१  
 ताओ गुणाण खाणी ३४  
 ताण कुलनालियाणं ३५  
 ताण नमो समणीणं ३६  
 ताव हु सील लज्जा ८२  
 तित्थाण सुपुरिसाणं ४५  
 तीए तिजयं पि कीरउ ३७  
 ते के वि कमलिणीए ७१  
 दप्पो गुणाण निदा ७५  
 दाणं दीणुद्धरणं ६४  
 दिट्ठं सिणिद्धनयणं २६  
 दिट्ठीए तस्स ससहर-३  
 दूरदुठिओ वि सु च्चिय १९  
 धन्नाओ ताओ कुलनालियाओ ५६  
 नयणाण वघण मण-३०  
 नयर महूसवमयं ४६  
 नवसंगरगनट्टावण ४  
 न हु तुह गुणे गहिस्सं ५०  
 निच्चं वरिससु दाणं ५९  
 पिम्मं तं चिय जायति ७०  
 पिम्मस्स पोढमहिलाजणस्स ४४  
 पीरुसप्पमुहाण वि ६१  
 पूनता देसंतरेहिं ७६  
 वद्धा गाढ गूढं च धारेया ७७  
 मं परिचिय पि उज्झिय १३  
 मन्तंति दुहं पि सुहं ५५  
 मन्नामि मामि ! किं वा ३९  
 महिमं महासईणं ६२  
 महिला पसायगहिला ३८



मुत्तं मालइपमुहं ५७  
 त्वं नयणाण गुणा २८  
 लज्जा कुलमज्जाया ४३  
 वल्लहजणस्स दुक्खे १०  
 वल्लहसयवासयमंदिरेसु १४  
 विणएहि गुणेहितो ८५  
 वित्तविवाह व गिहं ४७  
 विवलयधणाण दाणं ६६  
 विरहेणं चिय पियसंगमाण ७४  
 विहलियसाहारत्त ६३  
 विहवगणाण गम्भो ४८

वेरीणं मरणभयं ६०  
 वेहव्वनिच्चदुक्ख ८८  
 सच्चं रई चिय इमा २२  
 समरतिमिरम्मि सहलं ५१  
 ससिणेहणेहदहणे ८३  
 सुपुरिसभरियाए वि निहि(ट्ठि)याए ७२  
 'सुमरिज्जसु' त्ति पिम्मस्स २९  
 सुहडनरिदपयावो ५८  
 सो अत्थो जो हत्थे १७  
 सो सुहओ परमप्पुव्व-१८

## पैठमं परिसिद्धं

गाहारयणकोस-सुभासियगाहासंगह-सुभासियपञ्जसंगहंतगया

कश्चयविसिद्धसदा

सद्दो	अत्थो	गार्हकाई
अदाअ (देश्य)	आदर्श, दर्पण	४१०, पृ. ७२ गा. ७१
*उद्धंघलय (दे०)	धू धला, गुजराती-धूधळं	३५,
*उल्हवण (दे०)	विध्मापन	५१
उल्हविय ,,	विध्मापित	४९,५०
*ऊहर ,,	(१) निम्ननत	७९
कारिम ,,	कृत्रिम	२५६
कोट्टिम	(१)	३१९
खंखर (दे०)	शुष्क	३७६
*खुडुक्खुड ,,	खटकना, गुज० खटकवुं	६०
गलत्थिअ ,,	क्षित	४६
गडूर ,,	डेरा, तंबू	२९७
घुंट ,,	घुंट, गुज० घुंटडो	८४
छडल ,,	चतुर, विदग्ध २५५-५६ ५७, २६३, ३७९	
छयल ,,	"	२६२
ज्जेव (शौरसेनी)	एव	४५, ११५
*झलक (दे०)	गुज० झालक, छालक	४९
*झुलुक्किज्जंत,,	प्रदीप्त	३७६
ढल्ललय ,,	मृदु, कोमल	२९
*तिगिन्नि ,,	ब्रह्मा	५
धीउल्लिया ,,	पूतली	पृ० ७३ गा० ८५, पृ० ७६ गा० ३
*निउंछण ,,	न्योछावर	पृ० ७८ गा० ३७
वडल्ल ,,	वेल, गुज० बळद	३३६
वप्पुड ,,	दीन, गुज० वापडु	७५६
मडप्पर ,,	गर्व, अभिमान	२५४
मडह ,,	लघु, गुज० नातुं	९९, ११६, पृ० ६९ गा० ३९
मुद्धड	मुग्ध	२६८
मूयल्लिअ (दे०)	मृत	४१४
*मोलायंत	मुकुलयत्	५२५

१. अत्र \*एतादृक्कुल्लिकाङ्किता. शब्दाः 'पाह्यसद्महणव' ग्रन्थे नोल्लिखिता ज्ञेया ।

रिंछोली (दे०)	श्रेणि	३४४
लडहत्त ”	सौकुमार्य	३४८
वाजलय ”	पूतला; गुज० पूतल्ल	७८३
वाउल्लिया ”	पूतली	३९१
*सिहि ”	स्तन	५४, ३६८
सिहिण ”	”	२९५-९६, २९८, ३४२, ४५२
सीवणी ”	सुई, गुज० सोय	३४०
हलुइज्जइ	लघूभवति	५४
हियाली	हृदयाली, हरियाली	पृ० २१ पंक्ति १५
हीआली	” ”	पृ० १ पंक्ति ९

---

## विइयं परिसिद्धं

'गाहारयणकोसंतगय 'वज्जालग' गाहाणं ठाणनिहेसो

गाहारयण- कोसगाहंको	वज्जालग- गाहंको	गाहारयण- कोसगाहंको	वज्जालग- गाहंको
२९	पृ. २१८ गा ३१.७	१११	पृ. २२० गा. ६४.२
१०८	५२	६८१	६३५
२५८	पृ. २१४ गा. २४५.१	७१६	पृ. २६६ गा. ६४१.१
२७१	६१४	२२	१९
७५२	१९	७६६	१८२
२३	२५	७१२	७३७ <sup>३</sup>
४३०	३४६	२६८	६१३
४३१	३४७	२६७	६२३
२८	९	४०२	४१७
४२५	पृ. २४५ गा. ३४९.४	३५	७५२ <sup>३</sup>
२७५	६२१	८०६	७६७
२८४	५६०	५९	७४७
५३८	७२५	१०१	७७१
१७०	पृ. २२८ गा. १७८.३	२६३	२७९
४५४	३६४	४२४	३४५
५१	६८४ <sup>३</sup>	४११	पृ. २४६ गा. ३४९.७
६७३	६५	१६०	१४०
३८१	७४	६३५	पृ. २३३ गा. २५२.२
६८०	६३८	७५०	१९६
१३९	१५४	३७९	३४९
७५७	२२०	४५७	३६१
१५५	५८१	७४८	१८६
८१६	३१२	७४९	पृ. २२९ गा. १९९.२
५५	६००	४२३	३५९
८०५	१२६	४२६	३३४

१. अत्र 'गाहारयणकोस'स्य काश्चिद्गाथानां 'वज्जालग'गाथाभिरक्षरशः साम्यमस्ति, बहुसख्यगाथासु च परस्परमल्याधिकपाठभेदा वर्तन्ते ।

२. प्राकृतग्रन्थपरिषद्द्वारा प्रकाशित 'वज्जालग' ग्रन्थोऽत्र ज्ञेयः ।

३. अत्र 'वज्जालग' ग्रन्थे उत्तरार्धस्य पाठभेदो वर्तते ।

गाहारयण- कोसगाहंको	वज्जालग- गाहंको	गाहारयण- कोसगाहंको	वज्जालग- गाहंको
१५६	१४१	४५	७५०
३६५	२९१	२०	२९
७७४	२६१	२५६	२८३
११०	६०	२५५	पृ. २३५ गा २८४ ३
४४८	३५३	२६०	५४६
१०९	५३	३६६	६८०
६२५	२५२	५१७	७७३
२८६	५६४	७५३	१९०
७६०	पृ. २३२ गा २२६.३	२६५	६११
४०८	पृ २४४ गा ३४९.१	५६	५९८
३५४	पृ २६३ गा ४३८.५	२८७	५७५
४४९	३६२	१९	पृ २१७ गा. ३१ १
७५८	२२२	७८०	२६४
३९७	४३९	२५७	२८४
८२२	पृ. २५७ गा ४७१.१	४०३	४३५
६२९	२४७ <sup>३</sup>	४०५	पृ. २५२ गा. ४३८ १
६२४	२४१	२६	१०
७०९	६४५	३६	७६१
२६१	५४८	२७४	६१८
२६२	५५१	६९९	पृ २३४ गा. २५३.३
३१	७५५	३३३	४०९
३०	७५३	१२१	१५०
७५५	६७८	९१	११५

एतदतिरिक्तं 'गाहारयणकोस'गताना ५३४-७८३-८१५ तमगाथाना प्रथमचरणस्य क्रमश 'वज्जालग'स्य ७२२-६९-६१ तमगाथामि साम्यमस्ति, तथा 'गाहारयणकोस'स्य ७२२ तमगाथायाः पूर्वार्धस्य 'वज्जालग'स्य १५६ तमगाथया साम्यं वर्तते ।

## शुद्धिपत्रयं

पिट्ठस्स	पंतीए	असुद्धं	सोहणीय
२	४	तिंगिन्निच्छलं	तिंगिन्निच्छ(१न्नि छल)
३	२३	रजइ	रजइ,
*४	१	सविलासअद्धं	सविलासमुद्धं
"	१८	रयणे	रयणो
*,"	१९	उल्लसिरेहिं	उल्लसिरीहिं
५	१९	॥४०॥	॥४८॥
* ६	५	जं न	कि न
"	६	वि साहिया	विसाहिया
९	६	जित्तितेएण	जित्तिएण
*१०	७	वाण(१ चाव)विं	ठाणविं
"	१२	पावियं तेण	पावि(व)यंतेण
१२	१६	गुणाणा	गुणाणं
१३	२२	मामिखत्थेहिं (१)	मामि । खत्थेहिं
"	२७	परम्मसुहं	परम्मसुहं
१४	१९	यारिणी ते वि न	यारिणो ते वि न(१नो)
१६	२४	द(१द)लइ	दलइ
२१	५	सुयण	सुयणु
*,"	२१	पलोवए	पलोयए
२३	१०	होई	होइ
२५	१२	बालासुकहा इइ	बाला सुकहा इइ(व)
"	१७	वइइ	वहइ
"	२३	शङ्गारं	शृङ्गारं
२६	६	कसिण कं	कसिणकं
"	१६	वा(धी)उं	वाउं
२७	१	वीयं	वीयं
"	२१	घोरघणं	थोरघणं
२९	१	मुच्छाअ	मुच्छाओ
३१	२१	॥९६॥	॥३९६॥
३३	७	के	ते
*,"	२३	सयचलिय	सयदलिय
*३४	१०	काणेण	कालेण
"	२३	तीरई	तीरइ
*३६	१	ससियस्स	सुसियस्स
"	२७	मदेनालं	मदेनालं

१ अत्र \* एतादृक्कुल्लिकाविशिष्टानि शुद्धिस्थानानि 'वज्जालग'ग्रन्थानुसारेण शोधितानि ज्ञेयानि ।

४६	१२	°वर (१)	°वर !
४८	१६	°छप्पह°	°छप्पह(य)°
*४९	५	°संचिय	°संठिय
५१	२५	गोरीपई	गोरीपइ
५२	१८	सुरओ	सु(स)रओ
*५३		°समावहो	°समोहवो
५६	४	॥७१११॥	॥ ७११॥
*५९	८	°हिवइ	°हिव ! पइ
*,,	८	उन्निवो(उन्निवगो)	उन्निवो
६१	४	विट्टु	वि हु
”	२९	लग्गइ इह	‘लग्गइ इह’
६२	१	°बुद्धि	°बुद्धि
६३	२	°णामे संभारियाइ हि°	°णामे भरियाइ ताइ हि°
”	६	बन्ध च्चिय	बन्ध (धं) च्चि (चि) य
”	२७	१. °याइ	१. °णामे संभारियाइ
६४	६	°भक्ति°	°भक्त°
७३	४	°धीउलिय	°धीउल्लिय
”	९	ससहर	ससहर ।
”	२३	अणुयत्तइ	अणुयत्तइ
७४	२३	इट्ठो	इट्ठो
७५	११	(१ यो)	(१ य)
*,,	२१	जुय्(१ज्ज)इ दलम्मि	जुप्पइ हलम्मि
७८	१७	°जट्ठोए	°जट्ठोए
”	१८	छित्ता	छित्ता(न्ना)
८०	२	म	तुम
”	१०	॥६२॥	॥६३॥
”	१२	॥६३॥	॥६४॥
”	१४	॥६४॥	॥६५॥
”	१६	॥६५॥	॥६६॥
”	१८	॥६६॥	॥६७॥
”	२०	॥६७॥	॥६८॥
”	२२	॥६८॥	॥६९॥
”	२४	॥६९॥	॥७०॥
”	२६	॥७०॥	॥७१॥
”	२८	॥७१॥	॥७२॥
”	३०	॥७२॥	॥७३॥

